



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 20, 2005/पौष 30, 1926

No. 30]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 2005/PAUSA 30, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2005

सा.का.नि. 38(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से उम्र विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

3. आक्षेप या सुझाव यदि कोई हों उम्र विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संयुक्त सचिव, (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 110001 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटर यान ( संशोधन) नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 137 की सारणी 2 और सारणी 3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

## “ सारणी 2

## सूचक मानदंड

## (अ) विस्फोटक पदार्थ :

विस्फोटक से अभिप्रेत है कोई ठोस या द्रव या आतिशबाजी पदार्थ (या पदार्थों का घोल) या कोई वस्तु-

- (i) जो किसी ऐसे तापमान पर या किसी ऐसी गति पर गैस के उत्पादन की रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा स्वयं ही परिवेश को नुकसान कारित करने के लिए सक्षम हो ;
- (ii) जो ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, गैस या धुआं या इनके संयोजन द्वारा गैस-अधिविस्फोटी स्वयंघाती ऊष्माक्षेपक रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए डिजाइन की गई हो ।

## (आ) गैस

(1) गैस ऐसा पदार्थ है जो :

- (i)  $50^{\circ}$  सेंटीग्रेड पर 300 केपीए से अधिक वाष्प दाब ; या
- (ii) 101.3 केपीए के मानक दाब पर  $20^{\circ}$  सेंटीग्रेड पर पूर्णतया गैसीय है ।

(2) गैस के पदार्थ परिवहन के दौरान गैस की प्राथमिक परिसंकट पर आधारित एक के तीन निम्नलिखित विभाजन नियत किए जाते हैं ।

## (क) ज्वलनशील गैसें

ऐसी गैसों जो  $20^{\circ}$  सेंटीग्रेड और 101.3 केपीए के मानक ताप पर ,-

- (i) प्रज्वाल्य हैं जब वायु के साथ आयतन के आधार पर 13 प्रतिशत या कम का कोई घोल; या
- (ii) जिनकी कम ज्वलनशील सीमा का विचार किए बिना कम से कम 12 प्रतिशतता प्वाइंट की वायु के साथ ज्वलनशील रेंज हो । ज्वलनशीलता परीक्षणों द्वारा या अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन (आई एस ओ : 10156 : 1996) द्वारा या भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा. : 1446 : 1985) द्वारा अंगीकृत पद्धतियों के अनुसार परिकलन द्वारा अवधारित की जाएगी ।

## (ख) अज्वलनशील, निराविषी गैसें :

जो  $20^{\circ}$  सेंटीग्रेड पर 280 केपीए से अन्यून दाब पर या प्रशीतित द्रवों के रूप में परिवहन की जाती हैं और जो:

- (i) ऐसी श्वासरोध गैसों हैं जो वायुमंडल में सामान्यतः आक्सीजन में तनु या प्रतिस्थापित हो जाती हैं ;
- (ii) ऐसी आक्सीकारक गैसों हैं जो साधारणतया आक्सीजन देकर अन्य सामग्री के दहन के लिए वायु से अधिक दहन करित कर सकती हैं या योग दे सकती हैं ; या
- (iii) अन्य विभाजनों के अधीन नहीं आती हैं ;

## (ग) विषैली गैसें :

ऐसी गैसों जो मनुष्यों के लिए इतनी विषैली या संक्षारक जानी जाती हैं जिससे कि स्वास्थ्य के लिए परिसंकट

टिप्पण: उपर्युक्त मानदंड पूरा करने के लिए गैसें उनकी संक्षारकता के कारण किसी गौण संक्षारक जोखिम से अविचाल के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

(इ) ज्वलनशील रसायन :

(i) ज्वलनशील गैसें :- ऐसी गैसें जो  $20^{\circ}$  सेंटीग्रेड पर और 101.3 केपीए मानक ताप पर :

(क) प्रज्वाल्य हैं जब वायु के साथ आयतन के आधार पर 13 प्रतिशत या कम का कोई मिश्रण: या

(ख) जिनकी कम ज्वलनशील सीमा का विचार किए बिना कम से कम 12 प्रतिशतता प्वाइंट की वायु के साथ ज्वलनशील रेंज हो।

टिप्पण :- ज्वलनशीलता परीक्षणों द्वारा या अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ: 10156:1996) द्वारा या भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा.:1446: 1985) द्वारा अंगीकृत पद्धतियों के अनुसार परिकलन द्वारा अवधारित की जाएंगी।

(ii) अत्यंत ज्वलनशील द्रव.- ऐसे रसायनिक जिनका फ्लैश प्वाइंट  $23^{\circ}$  सेंटीग्रेड से कम या उसके बराबर है और जिसका क्वथनांक  $35^{\circ}$  सेंटीग्रेड से अधिक है।

(iii) बहुत अधिक ज्वलनशील प्रभाव.- ऐसे रसायन जिनका फ्लैश प्वाइंट  $23^{\circ}$  सेंटीग्रेड से कम या उसके बराबर है और प्राथमिक क्वथनांक  $35^{\circ}$  सेंटीग्रेड से अधिक है।

(iv) अधिक ज्वलनशील द्रव.- ऐसे रसायन जिनका फ्लैश प्वाइंट  $60^{\circ}$  सेंटीग्रेड से कम या उसके बराबर है किन्तु  $23^{\circ}$  सेंटीग्रेड से अधिक है।

(v) ज्वलनशील द्रव.- ऐसे रसायन जिनका फ्लैश प्वाइंट  $60^{\circ}$  सेंटीग्रेड से कम है।

(ई) प्रतिक्रियाशील पदार्थ :

प्रतिक्रियाशील पदार्थ वे पदार्थ हैं जो किसी अन्य सामग्री के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं और उनके स्वयं के अपघटन के माध्यम से गैसें उत्पन्न करते हैं। ऐसे पदार्थ अकार्बनिक क्षार (उदाहरण के लिए एनएओएच आयोडीन और वैसे ही) और अम्ल (उदाहरण के लिए एच<sub>2</sub>एसओ<sub>4</sub>, एचएनओ<sub>3</sub>, एचसीएल और वैसे ही) हैं।

(उ) आक्सीकारक पदार्थ :

(क) आक्सीकारक पदार्थ

ऐसे पदार्थ जो जबकि अपने आप में आवश्यक रूप से ज्वलनशील नहीं हैं, साधारणतया ऑक्सीजन देकर अन्य सामग्री का दहन कर सकते हैं या योग दे सकते हैं। ऐसे पदार्थ किसी वस्तु में अंतरविष्ट हो सकते हैं :

(ख) कार्बनिक परआक्साइड

ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनमें युगली-0-0 संरचना होती है और जो हाइड्रोजन परऑक्साइड के व्युत्पन्न समझे जा सकते हैं। जहां हाइड्रोजन के एक या दोनों परमाणु कार्बनिक त्रिज्याओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए

गए हैं, तापीय अस्थायी पदार्थ हैं जिनका ऊष्माक्षेपी स्व-त्वरक अपघटन हो सकता है । इसके अतिरिक्त उनमें निम्नलिखित गुणों में से एक और गुण हो सकता है :-

- (i) विस्फोटक अपघटन के लिए दायी होंगे ;
- (ii) शीघ्रता से जलना ;
- (iii) समाघात या घर्षण के लिए संवेदनशील होना ;
- (iv) अन्य पदार्थों के साथ खतरनाक रूप से प्रतिक्रिया ;
- (v) आंखों के लिए हानिकारक ;

(ऊ) विषैला :

विषैले रसायन -ऐसे रसायन जिनमें निम्नलिखित मात्रा में तीव्र विषालुता है और जिनके भौतिक और रासायनिक गुणों के कारण भयंकर दुर्घटनाएं हो सकती हैं ।

क्र.सं.	विषालुता	ओरल विषालुता (मि.ग्रा./कि.ग्रा.)	धर्मीय विषालुता (मि.ग्रा./कि.ग्रा.)	इन्हेलेशन विषालुता (मि.ग्रा./ली.)
1	अत्यधिक विषैला	>5	>40	>0.5
2	अधिक विषैला	>5-50	>40-200	>0.5-2.0
3	विषैला	>50-200	>200-1000	>2-10

1. एलडी <sub>50</sub> चूहों में ओरल
2. एलडी <sub>50</sub> चूहों या खरगोशों में क्यूटेनियस
3. एलडी <sub>50</sub> चूहों में इन्हेलेशन द्वारा (चार घंटे)

(ए) रेडियोएक्टिव :

रेडियोएक्टिव सामग्री से रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड कोई सामग्री अभिप्रेत है जहां परेषण में सक्रियता सांद्रण और संपूर्ण सक्रियता दोनों भारतीय परमाणु ऊर्जा द्वारा सामग्री के आधार पर निर्भर रहते हुए विनिर्दिष्ट मानों से अधिक हैं ।

(ऐ) संक्षारक :

संक्षारक पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक क्रियाओं द्वारा जब जीवित उतक के साथ संपर्क में आते हैं उग्र क्षति करेंगे या क्षरण की दशा में परिवहन के अन्य माल या साधनों को तत्त्वतः नुकसान या नष्ट भी कर देंगे । उनसे अन्य दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं ।”

## सारणी 3

## परिसंकटमय वस्तुओं की सूची

ई-विस्फोटक      एफ-ज्वलनशील      ओ-आयसीकारक      आर-प्रतिक्रियाशील  
सी-संक्षारक      आर ए-रेडियोएक्टिव      टी-दिव्यता      जी-गैस

क्र.सं.	नाम	ई	एफ	ओ	आर	सी	आर ए	टी	जी
1.	1 हेक्सेन	ई	एफ						
2.	1 मिथाइल पाइपरडीन		एफ						
3.	1.1- डाइफ्लोरोइथीलीन (प्रशीतित गैस आर 1132ए)								जी
4.	1,2-डाइक्लोरो -1, 1,2,2,-टेट्राफ्लूरोइथेन (प्रशीतित गैस आर 114)								जी
5.	1,1,1,2-टेट्राफ्लूरोइथेन (प्रशीतक गैस आर 134ए)								जी
6.	1,1,1-ट्राइफ्लूरोइथेन (प्रशीतक गैस आर 143ए)								जी
7.	1,1,-ट्राइफ्लूरोइथेन							टी	
8.	1,1-डाइक्लोरो-1-नाइट्रोइथेन							टी	
9.	1,1-डाइक्लोरोइथेन		एफ						
10.	1,1-डाइक्लोरोइथेन								जी
11.	1,1-डाइमैथोक्सीइथेन		एफ						
12.	1,2,3,6-टेट्राहाइड्रोबेंजलडिहाइड		एफ						
13.	1,2,3,6-टेट्राहाइड्रोपरिडाइन		एफ						
14.	1,2-ब्यूटीलेन ऑक्साइड, स्टेबलाइज्ड		एफ						
15.	1,2-डाइ-(डाइमिथाइलेमिनो) ईथेन		एफ						

16.	1,2-डाब्रोमोब्यूटेन 3-वन							टी	
17.	1,2-डाइक्लोरोइथिलेन		एफ						
18.	1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन		एफ						
19.	1,2-डाइमथोक्सीइथेन		एफ						
20.	1,2-इपोक्सी-3इथोक्सीप्रोपेन		एफ						
21.	1,2-प्रोपीलेनडाइमाइन					सी			
22.	1,3,5-ट्राइमिथाइलबेंजीन		एफ						
23.	1,3 डाइक्लोरोएसीटोन							टी	
24.	1,3 डाइक्लोरोप्रोपेनोल-2							टी	
25.	1,3-डाइमिथाइलब्यूटिलेमाइन		एफ						
26.	1,4-ब्यूटिनेडियोल							टी	
27.	1,5,9-साइक्लोडोडेकट्रिन							टी	
28.	1-ब्रोमो-3 क्लोरोप्रोपेन							टी	
29.	1-ब्रोमो-3 मिथाइलब्यूटेन		एफ						
30.	1-क्लोरो-1,1-डाइफ्लोरोइथेन (प्रशीतक गैस आर 142बी)								जी
31.	1-क्लोरो-2,2,2-ट्राइफ्लोरोइथेन (प्रशीतक गैस आर 133ए)								जी
32.	1-इथाइलपिपरडाइन		एफ						
33.	1-मैथोक्सी-2-प्रोपेनोल		एफ						
34.	1-पेंटोल					सी			
35.	2-(2-एमीनोएथीक्सी)इथेनोल					सी			
36.	2,2-डाइमिथाइलप्रोपेन								जी
37.	2,4-टोलीलेनडाइमाइन							टी	
38.	2,2-डाइक्लोरोडाइइथाइलइथर							टी	

39.	2,3 डाइहाइड्रोपिरेन	एफ						
40.	2,3डाइमिथाइब्यूटेन	एफ						
41.	2-एमिनो-4, 6-डाइनाइट्रोफिनाइल वेटेड	एफ						
42.	2-एमिनो-4-क्लोरोफिनोल						टी	
43.	2-एमिनो-5-डाइएथिलेमिनोपेटेन						टी	
44.	2-ब्रोमो-2-नाइट्रोप्रोपेन-1,3-डायोल	एफ						
45.	2-ब्रोमोइथाइल एथिल इथर	एफ						
46.	2-ब्रोमोपेटेन	एफ						
47.	2-क्लोरोइथेनेल						टी	
48.	2-क्लोरोप्रोपेन	एफ						
49.	2-क्लोरोप्रोपेन	एफ						
50.	2-क्लोरोप्रोपिओनिक एसिड, ठोस						टी	
51.	2-क्लोरोप्रोपिओनिक एसिड, घोल				सी			
52.	2-क्लोरोपिराडाइन						टी	
53.	2-डाइएथिलेमिनोइथेनॉल				सी			
54.	2-डाइमिथाइलेमिनोएसिटोनिट्राइल	एफ						
55.	2-डाइमिथाइलएमिनोएथेनॉल				सी			
56.	2-डाइमिथाइलेमिनोइथाइल एक्रिलेट						टी	
57.	2-डाइमिथाइलेमिनोइथाइल मेथैक्रिलेट						टी	
58.	2-एथिलेनिलाइन						टी	
59.	2-एथिलब्यूटनॉल	एफ						
60.	2-इथाइलब्यूट्रियलडिहाइड	एफ						
61.	2-इथाइलहेक्सिल क्लोरोफॉरमेट						टी	
62.	2-इथाइलहेक्सिलमाइन	एफ						
63.	2-आयोडब्यूटेन	एफ						

64.	2-मिथाइल - 1-ब्यूटेन	एफ						
65.	2-मिथाइल-2 ब्यूटेन	एफ						
66.	2-मिथाइल-2-हेप्टेनेथियस						टी	
67.	2-मिथाइल-5इथाइलपिराडाइन						टी	
68.	2-मिथाइलफ्यूरेन	एफ						
69.	2-मिथाइलपेंटेन-2-ओएल	एफ						
70.	2-ट्राइफ्लोरोमिथाइलेनीलाइन						टी	
71.	3,3-डाइथोक्सीप्रोपेन	एफ						
72.	3,3-इमिनोडाइप्रोपिलेमाइन				सी			
73.	3-ब्रोमोप्रोपेन	एफ						
74.	3-क्लोरो-4-मिथाइलफिनाइल आइसोसाइनेट						टी	
75.	3-क्लोरोप्रोपेनोल-1						टी	
76.	3-मिथाइल-1-ब्यूटेन	एफ						
77.	3-मिथाइलब्यूटेन-2-वन	एफ						
78.	3-नाइट्रो-4-क्लोरोबेंजोटाइफ्लोराइड				सी			
79.	3-ट्राइफ्लोरोमिथाइलेनीलाइन						टी	
80.	4-मेथोक्सी-4-मिथाइलपेंटेन 2-वन	एफ						
81.	4,4-डाइमिनोडाइफिनाइलमिथेन						टी	
82.	4-क्लोरो -0-टोलोडाइन हाइड्रोक्लोराइड						टी	
83.	4-मिथाइलमोर्फोलाइन (एन मिथाइलमोर्फोलाइन)	एफ						
84.	4-थियापेंटेनल						टी	
85.	5-मिथाइलएक्सेन-2वन	एफ						
86.	5-नाइट्रोबेंजोट्राआजोल	ई						
87.	5-टर्ट-बुटिल-2,4,6-ट्रेनिट्रो-एम एक्सिलेन (मस्क एक्सिलेन)	एफ						

88.	9-फोस्फोबिसक्लोनोनेस (साइक्लोक्टेडाइन)	एफ						
89.	एसिटेलडिहाइड	एफ					टी	
90.	एसिटेलडिहाइड एमोनिया						टी	
91.	एसिटिक एसिड				सी			
92.	एसिटिक एसिड घोल				सी			
93.	एसिटिक एसिड, ग्लेसियल या एसिटिक एसिड घोल				सी			
94.	एसिटिक साइनोथिडीन				सी			
95.	एसिटिक सियानोथाइडीन						टी	
96.	एसीटोन	एफ						
97.	एसीटोन सियानोथाइडीन						टी	
98.	एसीटोन सियानोथिडीन (2-सियानोप्रोपेन-2-ओएल)						टी	
99.	एसीटोन तेल	एफ						
100.	एसीटोन थियासेमीकार्बेजाइड						टी	
101.	एसीटोनीट्रिल	एफ					टी	
102.	एसीटिल ब्रोमाइड				सी			
103.	एसीटिल क्लोराइड	एफ			सी		टी	
104.	एसीटिल आयोडाइड				सी			
105.	एसीटिल मिथाइल कारबिनोल	एफ						
106.	एसीटिलीन						टी	जी
107.	एसीटिलीन (इथेन)	एफ						
108.	एसीटिलीन टेट्रा क्लोराइड						टी	
109.	एक्रोडाइन						टी	
110.	एक्रोलीन (2-प्रोपेनेल)	एफ					टी	
111.	एक्रोलीन डिमर, स्टेबलाइज्ड	एफ						

112.	एक्रीलेमाइड						टी	
113.	एक्रीलिक अम्ल, स्टेबलाइज्ड				सी			
114.	एक्रीलोनोटाइल	एफ					टी	
115.	एडीपोनिट्रिल						टी	
116.	एरोसोल्स							जी
117.	एयरक्राफ्ट हाइड्रेलिक पावर युनिट फ्यूल टैंक	एफ						
118.	एल्कोहोलेट्स घोल, एन.ओ.एस.	एफ						
119.	एल्कोहोलिक सुपेय	एफ						
120.	एल्कोहॉल, ज्वलनशील, विषैला, एन.ओ.एस	एफ						
121.	एल्कोहॉल, एन.ओ.एस	एफ						
122.	अल्डिहाइड्स, ज्वलनशील, विषैला, एन.ओ.एस	एफ						
123.	अल्डिहाइड्स, एन.ओ.एस	एफ						
124.	अल्डिकार्ब						टी	
125.	अल्डोल						टी	
126.	अल्कली मेटल अलाय, द्रव, एन.ओ.एस	एफ						
127.	अल्कली मेटल अमलगम	एफ						
128.	अल्कली मेटल एमिडेस	एफ						
129.	अल्कली मेटल डिसपर्सन या अल्कलिन अर्थ मेटल डिसपर्सन	एफ						
130.	अल्कलिन अर्थ मेटल अल्कोहोलेट्स, एन.ओ.एस	एफ						
131.	अल्कलिन अर्थ मेटल अमलगम	एफ						
132.	अल्कलिन मेटल अल्कोहोलेट्स सेल्फ हीटिंग, संक्षारक, एन.ओ.एस	एफ						
133.	एल्कोलॉयड्स द्रव, एन.ओ.एस या अल्कोलॉयड्स साल्ट्स, द्रव, एन.ओ.एस						टी	

134.	एल्किलपेथेलेट					सी			
135.	एल्किलफेनोल्स, द्रव, एन.ओ.एस					सी			
136.	एल्किलफेनोल्स, ठोस एन.ओ.एस					सी			
137.	अल्किलसलफ्यूरिक अम्ल					सी			
138.	अल्किलसल्फोनिक अम्ल, द्रव अर्कसल्फोनिक अम्ल द्रव					सी			
139.	एल्कीसल्फोनिक अम्ल, द्रव या एरिलसल्फोनिक अम्ल, द्रव					सी			
140.	एल्कीसल्फोनिक अम्ल, ठोस या एरिलसल्फोनिक अम्ल, ठोस					सी			
141.	अल्थिल अल्कोहल		एफ					टी	
142.	अल्थिल अल्कोहल (2-प्रोपेन-1-ओएल)		एफ					टी	
143.	अल्थिल एमाइन							टी	
144.	अल्थिल ब्रोमाइड		एफ					टी	
145.	अल्थिल क्लोराइड		एफ					टी	
146.	अल्थिल क्लोरोफोरमेट							टी	
147.	अल्थिल गिल्सिडियल ईथर		एफ						
148.	अल्थिल आयोडाइड		एफ						
149.	अल्थिलमाइन							टी	
150.	अल्थिलट्राइक्लोरोसिलेन, स्टेबिलाइज्ड					सी			
151.	अल्फा नेपथियल थिओरिया					सी			
152.	अल्फा-मिथाइलबेंजियल अल्कोहल							टी	
153.	अल्फा-मिथाइलवेलेरलडिहाइड		एफ						
154.	अल्फा-नेफथिलेमाइन							टी	
155.	अल्फा-पिनेन		एफ						

156.	एल्युमिनियम (चूर्ण)						टी	
157.	एल्युमिनियम अल्किल हेल्डाइस, द्रव/ठोस	एफ						
158.	एल्युमिनियम अल्किल हाइड्राइड्स	एफ						
159.	एल्युमिनियम अल्किल्स	एफ						
160.	एल्युमिनियम एजाइड	एफ					टी	
161.	एल्युमिनियम बोरोहाइड्राइड	एफ					टी	
162.	एल्युमिनियम ब्रोमाइड घोल					सी		
163.	एल्युमिनियम ब्रोमाइड अनहाइड्रोस					सी		
164.	एल्युमिनियम कार्बाइड	एफ					टी	
165.	एल्युमिनियम क्लोराइड					सी		
166.	एल्युमिनियम क्लोराइड घोल					सी		
167.	एल्युमिनियम क्लोराइड अनहाइड्रोस					सी		
168.	एल्युमिनियम फ्लोराइड					सी		
169.	एल्युमिनियम हाइड्राइड	एफ						
170.	एल्युमिनियम नाइट्रेट		ओ					
171.	एल्युमिनियम फोस्फाइड	एफ						
172.	एल्युमिनियम फोस्फाइड पेस्टीसाइड						टी	
173.	एल्युमिनियम रिसाइनेट	एफ						
174.	एल्युमिनियम स्मेल्टिंग उपउत्पाद या एल्युमिनियम रिमेल्टिंग उपउत्पाद	एफ						
175.	एमाइन्स, ज्वलनशील, संक्षारक, ज्वलनशील एन.ओ.एस, पोलीएस द्रव संक्षारक, ज्वलनशील एन.ओ.एस					सी		
176.	एमाइन्स, ज्वलनशील, संक्षारक, एन.ओ.एस या पोलीएस, ज्वलनशील, संक्षारक, एन.ओ.एस	एफ						

177.	एमाइन्स, द्रव, संक्षारक, एन.ओ.एस या पोलीएस, ज्वलनशील, द्रव, संक्षारक, एन.ओ.एस					सी			
178.	एमाइन्स, ठोस, संक्षारक, एन.ओ.एस या पोलीएमाइन्स, ठोस, संक्षारक, एन.ओ.एस					सी			
179.	एमीनो डाइफिनाइल							टी	
180.	एमीनो पिरिडाइन							टी	
181.	एमीनो डाइफिनाइल, -4							टी	
182.	एमीनो डाइफिनाइल -2							टी	
183.	एमीनो डाइफिनाइल (ओ-, एम-, पी-)							टी	
184.	एमीनो पिरडीन्स							टी	
185.	एमीनोपेटेरिन							टी	
186.	एमीटोन							टी	
187.	एमीटोन डाइअलेट							टी	
188.	अमोनिया							टी	
189.	अमोनिया घोल							टी	जी
190.	अमोनियम अर्सनेट							टी	
191.	अमोनियम क्लोरो प्लेटिनेट							टी	
192.	अमोनियम डाइक्रोमेट			ओ					
193.	अमोनियम डाइनिट्रो-ओ-क्रिसोलेट							टी	
194.	अमोनियम फ्लोराइड							टी	
195.	अमोनियम फ्लोरोसिलिकेट							टी	
196.	अमोनियम हाइड्रोजेडिफ्लोराइड घोल					सी			
197.	अमोनियम हाइड्रोजेडिफ्लोराइड, ठोस					सी			
198.	अमोनियम मेटावेनाडेट							टी	
199.	अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर			ओ					

200.	अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर एन.ओ.एस.			ओ				
201.	अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स			ओ				
202.	अमोनियम नाइट्रेट, द्रव			ओ				
203.	अमोनियम नाइट्रेट्स			ओ	आर			
204.	अमोनियम नाइट्रेट्स इन फर्टिलाइजर्स			ओ	आर			
205.	अमोनियम परक्लोरोट			ओ				
206.	अमोनियम परसल्फेट			ओ				
207.	अमोनियम पाइक्रेट	ई				आर ए		
208.	अमोनियम पाइक्रेट गीला		एफ					
209.	अमोनियम पोलिसल्फाइड घोल				सी			
210.	अमोनियम पोलिवेनाडेट						टी	
211.	अमोनियम घोल						टी	
212.	अमोनियम सल्फाइड घोल				सी			
213.	अम्युनिशन टियर-प्रोड्यूसिंग, नोन-एक्सप्लोसिव						टी	
214.	अम्युनिशन, विषैला, नोन-एक्सप्लोसिव						टी	
215.	अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट				सी			
216.	एमिल एसिटेट्स		एफ				टी	
217.	एमिल अम्ल फासफेट				सी			
218.	एमिल ब्यूट्रेट्स		एफ					
219.	एमिल फारमेट्स		एफ					
220.	एमिल नाइट्रेट		एफ					
221.	एमिलेमाइन		एफ					
222.	एमिल ट्राइक्लोरोसिलेन				सी			
223.	एनाबेसाइन						टी	

224.	एनिलाइन						टी	
225.	एनिलाइन 2,4,6- ट्राइमिथाइल							
226.	एनिलाइन हाइड्रोक्लोराइड						टी	
227.	एनिसिडाइन-पी						टी	
228.	एनिसिडान्स						टी	
229.	एनीसोल		एफ					
230.	एनीसोल क्लोराइड				सी			
231.	एंथाक्वूनोन						टी	
232.	एंथाव्यूनोन						टी	
233.	एनीटोनी और कम्पाउंड्स				सी		टी	
234.	एनीटोनी हाइड्राइड (स्टीबाइन)		एफ				टी	
235.	एरीजिनोस ट्राइक्लोराइड						टी	
236.	आर्गन, प्रशतित द्रव							जी
237.	आर्सेनिक और किसी रूप में सभी आर्सेनिक कम्पाउंड्स						टी	
238.	आर्सेनिक हाइड्राइड (आर्सेन)						टी	
239.	आर्सेनिक पेंटोक्साइड, आर्सेनिक ( v) अम्ल और लवण						टी	
240.	आर्सेनिक ट्राइआक्साइड, आर्सेनिक (III) अम्ल और लवण						टी	
241.	एसबस्ट्स						टी	
242.	एविएशन रेगुलेटिड द्रव, एन.ओ.एस/ ठोस एन.ओ.एस	एफ	एफ					
243.	एजिनफोस इथाइल						टी	
244.	एजिनफोस मिथाइल						टी	
245.	एजोइडिक आरबोनेमाइड		एफ					
246.	बेरियम एजाइड	एफ						
247.	बेरियम ब्रोमेट			ओ				
248.	बेरियम क्लोराइड			ओ				

249.	बेरियम सायनाइड						टी	
250.	बेरियम हाइपोक्लोराइट			ओ				
251.	बेरियम नाइट्रेट					सी		
252.	बेरियम नाइट्राइड					सी		
253.	बेरियम आक्साइड						टी	
254.	बेरियम पर क्लोराइड			ओ				
255.	बेरियम परमेगनेट			ओ				
256.	बेरियम परऑक्साइड			ओ				
257.	बेटरीज फ्लूड अलकलि					सी		
258.	बेटरीज वेट, अम्ल से भरी हुई					सी		
259.	बेटरीज वेट, अलकलि से भरी हुई					सी		
260.	बेटरीज वेट, नॉन-स्पीलेबल					सी		
261.	बेटरीज, कंटेनिंग सोडियम, या सेल्स, कंटेनिंग सोडियम		एफ					
262.	बेटरीज शुष्क, कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्राक्साइड टोस					सी		
263.	बैऑक्सियल परऑक्साइड							
264.	बेंजल क्लोराइड							
265.	बेंजलडिहाइड							
266.	बेंजेनेमाइन, 3-ट्राइफ्लोरोमिथाइल							
267.	बेंजीन		एफ				टी	
268.	बेंजीन अर्सेनिक अम्ल						टी	
269.	बेंजीन क्लोराइड						टी	
270.	बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड						टी	
271.	बेंजीन, 16 (क्लोरोमिथाइल)-4 नाइट्रो						टी	
272.	बेंजीन, 1-(क्लोरोमिथाइल)-4 नाइट्रो						टी	
273.	बेंजीनसल्फोनिल क्लोराइड		एफ			सी		

274.	बैंजीडाइन							टी	
275.	बैंजीडाइन साल्ट्स							टी	
276.	बैंजीमाइडेजोल, 4, 5-डाइक्लोरो-2 (ट्राइफ्लोरोमिथाइल)							टी	
277.	बैंजोनाइट्राइल							टी	
278.	बैंजोक्वूनोन							टी	
279.	बैंजोक्वूनोन-पी							टी	
280.	बैंजोट्राइक्लोराइड					सी			
281.	बैंजोइल क्लोराइड					सी			
282.	बैंजोइल परऑक्साइड	ई						टी	
283.	बैंजोइल ब्रोमाइड							टी	
284.	बैंजोइल क्लोराइड							टी	
285.	बैंजोइल क्लोरोफॉर्मेट					सी			
286.	बैंजील साइनाइड							टी	
287.	बैंजील आयोडाइड							टी	
288.	बैंजीडिमिथाइलेमाइन					सी			
289.	बैंजीलाइडेन क्लोराइड							टी	
290.	बेरिलियम (चूर्ण)							टी	
291.	बेरिलियम (चूर्ण, कम्पाउंड्स)							टी	
292.	बेरिलियम कम्पाउंड, एन.ओ.एस.							टी	
293.	बेरिलियम नाइट्रेट			ओ					
294.	बेरिलियम चूर्ण							टी	
295.	बिबरिडिलियम पेस्टीसाइड ठोस, विषैला							टी	
296.	बिबरिडिलियम पेस्टीसाइड द्रव, विषैला		एफ						
297.	बाइसिकलो (2,2,1) हेप्टेन-कारबोनाइट्राइल							टी	
298.	बाइसिकलो (2,2,1) हेप्टा-2-5 डाइऐन, स्टेब्लाइज्ड (2,5-नोरबोर्नाडाइन, स्टेब्लाइज्ड)		एफ						

299.	बाईफिलाइल							टी	
300.	बाइपिरिडिलियम पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला							टी	
301.	बाइपिरिडिलियम पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला, ज्वलनशील							टी	
302.	बाइस (2,4,6-ट्राइमाइट्रोफिनाइलेमाइन)								
303.	बाइस (2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनाइल) एमाइन	ई						टी	
304.	बाइस (2-क्लोरोमिथाइल)सल्फाइड							टी	
305.	बाइस (2-क्लोरोमिथाइल)कीटोन							टी	
306.	बाइस (क्लोरोमिथाइल)ईथर							टी	
307.	बाइस (क्लोरोमिथाइल)कीटोन							टी	
308.	बाइस (टर्बुटीपेरोक्सी)ब्यूटेन		एफ					टी	
309.	बाइस (टार्ट-ब्यूटिलपेरोक्सी) साइक्लोहेक्सेन					सी		टी	
310.	बाइस (टार्ट-ब्यूटिलपेरोक्सी ब्यूटेन, 2,2)					सी		टी	
311.	बाइस (टार्ट-ब्यूटिलपेरोक्सी) साइक्लोहेक्सेन-1,1					सी		टी	
312.	बाइस (टार्ट-ब्यूटिलपेरोक्सी) साइक्लोहेक्सेन-1,1				आर				
313.	बाइस (टार्ट-ब्यूटिलपेरोक्सी ब्यूटेन, 2,2)				आर				
314.	बाइस, 1,2 ट्राइब्रोमोफिनोक्सी-ईथेन							टी	
315.	बाइस्मथ और कम्पाउंड्स						आर ए	टी	
316.	बाइसफिनोल							टी	
317.	बाइसल्फेट्स, एक्वीयस घोल					सी			
318.	बाइसल्फाइड्स एक्वीयस घोल एन.ओ.एस.					सी			
319.	बाइटोस्केनेट								
320.	नीला एस्बेस्टस या भूरा एस्बेस्टस								
321.	बम, धुआ, अविस्फोटक					सी			
322.	बोरोन और कम्पाउंड्स							टी	

323.	बोरोन चूर्ण						टी	
324.	बोरोन ट्राइबायोमाइड				सी			
325.	बोरोन ट्राइक्लोराइड						जी	
326.	बोरोन ट्राइफ्लोराइड						टी	
327.	बोरोन ट्राइफ्लोराइड एसिटिक अम्ल कॉम्प्लेक्स				सी			
328.	बोरोन ट्राइफ्लोराइड कॉम्प. मिथाइल के साथ-ईथर 1:1						टी	
329.	बोरोन ट्राइफ्लोराइड डाइइथाइल ईथरेट				सी			
330.	बोरोन ट्राइफ्लोराइडक डाइहाइड्रेट				सी			
331.	बोरोन ट्राइफ्लोराइड डाइमिथाइल ईथरेट		एफ					
332.	बोरोन ट्राइफ्लोराइड प्रोपिओनिक अम्ल कॉम्प्लेक्स				सी			
333.	बोरोन ट्राइफ्लोराइड संपीडित						जी	
334.	बोरोन ट्राइक्लोराइड						टी	
335.	ब्रोमेट्स, अकार्बनिक, एक्वीयस घोल, एन.ओ.एस.			ओ				
336.	ब्रोमेट्स, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.			ओ				
337.	ब्रोमाइन						टी	
338.	ब्रोमाइन क्लोराइड						जी	
339.	ब्रोमाइन या ब्रोमाइन घोल				सी			
340.	ब्रोमाइन पेंटाफ्लोराइड			ओ				
341.	ब्रोमाइन ट्राइफ्लोराइड			ओ				
342.	ब्रोमो क्लोरो मिथेन				सी			
343.	ब्रोमोएसिटिक अम्ल				सी			
344.	ब्रोमो एसिटिल ब्रोमाइड				सी			
345.	ब्रोमो बैजीन		एफ		सी			
346.	ब्रोमोबैजील सायनाइड, द्रव/ठोस						टी	
347.	ब्रोमोक्लोरोमेथेन						टी	

348.	ब्रोमोफोर्म						टी	
349.	ब्रोमोमिथाइलप्रोपेन्स	एफ						
350.	ब्रोमोप्रोपेन्स	एफ						
351.	ब्रोमोट्राइफ्लोरोएथीलीन							जी
352.	ब्रोमोट्राइफ्लोरोमिथेन							जी
353.	बूटाडाइन						टी	
354.	बूटाडाइन-1,3			आर			टी	
355.	बूटाडाइन्स, स्टेब्लाइज्ड							जी
356.	ब्यूटेन							जी
357.	ब्यूटेनिडाइन	एफ						
358.	ब्यूटेनोन-2			आर			टी	
359.	ब्यूटोक्सी इथेनोल						टी	
360.	ब्यूटिल अम्ल फास्फेट				सी			
361.	ब्यूटिल एक्रिलेट्स, स्टेब्लाइज्ड	एफ						
362.	ब्यूटिल एल्कोहल	एफ		आर				
363.	ब्यूटिल ग्लेडियल ईथर						टी	
364.	ब्यूटिल मरकेटन	एफ						
365.	ब्यूटिल मिथाइल ईथर	एफ						
366.	ब्यूटिल नाइट्राइट्स	एफ						
367.	ब्यूटिल पेरॉक्सी आइसोप्रोपिल कार्बोनेट, टर्ट			आर				
368.	ब्यूटिल पेरॉक्सीएसीटेट, टर्ट			आर				
369.	ब्यूटिल पेरॉक्सीआइसोब्यूटिरेट, टर्ट			आर				
370.	ब्यूटिल पेरॉक्सीमेलेट, टर्ट			आर				
371.	ब्यूटिल पेरॉक्सीमेलेट, टर्ट							
372.	ब्यूटिल पेरॉक्सीपिवेलेट, टर्ट				सी			

373.	ब्यूटिल प्रोपिओनेट्स		एफ						
374.	ब्यूटिल विनाइल ईथर					सी			
375.	ब्यूटिल विनाइल ईथर, स्टेबिलाइज्ड		एफ						
376.	ब्यूटिलामाइन				आर	सी			
377.	ब्यूटिलबैजीन्स		एफ						
378.	ब्यूटिलेन								जी
379.	ब्यूटिलग्लेडियल ईथर							टी	
380.	ब्यूटिल -एन-मरकेप्टन							टी	
381.	ब्यूटिलटॉलूनेस							टी	
382.	ब्यूटिलट्राइक्लोरोसिलेन					सी			
383.	ब्यूटिरिलडोक्सीम		एफ						
384.	ब्यूट्रिक अम्ल					सी			
385.	ब्यूटिरिक एनहाइड्राइड					सी			
386.	ब्यूटिरोनाइड्राइल		एफ						
387.	ब्यूटिरि क्लोराइड		एफ						
388.	सी.आई. बेसिक ग्रीन							टी	
389.	सी9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फ्रेक्शन							टी	
390.	केडमियम और कपाउंड्स							टी	
391.	केडमियम कारबाइड							टी	
392.	केडमियम काम्पाउंड							टी	
393.	केडमियम सायनाइड							टी	
394.	केडमियम आक्साइड								
395.	केडमियम आक्साइड (फ्युम्स)							टी	
396.	केडमियम स्टीयरेट							टी	
397.	केसियम हाइड्रोक्साइड					सी			

398.	केलियम नाइट्रेट			ओ					
399.	केलियम आर्सेनेट							टी	

400.	केलियम कार्बाइड		एफ						
401.	केलियम क्लोरेट, एक्वीनियस घोल			ओ					
402.	केलियम सायनामाइड		एफ						
403.	केलियम सायनाइड							टी	
404.	केलियम डिथिओनाइट (केलियम हाइड्रोसल्फाइड)		एफ						
405.	केलियम हाइड्राइड		एफ						
406.	केलियम हाइपोक्लोराइड, शुष्क या, केलियम हाइपोक्लोराइड मिश्रण, शुष्क			ओ					
407.	केलियम हाइपोक्लोराइड, मिश्रण,			ओ					
408.	केलियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रेडिट या केलियम हाइपोक्लोराइड हाइड्रेट मिश्रण,			ओ					
409.	केलियम मैंगनीज सिलिकोन		एफ						
410.	केलियम आक्साइड					सी			
411.	केलियम परक्लोरेट			ओ					
412.	केलियम परमैंगनेट			ओ					
413.	केलियम परऑक्साइड			ओ					
414.	केलियम रेजिनेट		एफ						
415.	केलियम सिलिकाइड		एफ						
416.	केलियम पायरोफोरिक या केलियम धातु, पायरोफोरिक		एफ						
417.	कैफर		एफ						
418.	कैफर तेल		एफ						
419.	केप्रिक अम्ल					सी			
420.	कार्बोमेट पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला							टी	
421.	कार्बोमेट पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला,		एफ						

422.	कार्बोमेट पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला, ज्वलनशील							टी	
423.	कार्बोमेट पेस्टीसाइड, ठोस, विषैला							टी	
424.	कार्बेरिल (सेविन)							टी	
425.	कार्बोफ्यूरन							टी	
426.	कार्बोफ्यूरन (फ्युराडेन)							टी	
427.	कार्बन डाइऑक्साइड प्रशीतित द्रव								जी
428.	कार्बन डाइसल्फाइड		एफ					टी	
429.	कार्बन मोनोक्साइड		एफ					टी	
430.	कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रण, संपीडित							टी	जी
431.	कार्बन टेट्राब्रोमाइड							टी	
432.	कार्बन टेट्राक्लोराइड							टी	
433.	कार्बन एकटीवेटिड		एफ						
434.	कार्बोनिल फ्लोराइड, संपीडित								जी
435.	कार्बोनिल सल्फाइड								
436.	कार्बोफेनोथिन							टी	
437.	कार्टराइजेज	ई							
438.	कास्टिक एल्कली द्रव, एन.ओ.एस.					सी			
439.	सेलुलोज नाइट्रेट	ई	एफ						
440.	सेलुलॉइड		एफ						
441.	सेलुलॉइड, स्क्रेप		एफ						
442.	सेलुलोज नाइट्रेट	ई	एफ						
443.	सेरियम		एफ						
444.	केमिकल सेम्पल, विषैला							टी	
445.	क्लोरेल, अनहाइड्रोउस, स्टेब्लाइज्ड							टी	
446.	क्लोरेट्स (विस्फोटकों में प्रयुक्त)	ई							

447.	क्लोरेट्स, अकार्बनिक, एक्विथस घोल, एन.ओ.एस.			ओ					
448.	क्लोरेफेन्विनफोस							टी	
449.	क्लोरिक अम्ल, एक्विथस			ओ					
450.	क्लोरीनेटिड बेंजीन्स							टी	
451.	क्लोरीन							टी	जी
452.	क्लोरीन डाइऑक्साइड							टी	
453.	क्लोरीन ऑक्साइड							टी	
454.	क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड								जी
455.	क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड								जी
456.	क्लोराइट घोल					सी			
457.	क्लोराइट्स, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.			ओ					
458.	क्लोराइट्स, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.			ओ					
459.	क्लोरोफोस								
460.	क्लोरोमेक्थ्यूट क्लोराइड								
461.	क्लोरोएसिटिल क्लोराइड					सी		टी	
462.	क्लोरोएसिटिलडिहाइड							टी	
463.	क्लोरोएसिटिक अम्ल							टी	
464.	क्लोरोएसिटिक अम्ल घोल			ओ					
465.	क्लोरोएसिटिक अम्ल, मेल्टन							टी	
466.	क्लोरोएसिटिक अम्ल, ठोस							टी	
467.	क्लोरोएसिटोन, स्टेब्लिज्ड							टी	
468.	क्लोरोएसिटोनाइड्रिल							टी	
469.	क्लोरोएसिटोफिनोन							टी	
470.	क्लोरोएसिटिल क्लोराइड					सी		टी	
471.	क्लोरोएनिलीन, -2							टी	

472.	क्लोरोएनिलीन, -4							टी	
473.	क्लोरोएनिलीन, -2								
474.	क्लोरोएनिलीन, -4								
475.	क्लोरोएनिलिन्स, द्रव							टी	
476.	क्लोरोएनिलिन्स, ठोस							टी	
477.	क्लोरोएनिसिडाइन्स							टी	
478.	क्लोरोबेंजीन		एफ					टी	
479.	क्लोरोबेंजोड्राइफ्लोराइड		एफ						
480.	क्लोरोबेंजिल क्लोराइड्स							टी	
481.	क्लोरोब्यूटेन्स		एफ						
482.	क्लोरोक्रिसोल्स							टी	
483.	क्लोरोडाइफ्लोरोब्रोमोमिथेन (प्रशीतक गैस आर 12बी1)								जी
484.	क्लोरोडाइफ्लोरोथेन और क्लोरोपेटाफ्लूरोईथेन घोल								जी
485.	क्लोरोडाइफ्लोरोमिथेन								जी
486.	क्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन्स, द्रव							टी	
487.	क्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन्स, ठोस							टी	
488.	क्लोरोडाइफिनाइल							टी	
489.	क्लोरोपोक्सीप्रोपेन							टी	
490.	क्लोरोईथेनोल							टी	
491.	क्लोरोएथिल क्लोरोफार्मेट								
492.	क्लोरोफैविन्फोस								
493.	क्लोरोफ्लोरोकार्बन								
494.	क्लोरोफार्म							टी	
495.	क्लोरोफार्मेट्स, विषैला, विस्फोटक, एन.ओ.एस							टी	
496.	क्लोरोफार्मिल मोर्पोलिन								

497.	क्लोरोफार्मिल, -4 मोर्पोलिन						टी	
498.	क्लोरोमिथेन						टी	
499.	क्लोरोमिथाइल क्लोरोफारमेट						टी	
500.	क्लोरोमिथाइल ईथर						टी	
501.	क्लोरोमिथाइल एथिल ईथर		एफ					
502.	क्लोरोमिथाइल मिथाइल ईथर						टी	
503.	क्लोरोमोरटेट्स, विषैला, संक्षारक, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.						टी	
504.	क्लोरोनाइट्रोएनीलाइन्स						टी	
505.	क्लोरोनाइट्रोबेजीन						टी	
506.	क्लोरोनाइट्रोबेजिन्स						टी	
507.	क्लोरोनाइट्रोबेजिन्स, द्रव/ठोस						टी	
508.	क्लोरोपेटाफ्लोरोईथेन							जी
509.	क्लोरोफेसिनोन							
510.	क्लोरोफेनोलेट्स, द्रव या फेनोलेट्स, द्रव					सी		
511.	क्लोरोफेनोलेट्स, ठोस या फेनोलेट्स, ठोस					सी		
512.	क्लोरोफेनोल्स, द्रव						टी	
513.	क्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरो-सिलेन					सी		
514.	क्लोरोपिक्रिन						टी	
515.	क्लोरोपिक्रिन घोल, एन.ओ.एस.						टी	
516.	क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल, ठोस					सी		
517.	क्लोरोप्रोपेन		एफ					
518.	क्लोरोप्रोपेन, स्टेबलाइज्ड		एफ					
519.	क्लोरोसिलेन्स, संक्षारक, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.					सी		
520.	क्लोरोसिलेन्स, संक्षारक, एन.ओ.एस.					सी		
521.	क्लोरोसिलेन्स, ज्वलनशील, संक्षारक, एन.ओ.एस.		एफ					

522.	क्लोरोसल्फोनिक अम्ल				सी			
523.	क्लोरोथाइफोस							
524.	क्लोरोटोलूनेस		एफ					
525.	क्लोरोटोलूडाइन्स					टी		
526.	क्लोरोट्राइफ्लोरोमिथेन						जी	
527.	क्लोरोट्राइफ्लोरोमिथेन और ट्राइफ्लोरोमिथेन एजियोट्रोपिक मिश्रण						जी	
528.	क्लोरोट्राइनाइट्रोबेंजीन	ई				टी		
529.	क्लोरोएक्सोरेन					टी		
530.	क्लोरोफिनोल्स, ठोस					टी		
531.	क्लोरोइथाइल क्लोरोफार्मेट					टी		
532.	क्रोमिक अम्ल							
533.	क्रोमिक अम्ल घोल				सी			
534.	क्रोमिक क्लोराइड							
535.	क्रोमिक फ्लोराइड घोल				सी			
536.	क्रोमिक फ्लोराइड, ठोस				सी			
537.	क्रोमियम और कम्पाउण्ड्स					टी		
538.	क्रोमियम नाइट्रेट			ओ				
539.	क्रोमियम आक्सीक्लोराइड				सी			
540.	क्रोमियम चूर्ण							
541.	क्रोमियम ट्राइआक्साइड, अनहाइड्राउस			ओ				
542.	क्रोमोसल्फ्यूरिक अम्ल				सी			
543.	क्लीनिकल वेस्ट, अनस्पेसिफाइड, एन.ओ.एस. या (बायो)मेडिकल वेस्ट एन.ओ.एस. या रेगुलेटिड मेडिकल वेस्ट एन.ओ.एस.					टी		
544.	क्लोरीन					टी		
545.	कोलतार डिस्टिलेट्स , ज्वलनशील		एफ					

546.	कोबाल्ट और कंपाउंड्स						टी	
547.	कोबाल्ट (घूर्ण)							
548.	कोबाल्ट कारबोनिल							
549.	कोबाल्ट नेपथेनेट्स, घूर्ण		एफ					
550.	कोबाल्ट नाइट्रिलमिथाइलडाइन कंपाउंड							
551.	कोबाल्ट रेसिनेट, प्रसिपिटेटिड		एफ					
552.	कलर्ड फायर	ई						
553.	संपीडित गैस, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.						जी	
554.	संपीडित गैस, विषैला, ज्वलनशील संक्षारक, एन.ओ.एस.		एफ		सी	टी		
555.	तांबा एसिटोआर्सिनाइट					टी		
556.	तांबा और कंपाउंड्स					टी		
557.	तांबा आर्सिनाइट					टी		
558.	तांबा आधारित पेस्पीसाइड, द्रव, ज्वलनशील विषैला		एफ					
559.	तांबा आधारित पेस्पीसाइड, द्रव, विषैला					टी		
560.	तांबा आधारित पेस्पीसाइड, द्रव, विषैला, ज्वलनशील					टी		
561.	तांबा आधारित पेस्पीसाइड, ठोस, विषैला					टी		
562.	तांबा क्लोरेट			ओ				
563.	तांबा क्लोराइड				सी			
564.	तांबा सायनाइड कॉपररेक्सीक्लोराइड					टी		
565.	कोरोफोरमिल, -4निराफोलाइन					टी		
566.	संक्षारक द्रव, अम्लीय, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.				सी			
567.	संक्षारक द्रव, अम्लीय, कार्बनिक, एन.ओ.एस.				सी			
568.	संक्षारक द्रव, अम्लीय, बेसिक, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.				सी			
569.	संक्षारक द्रव, अम्लीय, बेसिक, कार्बनिक, एन.ओ.एस.				सी			
570.	संक्षारक द्रव, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.				सी			

571.	संक्षारक द्रव आक्सीडाइजिंग, एन.ओ.एस.					सी		
572.	संक्षारक द्रव सेल्फ-हीटिंग, एन.ओ.एस.					सी		
573.	संक्षारक द्रव, विषैला, एन.ओ.एस.					सी		
574.	संक्षारक द्रव, वॉट्स-रीएक्टिव, एन.ओ.एस.					सी		
575.	संक्षारक ठोस, अम्लीय, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.					सी		
576.	संक्षारक ठोस, कार्बनिक, एन.ओ.एस.					सी		
577.	संक्षारक ठोस, बेसिक, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.					सी		
578.	संक्षारक ठोस, बेसिक, कार्बनिक, एन.ओ.एस.					सी		
579.	संक्षारक ठोस, आक्सीडाइजिंग, एन.ओ.एस.					सी		
580.	संक्षारक ठोस, विषैला, एन.ओ.एस.					सी		
581.	संक्षारक ठोस, वाट्स-रीएक्टिव, एन.ओ.एस.					सी		
582.	कोमेरिन डेरिवेटिव पेस्टीसाइड, द्रव, ज्वलनशील विषैला		एफ				टी	
583.	कोमेरिन डेरिवेटिव पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला						टी	
584.	कोमेरिन डेरिवेटिव पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला, ज्वलनशील						टी	
585.	कोमेरिन डेरिवेटिव पेस्टीसाइड, ठोस, विषैला,						टी	
586.	कोमेटरट्रियल							
587.	क्रिसोल्स						टी	
588.	क्रिसोल्स, द्रव/द्रव						टी	
589.	क्रिसिलिक अम्ल						टी	
590.	क्रिमीडाइन						टी	
591.	क्रोटोनेलडिहाइड		एफ				टी	
592.	क्रोटोनिक अम्ल					सी		
593.	क्युमिन						टी	
594.	कोपरिडिथाइलेनडाइमाइन घोल					सी		
595.	सायनाइड घोल, एन.ओ.एस.						टी	

596.	सायनाइड, अकार्बनिक, ठोस, एन.ओ.एस.							टी	
597.	सायनोजन								जी
598.	सायनोजन ब्रोमाइड							टी	
599.	सायनोजन क्लोराइड, स्टेब्लाइज्ड							टी	जी
600.	सायनोजन आयोडाइड								
601.	सायनोथोट							टी	
602.	सायनुरिक क्लोराइड					सी			
603.	सायनुरिक फ्लोराइड							टी	
604.	सायक्लोब्यूटेन								जी
605.	सायक्लोब्यूटिल क्लोरोफोरमेट							टी	
606.	सायक्लोहेपटेन		एफ						
607.	सायक्लोहेपटेन		एफ						
608.	सायक्लोहेक्टाड्राइल		एफ						
609.	सायक्लोहेक्सेन		एफ						
610.	सायक्लोहेक्सेनोन		एफ						
611.	सायक्लोहेक्सेन		एफ						
612.	सायक्लोहेक्सेनिलट्राइक्लोरोसाइलेन					सी			
613.	सायक्लोहेक्सेमाइड							टी	
614.	सायक्लोहेक्सिल एसीटेट		एफ						
615.	सायक्लोहेक्सिल आइसोसाइनेट							टी	
616.	सायक्लोहेक्सिल मरकेप्टन		एफ						
617.	सायक्लोहेक्सिलेमाइन					सी			
618.	सायक्लोहेक्सिलट्राइक्लोरोसिलेन					सी			
619.	सायक्लोआक्टेडाइन्स		एफ						
620.	सायक्लोआक्टेटेट्राइन		एफ						

621.	सायक्लोपेंटाडाइन		एफ					टी	
622.	सायक्लोपेंटेन		एफ						
623.	सायक्लोपेंटानोल		एफ						
624.	सायक्लोपेंटानोन		एफ						
625.	सायक्लोपेंटेन		एफ						
626.	सायक्लोप्रोपेन								जी
627.	सायक्लोटेट्रामिथाइलेन टेट्रानाइट्रेमाइन	ई							
628.	साइक्लोटेट्रामिथिलिन टेट्रानिट्रमाइन (एचएमएक्स ओक्टाजिन) वेटेड	ई							
629.	साइक्लोट्रीमेथिलनेट्रीनीट्रेमाइन और साइक्लोटेट्रामिथिलिनटेट्रानाइट्रेमाइन मिश्रण वेटेड या साइक्लोट्राई मिथिल	ई							
630.	सायमिन्स		एफ						
631.	डीडीटी							टी	
632.	डीकाबोरेन							टी	
633.	डीकाबोरेनिओ		एफ						
634.	डीकाब्रोमोडाफिनाइल आक्साइड							टी	
635.	डीकाहाइड्रोनेपथेलेन		एफ						
636.	डीगलेग्रेटिंग मेटल साल्ट्स ऑफ एरोमेटिक नाइट्रोडेरिवेटिव्स, एन.ओ.एस.	ई							
637.	डीमेटन							टी	
638.	डीमेटन एस-मिथाइल							टी	
639.	डीटोनेटर्स	ई							
640.	डिओटेरियम, संपीड़ित								जी
641.	युक्तियां, छोटा, हाइड्रोकार्बन गैस शक्ति या छोटी युक्तियां के लिए रिफिल्स हाइड्रोकार्बन गैस								जी
642.	डिसोब्यूटिलेमाइन		एफ						
643.	डाइएसिटोन एल्कोहल		एफ						
644.	डाइएलिफोस							टी	

645.	डाइलिल ईथर		एफ						
646.	डाइलिलेमाइन		एफ						
647.	डायजोडिनीट्रोफेनोल	ई							
648.	डायजोडिनीट्रोफेनोल, वेटेड	ई	एफ						
649.	डायजिमिथेन							टी	
650.	डायबेंजील पेरोक्सीडाइकार्बोनेट				आ र				
651.	डायबेंजील पेरोक्सीडाइकार्बोनेट (सीओएनसी $\geq$ 90 %)							टी	
652.	डायबेंजिल डाइक्लोरोसिलेन				सी				
653.	डायबोरेन							टी	
654.	डायबोरेन, संपीड़ित								जी
655.	डायब्रोमोक्लोरोप्रोपेन्स							टी	
656.	डायब्रोमोडायफ्लोरोमीथेन							टी	
657.	डायब्रामोमीथेन							टी	
658.	डायब्यूटिल ईथर्स		एफ						
659.	डायब्यूटिलेमिनोइथेनोल							टी	
660.	डायक्लोरो ओबेंजीन-ओ							टी	
661.	डायक्लोरोएसिटिक अम्ल				सी				
662.	डायक्लोरोएसिटिल क्लोराइड				सी				
663.	डायक्लोरोएसिटिलेन							टी	
664.	डायक्लोरोएसिटिलेन-ओ							टी	
665.	डायक्लोरोएनीलिनेस, द्रव							टी	
666.	डायक्लोरोबेंजलकोनियम क्लोराइड							टी	
667.	डायक्लोरोबेंजीन-पी							टी	
668.	डायक्लोरो डायफ्लोरो मीथेन								जी

669	डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन और डाइक्लोरो इथेन एजियोट्रोपिक मिश्रण								जी
670	डाइक्लोरो डाइमिथाइल इथर, सिमेट्रिकल							टी	
671	डाइक्लोरो इथेन							टी	
672	डाइक्लोरो इथाइल इथर							टी	
673	डाइक्लोरो आइसोसियान्युरिक अम्ल, शुष्क या डाइक्लोरो आइसोसियान्युरिक अम्ल लवण			ओ					
674	डाइक्लोरो आइसोप्रोपाइल इथर							टी	
675	डाइक्लोरो मीथेन							टी	
676	डाइक्लोरो मिथाइल फिनाइलसिलेन								
677	डाइक्लोरो पेंटेंस		एफ						
678	डाइक्लोरो फेनोल, -2, 4 और -2,6							टी	
679	डाइक्लोरो फेनोक्सी एसीटिक अम्ल							टी	
680	डाइक्लोरो फेनोक्सी एसीटिक अम्ल, -2,4(2,4-डी)							टी	
681	डाइक्लोरो फिनाइल आइसोसाइनेट							टी	
682	डाइक्लोरो फिनाइल ट्राइक्लोरोसिलेन					सी			
683	डाइक्लोरो प्रोपेन 2,2							टी	
684	डाइक्लोरो प्रोपेन -1,2							टी	
685	डाइक्लोरो प्रोपेन्स		एफ						
686	डाइक्लोरो सालिसिलिक अम्ल, -3,5							टी	
687	डाइक्लोरो सालिसिलिक अम्ल, -3,5							टी	
688	डाइक्लोरो सिलेन								जी
689	डाइक्लोरोक्स (डीडीवीपी)							टी	
690	डाइक्लोरोफोस							टी	
691	डाइक्लोहेक्सीलेमाइन					सी		टी	
692	डाइक्लोहेक्सीलेमोनियम नाइट्राइट		एफ						
693	डाइक्लोरो पेंटाडाइन		एफ						
694	डिडाइमियमस नाइट्रेट			ओ					
695	डाइपोक्सी ब्यूटेन							टी	
696	डाइपोक्सी ब्यूटेन							टी	
697	डाइथलींगिकोल ब्यूटाइल इथर							टी	
698	डाइथीक्सीमीथेन		एफ						
699	डाइइथाइ पेरोक्सीडाइकार्बोनेट				आ र				

700	डाइइथाइल कार्बोमेजाइन साइट्रेट				आ र				
701	डाइइथाइल कार्बोमेजीन साइट्रेट				आ र				
702	डाइइथाइल कार्बोनेट		एफ						
703	डाइइथाइल क्लोरोफास्फेट							टी	
704	डाइइथाइल इथेनोलामीन							टी	
705	डाइइथाइल इथर (इथाइल इथर)		एफ						
706	डाइइथाइल ग्लाइको डाइनाइट्रेट							टी	
707	डाइइथाइल कीटोन		एफ						
708	डाइइथाइल पेरोक्सीडाइकार्बोनेट							टी	
709	डाइइथाइल पेरोक्सीडाइकार्बोनेट (कोन्स=30%)							टी	
710	डाइइथाइल फेनाइलीन डाइमीन							टी	
711	डाइइथाइल सल्फेट							टी	
712	डाइइथाइल सल्फाइड		एफ						
713	डाइइथाइल आमीन				आ र				
714	डाइइथाइल आमीन इथेनाल							टी	
715	डाइइथाइल अमीनोप्रोपाइलामीन		एफ						
716	डाइइथाइल बैजीन		एफ						
717	डाइइथाइल डाइक्लोरोसीलेन					सी			
718	डाइइथीलीन ग्लाइकोल							टी	
719	डाइइथीलीन ग्लाइकोल ब्यूटाइल इथर							टी	
720	डाइइथीलीन ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट							टी	
721	डाइइथीलीन ट्राइआमीन							टी	
722	डाइइथीलीन ग्लाइकोल ब्यूटाइल इथर/ डाइइथीलीन ग्लाइकोल ब्यूटाइल एसीटेट							टी	
723	डाइइथीलीन ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट, डीसेंसीटाइज्ड	इ				सी			
724	डाइइथीलीन ट्राइआमीन					सी			
725	डाइइथीलीन ट्राइआमीन (डेटा)					सी			
726	डाइइथाइल थायोफोस्फोराइल क्लोराइड					सी			
727	डाइफ्लोरो मीथेन (प्रशीतक गैस आर 32)								जी
728	डाइफ्लोरो फास्फोरिक अम्ल, एनहाइड्रस					सी			
729	डाइजीटीक्सीन					सी			

730	डाइग्लाइसीडाइल इथर							टी	
731	डाइहलोरोफ्लोरो मीथेन								जी
732	डाइहाइड्रोपरोक्सीप्रोपेन (कोन्स =30%)							टी	
733	डाइहाइड्रोपरोक्सीप्रोपेन, -2,2	इ							
734	डाइआइसोब्युटाइल कीटोन		एफ						
735	डाइआइसोब्युटाइल पेरोकसाइड				आ र				
736	डाइआइसोब्युटाइल पेरोकसाइड							टी	
737	डाइआइसोब्युटालीन आइसोमेरीक कंपाउन्ड		एफ						
738	डाइआइसोब्युटाइरील पेरोकसाइड							टी	
739	डाइआइसो ऑक्टाइल अम्ल फास्फेट					सी			
740	डाइआइसो प्रोपाइल इथर		एफ						
741	डाइआइसोप्रोपाइलामीन				आ र				
742	डाइकेटीन स्टेबीलाइज्ड							टी	
743	डाइमीफोक्स		एफ			सी			
744	डाइमीथकाइबोनाइल क्लोराइड							टी	
745	डाइमेथीलकार्बोनाइल क्लोराइड							टी	
746	डाइमिथएट							टी	
747	डाइमिथाइल कार्बोनेट		एफ					टी	
748	डाइमिथाइल डाइक्लोरोसीलेन							टी	
749	डाइमिथाइल डाइसल्फाइड		एफ						
750	डाइमिथाइल इथर								जी
751	डाइमिथाइल हाइड्राजीन					सी			
752	डाइमिथाइल नाइट्रोसोआमीन					सी			
753	डाइमिथाइल पी फेनाइलीन डाइआमीन							टी	
754	डाइमिथाइल फास्फोरामीडी सियानिडिक अम्ल (टाब्रूम)							टी	
755	डाइमिथाइल फास्फोरामिडोसियानिट अम्ल							टी	
756	डाइमिथाइल फास्फोरोक्लोरोडोथियोट							टी	
757	डाइमिथाइल फथालेट							टी	
758	डाइमिथाइल सूफोलेन (डीएमएस)							टी	
759	डाइमिथाइल सल्फेट							टी	
760	डाइमिथाइल सल्फाइड		एफ						

761	डाइमिथाइल थायोफास्फोराइल क्लोराइड							टी	
762	डाइमिथाइलामीन							टी	
763	डाइमिथाइलामीन एकुअस घोल		एफ						
764	डाइमिथाइलामीन एनहाइड्रस								
765	डाइमिथाइलानीलीन							टी	
766	डाइमिथाइल कार्बोमोआइल क्लोराइड					सी		टी	
767	डाइमिथाइल कार्बोमाइल							टी	
768	डाइमिथाइल कार्बोनील क्लोराइड							टी	
769	डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सानिस		एफ						
770	डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सामीन					सी			
771	डाइमिथाइल डाइक्लोरोसीलेन		एफ						
772	डाइमिथाइल डाइथाक्सीसीलेन		एफ						
773	डाइमिथाइल डाइऑक्सेन्स		एफ						
774	डाइमिथाइल फारमेमाइड							टी	
775	डाइमिथाइल हाइड्राजीन सीमेट्रीकल							टी	
776	डाइमिथाइल हाइड्राजीन अनसिमेट्रीकल							टी	
777	डाइमिथाइल नाइट्रोसामीन							टी	
778	डाइमिथाइल-एन-प्रोपाइलामीन		एफ						
779	डाइमेटीलान							टी	
780	डाइ-एन-अमीलामीन		एफ						
781	डाइ-एन-ब्यूटाइलामीन					सी			
782	डाइनाइट्रो ओक्रिसोल							टी	
783	डाइनाइट्रो बेंजीन							टी	
784	डाइनाइट्रो बेंजीन्स, द्रव							टी	
785	डाइनाइट्रो बेंजीन्स, ठोस							टी	
786	डाइनाइट्रोजेन टेट्राक्साइड (नाइट्रोजन डाइआक्साइड)								जी
787	डाइनाइट्रो ओक्रिसोल							टी	
788	डाइनाइट्रो फेनोल	इ		ओ		सी			
789	डाइनाइट्रो फेनोल घोल							टी	
790	डाइनाइट्रो फेनोल लवण	इ						टी	
791	डाइनाइट्रो फेनोल गीला		एफ						
792	डाइनाइट्रो फेनोलेट्स, गीला		एफ						
793	डाइनाइट्रो रिसोर्सिनाल	इ							

794	डाइनाइट्रो रिसोर्सिनाल, गीला		एफ						
795	डाइनाइट्रोसोबेंजीन	इ							
796	डाइनाइट्रोटोलुइन							टी	
797	डाइनाइट्रोटोलुइन्स, द्रव/ठोस							टी	
798	डाइनाइट्रोटोलुइन्स, मोल्टन	इ						टी	
799	डाइ-एन-प्रोपाइल इथर		एफ						
800	डाइ-एन-प्रोपाइल परैक्सीडाइकार्बोनेट				आ र				
801	डाइ-एन-प्रोपाइल परैक्सीडाइकार्बोनेट (कोन्स = 80%)				आ र				
802	डाइऑक्सेन		एफ					टी	
803	डाइऑक्सेन - पी							टी	
804	डाइऑक्सेथियन							टी	
805	डाइऑक्साइन एन							टी	
806	डाइऑक्सोलेन		एफ						
807	डाइपेन्टीन		एफ						
808	डाइफाकिनान							टी	
809	डाइफिनाइल मीथेन डाइ-आइसोसाइनेट (एमडीआई)							टी	
810	डाइफिनाइलामीन क्लोरोआरसीन							टी	
811	डाइफिनाइल क्लोरोआरसीन द्रव/ठोस							टी	
812	डाइफिनाइल डाइक्लोरोसीलेन					सी			
813	डाइफेनाइल मिथाइल ब्रोमाइड					सी			
814	डाइफास्फोरामाइड ऑक्टा मिथाइल							टी	
815	डाइपिक्राइल सल्फाइड	इ							
816	डाइपिक्राइल सल्फाइड, गीला		एफ						
817	डाइप्रोपाइल कीटोन		एफ						
818	डाइप्रोपाइलामीन		एफ						
819	डाइप्रोपीलीन ग्लाइकॉल ब्यूटाइल इथर		एफ						
820	डाइप्रोपीलीन ग्लाइकॉल मिथाइल इथर		एफ						
821	डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटीक अम्ल		एफ						
822	डाइ स्क्रोटोफोस		एफ						
823	डाइ-सीक-ब्यूटाइल परैक्सीडाइकार्बोनेट				आ र				

824	डाइ-सीक-ब्यूटाइल पेरॉक्सीडाइकार्बोनेट (कोन्स = 80%)				आ र			टी	
825	डिसइनफेकटेंट, द्रव संक्षारक एनओएस					सी			
826	डिसइनफेकटेंट, द्रव विषैला एनओएस							टी	
827	डिसइनफेकटेंट, ठोस विषैला एनओएस							टी	
828	डाइसोब्यूटाइल पराक्साइड							टी	
829	डाइसोडियम ट्राइऑक्सोसिलिकेट					सी			
830	डाइसल्फोटोन							टी	
831	डाइथियाजामीन आयोडाइड							टी	
832	डाइथायोब्युरेट							टी	
833	डिथाइड्रोपराक्सीप्रोपेन, -2,2							टी	
834	डाइविनाइल इथर, स्टेबिलाइज्ड								

835	डोडिसिलट्राइक्लोरोसिलेन					सी			
836	शुष्क, द्रव, संक्षारक, एन.ओ.एस. या रंजक इंटरमीडिएट, ठोस, संक्षारक, एन.ओ.एस.					सी			
837	रंजक, संक्षारक, ठोस, विषैला, एन.ओ.एस. या रंजक इंटरमीडिएट, ठोस, संक्षारक, एन.ओ.एस.					सी			
838	रंजक, ठोस, विषैला, एन.ओ.एस. या रंजक इंटरमीडिएट, ठोस, विषैला, एन.ओ.एस.							टी	
839	इअर गैस पदार्थ, द्रव/ठोस, एन.ओ.एस.							टी	
840	एलीवेटिड तापमान, द्रव, ज्वलनशील		एफ						
841	एपीब्रोमोहाइड्रिन							टी	
842	एपीक्लोरोहाइड्रिन		एफ					टी	
843	ईपीएन							टी	
844	एपोक्सीप्रोपेन, 1,2							टी	
845	अरगोकेल्सिफरोल							टी	
846	अरगोटेमाइन टार्टरेट							टी	
847	एस्टर्स, एन.ओ.एस.		एफ						

848.	ईथेन								जी
849.	ईथेन, प्रशीतित द्रव								जी
850.	ईथेनसल्फिनाइल क्लोराइड, 2 क्लोरो								जी
851.	ईथेनोल 1-2 रंजकक्लोरोसिटेट							टी	
852.	ईथेनोल या ईथेनोल घोल		एफ						
853.	ईथेनोलेमाइन या ईथेनोलेमाइन घोल					सी			
854.	ईथर्स, एन.ओ.एस.		एफ						
855.	इथीअन							टी	
856.	ईथोप्रोफोस							टी	
857.	एथिल 2-क्लोरोप्रोपिओनेट		एफ						
858.	एथिल एसीटेट		एफ						
859.	एथिल एक्रीलेट, स्टेबिलाइज्ड		एफ						
860.	एथिल एल्कोहल		एफ						
861.	एथिल एमाइन							टी	जी
862.	एथिल एमाइल कीटोन		एफ						
863.	एथिल बैजीन							टी	जी
864.	एथिल बाइस एमाइन							टी	जी
865.	एथिल बोरेट		एफ						
866.	एथिल ब्रोमाइड							टी	
867.	एथिल ब्रोमोएसीटेट							टी	
868.	एथिल ब्यूटिल ईथर		एफ						
869.	एथिल ब्यूटिरेट		एफ						
870.	एथिल कारबेनेट							टी	
871.	एथिल क्लोराइड							टी	जी
872.	एथिल क्लोरोएसीटेट							टी	

873.	एथिल क्लोरोफोरमेट						टी	
874.	एथिल क्लोरोथाइओफोरमेट				सी			
875.	एथिल क्रोटोनेट		एफ					
876.	एथिल ईथर		एफ					
877.	एथिल फ्लोराइड (प्रशीतक गैस आर 161)							जी
878.	एथिल आइसोब्यूटिरेट		एफ					
879.	एथिल आइसोसाइनेट		एफ					
880.	एथिल लैकटेट		एफ					
881.	एथिल मरकैप्टन		एफ				टी	
882.	एथिल मरकरिक फासफेट						टी	
883.	एथिल मेथैक्रिलेट		एफ					
884.	एथिल मिथाइल ईथर							जी
885.	एथिल मिथाइल कीटोन (मिथाइल एथिल कीटोन)		एफ					
886.	एथिल नाइट्रेट	ई			आर		टी	
887.	एथिल आर्थोफोरमेट		एफ					
888.	एथिल आक्सेलेट						टी	
889.	एथिल प्रोपिओनेट		एफ					
890.	एथिल प्रापिल ईथर		एफ					
891.	एथिल थायोसाइनेट						टी	
892.	एथिललेक्टीलेन, स्टेबिलाइज्ड							जी
893.	एथिललेमाइन							जी
894.	एथिलेमाइन, एक्विअस घोल		एफ					
895.	एथिलबीजीन		एफ					
896.	एथिलरंजकक्लोरोआर्सिन						टी	
897.	एथिलरंजकक्लोरोआर्सिलेन		एफ					

898.	एथीलेन								जी
899.	एथीलेन क्लोरोहाइड्रिन							टी	
900.	एथीलेन क्लोरोहाइड्रिन							टी	
901.	एथीलेन रंजक क्लोराइड							टी	
902.	एथीलेन रंजकमाइन		एफ			सी			
903.	एथीलेन रंजकमाइन हाइड्रोक्लोराइड							टी	
904.	एथीलेन रंजकब्रोमाइड							टी	
905.	एथीलेन रंजकब्रोमाइड (1,2-रंजकब्रोमोमीथेन)							टी	
906.	एथीलेन रंजकक्लोराइड		एफ						
907.	एथीलेन फ्लोरोहाइड्रिन							टी	
908.	एथीलेन ग्लाइकोल							टी	
909.	एथीलेन ग्लाइकोल रंजकनाइट्रेट	ई						टी	
910.	एथीलेन ग्लाइकोल मोनोएथिल ईथर		एफ						
911.	एथीलेन ग्लाइकोल मोनोएथिल ईथर एसिटेट		एफ						
912.	एथीलेन ग्लाइकोल मोनोएथिल ईथर		एफ						
913.	एथीलेन ग्लाइकोल रंजकएथिल ईथर		एफ						
914.	एथीलेन आक्साइड	ई			आर			टी	
915.	एथीलेन आक्साइड और कार्बन डायआक्साइड मिश्रण								जी
916.	एथीलेन आक्साइड और कार्बन डायआक्साइड मिश्रण								जी
917.	एथीलेन आक्साइड और क्लोरोटेट्राफ्लोरोईथेन मिश्रण								जी
918.	एथीलेन आक्साइड और डाइक्लोराडाइफ्लोरोमिथेन मिश्रण								जी
919.	एथीलेन आक्साइड और पेंटाफ्लोरोईथेन मिश्रण								जी
920.	एथीलेन आक्साइड और प्रोपीलेन आक्साइड मिश्रण		एफ						

921.	एथीलेन आक्साइड और टेट्राफ्लोरो इथेन मिश्रण							जी
922.	एथीलेन आक्साइड या टाइलीन आक्साइड नाइट्रोजन के साथ							जी
923.	एथीलेन, एसीटिलीन और प्रापीलेन मिश्रण, प्रशीतित द्रव							जी
924.	एथीलेन, संपीकृत							जी
925.	एथीलेन प्रशीतित द्रव							जी
926.	एथीलेनएमाइन		एफ				टी	
927.	एथीलेनरंजकमाइन				सी			
928.	एथिलफिनाइरंजकक्लोरोसिलेन				सी			
929.	एथिलथायोसाइनेट						टी	
930.	एथिलट्राइक्लोरोसिलेन		एफ					
931.	विस्फोटक, ब्लास्टिंग टाइप ड	ई						
932.	विस्फोटक, ब्लास्टिंग टाइप क	ई		ओ				
933.	विस्फोटक, ब्लास्टिंग टाइप ख	ई			सी	आर ए		
934.	फेरिक आर्सीनेट						टी	
935.	फेरिक आर्सीनाइट						टी	
936.	फेरिक क्लोराइड घोल					सी		
937.	फेरिक क्लोराइड, अनहाइड्रोस					सी		
938.	फेरिक नाइट्रेट			ओ				
939.	फेरोस अर्सीनेट						टी	
940.	फेरोस मेटल बोरिंग्स, सेविंग्स, टर्निंग्स या कटिंग्स		एफ					
941.	फायर एक्सटिंगविशर चार्जस							
942.	फायरलाइटर्स ठोस		एफ					

943.	आतिशबाजी	ई							
944.	ज्वलनशील द्रव, संक्षारक एन.ओ.एस.		एफ						
945.	ज्वलनशील द्रव, संक्षारक, कार्बनिक एन.ओ.एस.							टी	
946.	ज्वलनशील, द्रव विषैला, संक्षारक, एन.ओ.एस.		एफ						
947.	ज्वलनशील ठोस, संक्षारक, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
948.	ज्वलनशील ठोस संक्षारक, कार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
949.	ज्वलनशील ठोस, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
950.	ज्वलनशील ठोस, कार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
951.	ज्वलनशील ठोस, आक्सीरंजकजिग, एन.ओ.एस.		एफ						
952.	ज्वलनशील, ठोस, विषैला, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
953.	ज्वलनशील ठोस, विषैला, कार्बनिक एन.ओ.एस.		एफ						
954.	फ्लुअंटील							टी	
955.	फ्लोराइड							टी	
956.	फ्लोरिन							टी	
957.	फ्लोरिन संपीडित								जी
958.	फ्लोरो 2-हायड्रोक्सी ब्यूट्रिक अम्ल एमाइड लवण ईस्टर							टी	
959.	फ्लोरो-4, 2-हायड्रोक्सी ब्यूट्रिक अम्ल और लवण ईस्टर एमाइड्स							टी	
960.	फ्लोरोएसीटिक अम्ल							टी	
961.	फ्लोरोएनीलिनेस							टी	
962.	फ्लोरोबेंजीन		एफ						
963.	फ्लोरोबोरिक अम्ल					सी			
964.	फ्लोरोकोब्यूट्रिक अम्ल और लवण, एस्टर्स एमाइड्स							टी	
965.	फ्लोरोफोस्फोरिक अम्ल, अनहाइड्राउस					सी			

966.	फ्लोरोसिलिक अम्ल					सी			
967.	फ्लोरोसिलिकेट्स, एन.ओ.एस.							टी	
968.	फ्लोरोसल्फोनिक अम्ल					सी			
969.	फ्लोरोटोलूनेस		एफ						
970.	फ्लोरोएसिटिक अम्ल और लवण एस्टर्स और अमाइड्स							टी	
971.	फ्लोरोब्यूट्रिक अम्ल, -4 और लवण, एस्टर्स और अमाइड्स							टी	
972.	फ्लोरोक्रोटोनिक अम्ल, -4 और लवण और अमाइड्स							टी	
973.	फोग-सिग्नल्स	ई							
974.	फोरमलडिहाइड							टी	
975.	फोरमलडिहाइड घोल					सी			
976.	फोरमलडिहाइड घोल ज्वलनशील		एफ						
977.	फोरमेटेट हाइड्रोक्लोराइड							टी	
978.	फ्यूल, एविएशन, टरबाइन इंजन		एफ						
979.	फ्यूमरिल क्लोराइड					सी			
980.	फ्यूरेलडिहाइड्स							टी	
981.	फ्यूरेन		एफ						
982.	फरफ्यूरेल							टी	
983.	फरफ्यूरेल एल्कोहल							टी	
984.	फरफ्यूरेलमाइन		एफ						
985.	फ्यूजल तेल		एफ						
986.	फ्यूजेस	ई							
987.	गेलियम					सी			

988.	गैलियम ट्राइक्लोराइड							टी	
989.	गैस तेल या डीजल फ्यूल या तापन तेल लाइट		एफ						
990.	गैस, प्रशीतित द्रव, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.								जी
991.	गैस, प्रशीतित द्रव, एन.ओ.एस.								जी
992.	गैस, प्रशीतित द्रव, ऑक्सीरंजकजिग, एन.ओ.एस.								जी
993.	गिल्सिरोल एल्का- मोनोक्लोरोहाइड्रिन							टी	
994.	ग्लिसिडलडिहाइड		एफ						
995.	ग्लाइकोनाइट्रिल (हाइड्रोक्सीएसिटोनाइट्रिल)							टी	
996.	गुआनिरंजकन नाइट्रेट			ओ					
997.	गुआनिल नाइट्रोसेमिनोगुआनिलिडेन हाइड्रोजिन, गीला	ई							
998.	गुआनिल नाइट्रोसेमिनोगुआनिलिटेट्राजिन (टेट्राजिन) गीला	ई							
999.	गुआनिल, -1, -4 नाइट्रोसेमिनोगुआनिल-1-टेट्राजिन	ई							
1000.	गन-कोटन	ई							
1001.	गनपाउडर	ई							
1002.	हाफनियम पावर, शुष्क			एफ					
1003.	हीलियम, प्रशीतित द्रव								जी
1004.	हेप्ताक्लोर	ई						टी	
1005.	हेप्ताफ्लोरोप्रोपेन (प्रशीतक गैस आर 227)								जी
1006.	हेप्टेनेस		एफ						
1007.	हेक्सा मिथाइल टेरटा-ऑक्सीएसाइक्लोनोनेट (कोन्स 75%)							टी	
1008.	हेक्साब्यूट्रोरेजकफिनाइलेमाइन	ई							
1009.	हेक्साक्लोरो सायक्लोरोपेंटारंजकन							टी	

1010.	हेक्साक्लोरोएसीटोन							टी	
1011.	हेक्साक्लोरोबेंजीन							टी	
1012.	हेक्साक्लोरोबूटारंजकन							टी	
1013.	हेक्साक्लोरोरंजकबेंजो-पी-रंजकऑक्सीन, - 1,2,3,7,8,9, हेक्सा मिथाइलफोस्फोरमाइड							टी	
1014.	हेक्साक्लोरोफेन							टी	
1015.	हेक्साडिकिलट्राइक्लोरोसिलेन					सी			
1016.	हेक्साडिऐन		एफ						
1017.	हेक्सा मिथाइल टेट्राफोस्फेट							टी	
1018.	हेक्साफ्लोरोप्रोपिलेन								जी
1019.	हेक्सा मिथाइल फास्फोरोअमाइड							टी	
1020.	हेक्सा मिथाइलक, -3,3,6,6,9,9, -1,2,4,5, - टेट्रोक्सीसायक्लोनोनेन				आर				
1021.	हेक्सा मिथाइलेन रंजकसोसियेनेट							टी	
1022.	हेक्सा मिथाइलेनरंजकमाइन, घोल					सी			
1023.	हेक्सा मिथाइलेनरंजकमाइन, ठोस					सी			
1024.	हेक्सा मिथाइलेनीमाइन		एफ						
1025.	हेक्सा मिथाइलेनटेट्रा माइन		एफ						
1026.	हेक्सा मिथाइल फास्फोरेमाइड							टी	
1027.	हेक्सेन्स		एफ						
1028.	हेक्सेनाइड्रोस्टीबेन	ई							
1029.	हेक्सेनाइड्रोस्टीबेन-2,2,4,6,6	ई							
1030.	हेक्सेनोल्स		एफ						
1031.	हेक्सेवेलेंट क्रोमियम							टी	
1032.	हेक्सेन		एफ						
1033.	हेक्सोटोनेल	ई							
1034.	हेक्सिलट्राइक्लोरोसिलेन					सी			

1035.	हाइड्रोजिन		एफ					टी	
1036.	हाइड्रोजिन नाइट्रेट	ई							
1037.	हाइड्रोजिन, अनहाइड्राउस					सी			
1038.	हाइड्रोजिन एक्वियस घोल							टी	
1039.	हाइड्रोजिन, हाइड्रेट या हाइड्रोजिन, एक्वियस घोल					सी			
1040.	हाइड्रिओडिक अम्ल					सी			
1041.	हाइड्रोब्रोमिक अम्ल					सी			
1042.	हाइड्रोकार्बन गैस मिश्रण, संपीड़ित, एन.ओ.एस.								जी
1043.	हाइड्रोकार्बन, गैस मिश्रण, द्रवित, एन.ओ.एस.								जी
1044.	हाइड्रोकार्बन्स, द्रव, एन.ओ.एस.		एफ						
1045.	हाइड्रोक्लोरिक अम्ल					सी			
1046.	हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (गैस)							टी	
1047.	हाइड्रोसियानिक अम्ल, एक्वीयस घोल (हाइड्रोजन सियानाईड, एक्वियस घोल)							टी	
1048.	हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल					सी		टी	
1049.	हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मिश्रण					सी			
1050.	हाइड्रोजन		एफ		आर				
1051.	हाइड्रोजन ब्रोमाइड अन हाइड्रस								जी
1052.	हाइड्रोजन और मीथेन मिश्रण, संपीड़ित								जी
1053.	हाइड्रोजन ब्रोमाइड							टी	
1054.	हाइड्रोजनब्रोमाइड (हाइड्रोब्रोमिक अम्ल)					सी		टी	
1055.	हाइड्रोजन क्लोराइड (द्रवित गैस)					सी		टी	
1056.	हाइड्रोजन क्लोराइड, एनहाईड्रस								जी
1057.	हाइड्रोजन क्लोराइड, प्रशीतित द्रव								जी
1058.	हाइड्रोजन सायनाईड							टी	
1059.	हाइड्रोजन सायनाईड, एल्कोहल में घोल							टी	

1060	हाइड्रोजन सायनाईड, स्टेबीलाइज्ड						टी	
1061	हाइड्रोजन फ्लोराईड				सी		टी	
1062	हाइड्रोजन फ्लोराईड, एनहाईड्रस				सी			
1063	हाइड्रोजन आयोडाईड, एनहाईड्रस							जी
1064	हाइड्रोजन पैराक्साइड			ओ				
1065	हाइड्रोजन पैराक्साइड और पैरोक्सयाकेटिक अम्ल मिश्रण			ओ				
1066	हाइड्रोजन पैराक्साइड एडीयस घोल			ओ				
1067	हाइड्रोजन पैराक्साइड, एक्वेयस घोल			ओ				
1068	हाइड्रोजन पैराक्साइड, स्टेबीलाइज्ड या हाइड्रोजन पैराक्साइड, एडीयस घोल, स्टेबीलाइज्ड			ओ				
1069	हाइड्रोजन सेलेनाईड						टी	
1070	हाइड्रोजन सेलेनाईड, एनहाईड्रस							जी
1071	हाइड्रोजन सल्फाइड		एफ				टी	जी
1072	हाइड्रोजन, प्रशीतित द्रव							जी
1073	हाइड्रोजनडीफ्लोराइड्स, एन.ओ.एस.				सी			
1074	हाइड्रोक्वीनीन						टी	
1075	हाइड्रोक्सीलैमीन सल्फेट				सी			
1076	हाइपोक्लोराइट, घोल				सी			
1077	हाइपोक्लोराइट्स, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.			ओ				
1078	इनडीन						टी	
1079	पशुओं पर प्रभाव डालने वाले संक्रामक पदार्थ,						टी	
1080	मनुष्यों पर प्रभाव डालने वाले संक्रामक पदार्थ,						टी	
1081	इनसेक्टीसाइड गैस, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.							जी
1082	इनसेक्टीसाइड गैस, एन.ओ.एस.							जी
1083	इनसेक्टीसाइड गैस, विषैला, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.							जी
1084	इनसेक्टीसाइड गैस, विषैला, एन.ओ.एस.							जी
1085	आयोडीन						टी	

1086	आयोडीन मोनोक्लोराइड					सी			
1087	आयोडीन पेंटाफ्लोराइड			ओ					
1088	आयोडोमिथाइलप्रोपेन्स		एफ						
1089	आयोडोप्रोपेन्स		एफ						
1090	इसीडियम टेट्राक्लोराइड							टी	
1091	आयरन पेंटाकार्बोनिल							टी	
1092	आइसोबैजान							टी	
1093	आइसोब्यूटेन								जी
1094	आइसोब्यूटेनोल (आइसोब्यूटिल एल्कोहल)		एफ						
1095	आइसोब्यूट्रल क्लोराइड		एफ						
1096	आइसोब्यूटिल एसीटेट		एफ						
1097	आइसोब्यूटिल एक्रिलेट, स्टेबीलाइज्ड		एफ						
1098	आइसोब्यूटिल एल्कोहल								
1099	आइसोब्यूटिल फॉरमेट		एफ						
1100.	आइसोब्यूटिल आइसोब्यूटीरेट		एफ						
1101.	आइसोब्यूटिल आइसोसायनेट		एफ						
1102.	आइसोब्यूटिल मीथाक्राइलेट, स्टेबीलाइज्ड		एफ						
1103.	आइसोब्यूटिल प्रोपेन		एफ						
1104.	आइसोब्यूटलिन								जी
1105.	आइसोब्यूटिलडीहाइड (आइसोब्यूटिल एलडीहाइड)		एफ						
1106.	आइसोब्यूट्रिक अम्ल		एफ						
1107.	आइसोब्यूट्रो नाइट्राइल								
1108.	आइसोब्यूट्रो नाइट्राइल		एफ						
1109.	आइसोसायनेट्स, ज्वलनशील, विषैला एन.ओ.एस. या आइसोसायनेट घोल, विषैला, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.		एफ						
1110.	आइसोसायनेट्स, विषैला, ज्वलनशील, एन.ओ.एस. या							टी	

	आइसोसायनेट घोल, विषैला, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.								
1111.	आइसोसायनेटस, विषैला, एन.ओ.एस. या आइसोसायनेट घोल, एन.ओ.एस.							टी	
1112.	आइसोसायनेटोबेंजोड्राइफ्लोराइड्स							टी	
1113.	आइसोसायनिक अम्ल 34-डीक्लोरोफिनाइल एस्टर							टी	
1114.	आइसोड्रिन							टी	
1115.	आइसोफ्लोरोफास्फेट							टी	
1116.	आइसोहेप्टीन		एफ						
1117.	आइसोहेक्सीन								
1118.	आइसोओक्टीन		एफ						
1119.	आइसोपेन्टीन्स		एफ						
1120.	आइसोफोरोन डाइसोसायनेट							टी	
1121.	आइसोफोरोन डाइसोसायलनेट							टी	
1122.	आइसोफोरोनडायमाइन					सी			
1123.	आइसोप्रोपेनाइल एसीटेट		एफ						
1124.	आइसोप्रोपेनाइलबेंजीन		एफ						
1125.	आइसोप्रोपल फोरमेट							टी	
1126.	आइसोप्रोपिल 2-क्लोरोप्रोपेनेट		एफ						
1127.	आइसोप्रोपिल एसीटेट		एफ						
1128.	आइसोप्रोपिल अम्ल फास्फेट					सी			
1129.	आइसोप्रोपिल एल्कोहल		एफ						
1130.	आइसोप्रोपिल ब्यूटाइरिट		एफ						
1131.	आइसोप्रोपिल क्लोरोसीटेट		एफ						
1132.	आइसोप्रोपिल क्लोरोकार्बोनेट					सी			
1133.	आइसोप्रोपिल क्लोरोफार्मेट							टी	
1134.	आइसोप्रोपिल ईथर		एफ						
1135.	आइसोप्रोपिल आइसोब्यूटाइरिट		एफ						

1136.	आइसोप्रोपिल आइसोसायनेट		एफ						
1137.	आइसोप्रोपिल मैथिल पैराजोलिल डिमैथिल कार्बोनेट							टी	
1138.	आइसोप्रोपिल प्रोपेनेट		एफ						
1139.	आइसोप्रोपिलैमिन		एफ			सी			
1140.	आइसोप्रोपिलबैजिन		एफ						
1141.	आइसोप्रोपेनल (आइसोप्रोपिल एल्कोहल)		एफ						
1142.	आइसोसोर्बाइड डिनीट्रेट मिश्रण		एफ						
1143.	आइसोसोर्बाइड-5-मोनोनाइट्रेट		एफ						
1144.	जगलोन (5-हाइड्रोक्सीनेफ्थालीन-1, 4-डायने)							टी	
1145.	जगलोन (5-हाइड्रोक्सीनेफ्थालीन-डायने)							टी	
1146.	केरोसीन		एफ						
1147.	केटीन							टी	
1148.	केटोन्स, द्रव, एन.ओ.एस.		एफ						
1149.	क्रिप्टन, प्रशीतित द्रव								जी
1150.	लेक्टोनाइड्राईल							टी	
1151.	लेड (अकार्बनिक फ्यूम और डस्ट)							टी	
1152.	लेड 2,4,6-ट्राइनाइट्रोसोर्सिइनऑक्साइड (लेड स्टाइफनेट)	ई							
1153.	लेड एसीटेट							टी	
1154.	लेड आर्सीनेट							टी	
1155.	लेड आर्सेनाइट							टी	
1156.	लेड आर्सेनाइट्स							टी	
1157.	लेड एजाइड							टी	
1158.	लेड एजाइड, वैटिड	ई							
1159.	लेड कंपाउंड, सोल्यूबल, एन.ओ.एस.							टी	
1160.	लेड सायनाइड							टी	
1161.	लेड डायोक्साइड			ओ					
1162.	लेड नाइट्रेट			ओ					

1163.	लेड परक्लोरेट			ओ					
1164.	लेड फास्फाइड, डायबेसिक		एफ						
1165.	लेड स्टाइफनेट (लेड ट्राईनाईट्रोसोर्सिनेट)	ई							
1166.	लेड सल्फेट				सी				
1167.	लिनडेन						टी		
1168.	द्रवित गैस, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.							जी	
1169.	द्रवित गैस, एन.ओ.एस.							जी	
1170.	द्रवित गैस, ऑक्सीडाइजिंग, एन.ओ.एस.							जी	
1171.	द्रवित गैस, विषैला, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.							जी	
1172.	द्रवित गैस, विषैला, एन.ओ.एस.							जी	
1173.	द्रवित पेट्रोलियम गैस		एफ						
1174.	द्रवित गैस, विषैला, संक्षारक, एन.ओ.एस.							जी	
1175.	द्रवित गैस, विषैला, ज्वलनशील, संक्षारक, एन.ओ.एस.							जी	
1176.	द्रवित गैस, विषैला, ऑक्सीडाइजिंग, संक्षारक, एन.ओ.एस.							जी	
1177.	द्रवित गैस, विषैला, ऑक्सीडाइजिंग, एन.ओ.एस.							जी	
1178.	लिथियम		एफ						
1179.	लिथियम एल्काईड्स		एफ						
1180.	लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राईड		एफ						
1181.	लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राईड, ईथरीयल		एफ						
1182.	लिथियम बोरो हाइड्राईड		एफ						
1183.	लिथियम फेरोसिलिकोन		एफ						
1184.	लिथियम हाइड्राईड		एफ						
1185.	लिथियम हाइड्राईड, फ्यूज्ड ठोस		एफ						
1186.	लिथियम हाइड्रोक्साईड मोनोहाईड्रेट				सी				
1187.	लिथियम हाइड्रोक्साईड घोल				सी				
1188.	लिथियम हाइपोक्लोराइट, सूखा और लिथियम हाइपोक्लोराइट मिश्रण			ओ					

1189.	लिथियम नाइट्रेट			ओ					
1190.	लिथियम नाइट्राइड		एफ						
1191.	लिथियम पेरोक्साइड			ओ					
1192.	लिथियम सिलिकोन		एफ						
1193.	लंदन पर्यट							टी	
1194.	मैग्नीशियम एल्काइल्स		एफ						
1195.	मैग्नीशियम एल्युमिनियम फॉस्फाइड		एफ						
1196.	मैग्नीशियम आर्सेनेट							टी	
1197.	मैग्नीशियम ब्रोमेट			ओ					
1198.	मैग्नीशियम क्लोरेट			ओ					
1199.	मैग्नीशियम डायमाइड		एफ						
1200.	मैग्नीशियम डायफिनाइल		एफ						
1201.	मैग्नीशियम फ्लोरोसिलिकेट							टी	
1202.	मैग्नीशियम ग्रेन्युल्स, कोटेड		एफ						
1203.	मैग्नीशियम हाइड्राइड		एफ						
1204.	मैग्नीशियम नाइट्रेट			ओ					
1205.	मैग्नीशियम या मैग्नीशियम एलॉयस		एफ						
1206.	मैग्नीशियम परक्लोरेट			ओ					
1207.	मैग्नीशियम पेरोक्साइड			ओ					
1208.	मैग्नीशियम फॉस्फाइड		एफ						
1209.	मैग्नीशियम चूर्ण या मैग्नीशियम एलॉयस चूर्ण		एफ						
1210.	मैग्नीशियम चूर्ण या रिबन			ओ					
1211.	मैग्नीशियम सिलिसाइड		एफ						
1212.	मैलेक एनहाइड्राइड					सी			
1213.	मैलेल एनहाइड्राइड							टी	
1214.	मैलोनोनाइट्राइल							टी	
1215.	माल्टेल एनहाइड्राइड							टी	
1216.	मैंगनीज और कम्पाउंड्स							टी	

1217.	मानेब और मानेब निर्मिति		एफ						
1218.	मानेब, स्टेबीलाइज्ड या मानेब निर्मिति, स्टेबीलाइज्ड		एफ						
1219.	मैंगनीज नाइट्रेट			ओ					
1220.	मैंगनीज रेसीनेट		एफ						
1221.	मैंगनीज ट्राइकार्बोनाइल साइक्लोपेन्टाडीन					सी			
1222.	मनीटोल, हैक्सानाइट्रेट (नाइट्रोमोनिट) वेटेड	इ							
1223.	माचस फ्यूजी		एफ						
1224.	माचस सुरक्षा		एफ						
1225.	माचस स्ट्राइक एनीव्हेयर		एफ						
1226.	माचस वास वेस्टा		एफ						
1227.	मेकलर इथामाइन							टी	
1228.	मेडिसन, द्रव, ज्वलनशील, विषैला, एन.ओ.एस.		एफ						
1229.	मेडिसन, द्रव, विषैला, एन.ओ.एस.							टी	
1230.	मेडिसन ठोस, विषैला, एन.ओ.एस.							टी	
1231.	मेफोसफोलेन							टी	
1232.	मरकेप्टन, द्रव, ज्वलनशील, विषैला एन.ओ.एस. या मरकेप्टन मिश्रण, द्रव, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.		एफ						
1233.	मरकेप्टन, द्रव, ज्वलनशील, विषैला एन.ओ.एस. या मरकेप्टन मिश्रण		एफ						
1234.	मरकेप्टन, द्रव, विषैला, ज्वलनशील, एन.ओ.एस. या मरकेप्टन मिश्रण, द्रव, विषैला, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.							टी	
1235.	मरकेप्टो बेंजोथायजोल							टी	
1236.	मरकरिक एसिडेट							टी	
1237.	मरकरिक आर्सीनेट							टी	
1238.	मरकरिक क्लोराइड							टी	
1239.	मरकरिक नाइट्रेट							टी	

1240.	मरकरिक ऑक्साइड							टी	
1241.	मरकरिक पोटेशियम साइनाइड							टी	
1242.	मरकरयस नाइट्रेट							टी	
1243.	मरकरी					सी			
1244.	मरकरी एसिटेट							टी	
1245.	मरकरी एल्काइल			ओ				टी	
1246.	मरकरी अमोनियम क्लोराइड							टी	
1247.	मरकरी बेस्ड पेस्टीसाइड, द्रव, ज्वलनशील, विषैला		एफ						
1248.	मरकरी बेस्ड पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला							टी	
1249.	मरकरी बेस्ड पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला, ज्वलनशील							टी	
1250.	मरकरी बेस्ड पेस्टीसाइड, ठोस, विषैला							टी	
1251.	मरकरी बेंजोएट							टी	
1252.	मरकरी ब्रोमाइड्स							टी	
1253.	मरकरी कंपाउंड, द्रव, एन.ओ.एस.							टी	
1254.	मरकरी कंपाउंड, ठोस, एन.ओ.एस.							टी	
1255.	मरकरी साइनाइड							टी	
1256.	मरकरी फ्लूमीनेट	ई							
1257.	मरकरी ग्लूकोनेट							टी	
1258.	मरकरी आयोडाइड							टी	
1259.	मरकरी मिथाइल							टी	
1260.	मरकरी मिथाइल क्लोराइड							टी	
1261.	मरकरी न्यूकलिएट							टी	
1262.	मरकरी ओलिएट							टी	
1263.	मरकरी आक्साइड							टी	
1264.	मरकरी आक्सीसाइनाइड, डीसेंसीटाइज्ड							टी	
1265.	मरकरी पोटेशियम आयोडाइड							टी	
1266.	मरकरी सेलीकिलेट							टी	
1267.	मरकरी सल्फेट							टी	

1268.	मरकशी थियोक्सायनेट							टी	
1269.	धातु अल्काइल हेल्डीज, जल रियेक्टिव, एन.ओ.एस. या धातु एरीलस, हेल्डीज, जल रियेक्टिव, एन.ओ.एस.		एफ						
1270.	धातु अल्काइल हाइड्राइड, जल रियेक्टिव, एन.ओ.एस. या धातु एरील्स, हाइड्राइड, जल रियेक्टिव, एन.ओ.एस.		एफ						
1271.	धातु एल्काइल्स, जल रियेक्टिव, एन.ओ.एस. या धातु एरिलस, जल रियेक्टिव, एन.ओ.एस.		एफ						
1272.	धातु कार्बोनिल्स, एन.ओ.एस.							टी	
1273.	धातु केटेलिस्ट, सूखा		एफ						
1274.	धातु केटेलिस्ट, गीला		एफ						
1275.	धातु हाइड्राइड्स, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.		एफ						
1276.	धातु हाइड्राइड्स, जल रियेक्टिव, एन.ओ.एस.		एफ						
1277.	धातु पाउडर, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.		एफ						
1278.	धातु पाउडर, सेल्फ हीटिंग, एन.ओ.एस.		एफ						
1279.	ओरेनिक कंपाउंड्स का धातु लवण, ज्वलनशील एन.ओ.एस.		एफ						
1280.	धातुडिहाईड		एफ						
1281.	धात्विक पदार्थ, जल रियेक्टिव, एन.ओ.एस.		एफ						
1282.	मीथाक्रोलीन डायसीटेट		एफ						
1283.	मेथाक्रीलालडीहायड, स्टेबीलाइज्ड		एफ						
1284.	मेथाक्रीलिक अम्ल, स्टेबीलाइज्ड					सी			
1285.	मेथाक्रीलिक एनहाइड्राइड					सी			
1286.	मेथाक्रिलोनाइड्राइल					सी			
1287.	मेथाक्रिलोनाइड्राइल, स्टेबीलाइज्ड		एफ						
1288.	मेथाक्रिलोयल क्लोराइड							टी	
1289.	मेथाक्रिलोयल ऑक्सीथायल आइसोसायनेट							टी	
1290.	मेथालिल एक्लोहल		एफ						

1291.	मेथामिडोफोस							टी	
1292.	मीथेन								जी
1293.	मीथेन, संपीड़ित या प्राकृतिक गैस, संपीड़ित								जी
1294.	मीथेन, प्रशीतिट द्रव या प्राकृतिक गैस, प्रशीतिट द्रव								जी
1295.	मीथेनसल्फोनिल क्लोराइड							टी	
1296.	मीथेनसल्फोनिल फ्लोराइड							टी	
1297.	मीथेनीडोफोस							टी	
1298.	मीथानोल		एफ						
1299.	मीथानथोल							टी	
1300.	मेथीडेथियन							टी	
1301.	मेथियोकार्ब							टी	
1302.	मीथोनिल							टी	
1303.	मेथोक्सी एथानोल							टी	
1304.	मेथोक्सी एथानोल (2-मिथाइल सेलोसोल्व)							टी	
1305.	मेथोक्सीथाइल मरकरिक एसीटेट							टी	
1306.	मेथोक्सीमिथाइल आइसोसायनेट		एफ						
1307.	मेथारिलोल क्लोराइड							टी	
1308.	मिथाइल 2-क्लोरोएक्रीलेट							टी	
1309.	मिथाइल 2-क्लोरोप्रोपोशनेट		एफ						
1310.	मिथाइल एसीटेट		एफ						
1311.	मिथाइल एक्रीलेट		एफ					टी	
1312.	मिथाइल एक्रीलेट, स्टेबीलाइज्ड		एफ						
1313.	मिथाइल एल्कोहल		एफ						
1314.	मिथाइल एमिन		एफ						
1315.	मिथाइल एमिलकेटोन					सी			
1316.	मिथाइल ब्रोमाइड								जी
1317.	मिथाइल ब्रोमाइड (ब्रोमोमीथेन)							टी	

1318.	मिथाइल ब्रोमाइड और एथीलीन डायब्रोमाइड मिश्रण, द्रव							टी	
1319.	मिथाइल ब्रोमोसीटेट		एफ						
1320.	मिथाइल ब्यूटीरेट		एफ						
1321.	मिथाइल क्लोराइड							टी	जी
1322.	मिथाइल क्लोराइड और मेथीलीन क्लोराइड मिश्रण								जी
1323.	मिथाइल क्लोरोसीटेट							टी	
1324.	मिथाइल क्लोरोफार्म		एफ					टी	
1325.	मिथाइल क्लोरोफार्मेट							टी	
1326.	मिथाइल क्लोरोमिथाइल ईथर							टी	
1327.	मिथाइल साइक्लोहीक्सेन		एफ						
1328.	मिथाइल साइक्लोहीक्सेन		एफ						
1329.	मिथाइल डिक्लोरोसीटेट							टी	
1330.	मिथाइल डाइसल्फाइड							टी	
1331.	मिथाइल एथिल कीटोन परोक्साइड				आर				
1332.	मिथाइल एथिल कीटोन परोक्साइड (कोन्स. 60%)							टी	
1333.	मिथाइल फारमेट		एफ						
1334.	मिथाइल ग्लोराइड (प्रशीतक गैस आर 41)								जी
1335.	मिथाइल हाइड्राजीन			ओ					
1336.	मिथाइल आयोडाइड							टी	
1337.	मिथाइल आइसोब्यूटिल कार्बिनोल		एफ						
1338.	मिथाइल आइसोब्यूटिल कीटोन		एफ						
1339.	मिथाइल आइसोब्यूटिल कीटोन परोक्साइड				आर				
1340.	मिथाइल आईसोसायनेट		एफ					टी	
1341.	मिथाइल आईसोप्रोपेनिल कीटोन, स्टेबीलाइज्ड		एफ						
1342.	मिथाइल आईसोथियोसायनेट							टी	
1343.	मिथाइल आईसोवलरेट		एफ						
1344.	एथिल ईथर में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड		एफ						

1345.	मिथाइल मे क्यूरिक डाईसायनामाईड							टी	
1346.	मिथाइल मरकेप्टन								जी
1347.	मिथाइल मीथाक्राईलेट		एफ						
1348.	मिथाइल मीथाक्राईलेट मोनोमेर, स्टेबीलाईज्ड		एफ						
1349.	मिथाइल -एन. 2,4,6,6-टेट्रानलानलाईन							टी	
1350.	मिथाइल नाईट्राइट								जी
1351.	मिथाइल ओर्थोसिलीकेट							टी	
1352.	मिथाइल पेरेथियन							टी	
1353.	मिथाइल फेनकेप्टेन							टी	
1354.	मिथाइल फोसोनिक डायक्लोराईड							टी	
1355.	मिथाइल फोस्फोनिक डायक्लोराईड							टी	
1356.	मिथाइल प्रोपायोनैट		एफ						
1357.	मिथाइल प्रोपिल ईथर		एफ						
1358.	मिथाइल प्रोपिल कीटोन		एफ						
1359.	मिथाइल स्टाईरीन		एफ					टी	
1360.	मिथाइल टर्ट-ब्यूटिल ईथर		एफ						
1361.	मिथाइल थियोसायनेट							टी	
1362.	मिथाइल ट्राइक्लोरोसीनेट							टी	
1363.	मिथाइल ट्राइक्लोरोसिलेन							टी	
1364.	मिथाइल विनाईल कीटोन							टी	
1365.	मिथाइल विनाइल कीटोन, स्टेबीलाईज्ड							टी	
1366.	मिथाइलिल क्लोराइड		एफ						
1367.	मिथाइलेमिन, एनहाईड्रस								जी
1368.	मिथाइलामिल एसीटेट		एफ						
1369.	मिथाइलक्लोरोसिलेन								जी
1370.	मिथाइलसाइक्लोहीक्सेन		एफ						
1371.	मिथाइलसाइक्लोहीक्सेनोस		एफ						
1372.	मिथाइलसाइक्लोहीक्सेनोन		एफ						

1373.	मिथाइलसाइक्लोपेंटेन		एफ						
1374.	मिथाइलडीक्लोरोसिलेन		एफ						
1375.	मिथाइलीन बिस(2-क्लोरोनीलाइन)							टी	
1376.	मिथाइलीन क्लोराइड							टी	
1377.	मिथाइलनेबिस, -4, 4, (2, -क्लोरोनीलाइन)							टी	
1378.	मिथाइलहाइड्रेजाइन							टी	
1379.	मिथाइलिसोब्यूटिल कीटोन							टी	
1380.	मिथाइलपेंटाडीन		एफ						
1381.	मिथाइलफिनाइलडीक्लोरोसिलेन					सी			
1382.	मिथाइलटेट्राहाइड्रोफेरान		एफ						
1383.	मिथाइलट्राइक्लोरोसिलेन		एफ						
1384.	मेथयोल आइसोडायनेट		एफ					टी	
1385.	मेविनफोस							टी	
1386.	मोलिब्डेनम और कंपाउंड							टी	
1387.	मोलिब्डेनम पेंटाक्लोराइड					सी			
1388.	मोलिब्डेनम पाउडर							टी	
1389.	मोनोक्रोटोफोस							टी	
1390.	मोरफोलीन		एफ			सी			
1391.	मोटरफ्यूल एंटी नॉक मिश्रण							टी	
1392.	मोटर स्पिरिट या गैसोलीन या पेट्रोल		एफ						
1393.	मस्टर्ड गैस							टी	
1394.	एन, एन-डाइथाइलेथाइलेनडायमाइन					सी			
1395.	एन, एन-डाइमिथाइलफारमेमाइड		एफ						
1396.	एन, एन-डाइमिथाइलनाइलाइन							टी	
1397.	एन-अमीनोथाइलपाइपरेजिन					सी			
1398.	नेफ्था	इ	एफ						
1399.	नेफ्था साल्वेंट	इ	एफ						
1400.	नेफ्थालीन, कच्चा या नेफ्थालीन, रिफाईंड		एफ						

1401.	नेपथ्यालीन, मोल्टेन		एफ						
1402.	नेपथ्यालेमिन							टी	
1403.	नेपथ्याइलयूरिया							टी	
1404.	नेपथा (कोल टार)		एफ						
1405.	नेपथ्यालीन							टी	
1406.	नेपथ्यालेमिन, -2							टी	
1407.	एन-ब्यूटिल एसीटेट							टी	
1408.	एन-ब्यूटिल एल्कोहल		एफ					टी	
1409.	एन-ब्यूटिल क्लोरोफार्मेट							टी	
1410.	एन-ब्यूटिल फार्मेट		एफ						
1411.	एन-ब्यूटिल आईसोसायनेट							टी	
1412.	एन-ब्यूटिल मेथाक्राइलेट, स्टेबीलाइज्ड		एफ						
1413.	एन-ब्यूटिलेनीलाइन							टी	
1414.	एन-ब्यूटीलिमिडेजोल							टी	
1415.	एन-डीकेन		एफ						
1416.	एन-डाइथाइलेनीलाइन							टी	
1417.	एन-डिनीट्रोबेंजीन							टी	
1418.	नियोन, प्रशीतित द्रव								जी
1419.	एन-एथिलेनीलाइन							टी	
1420.	एन-इथिल बेंजील टॉल्यूडाइन्स, द्रव/वेस							टी	
1421.	एन-एथिल-एन-बेंजीलेनीलाइन							टी	
1422.	एन-एथिलटॉल्यूडाइन्स							टी	
1423.	एन-हेप्टलडीहाइडे		एफ						
1424.	एन-हेप्टीन		एफ						
1425.	एन-हेक्सीन		एफ						
1426.	निकल और कंपाउंड							टी	
1427.	निकल कार्बोनिल/ निकेलटेट्राकार्बोनिल							टी	
1428.	निकेल सायनाइड							टी	

1429.	निकेल नाइट्रेट			ओ					
1430.	निकेल नाइट्रेट			ओ					
1431.	निकेल पाउडर							टी	
1432.	निकेल टेट्राकार्बोनिल		एफ					टी	
1433.	निकोटिन							टी	
1434.	निकोटिन कंपाउंड, द्रव, एन.ओ.एस. या निकोटिन निर्मिति द्रव, एन.ओ.एस.							टी	
1435.	निकोटिन कंपाउंड, ठोस, एन.ओ.एस. या निकोटिन निर्मिति ठोस, एन.ओ. एस.							टी	
1436.	निकोटिन हाइड्रोक्लोराइड, द्रव या निकोटिन हाइड्राइक्लोराइड घोल							टी	
1437.	निकोटिन हाइड्रोक्लोराइड, ठोस							टी	
1438.	निकोटिन सलीक्यालेट							टी	
1439.	निकोटिन सल्फेट							टी	
1440.	निकोटिन सल्फेट, ठोस								
1441.	निकोटिन सल्फेट, घोल							टी	
1442.	निकोटिन टारट्रेट							टी	
1443.	नाईरिक ऑक्साइड, संपीड़ित								जी
1444.	नाईट्रेट्स, अकार्बनिक, एक्यूअस घोल एन.ओ.एस.			ओ					
1445.	नाईट्रेट्स, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.			ओ					
1446.	नाइट्रेटिंग अम्ल मिश्रण					सी			
1447.	नाइट्रेटिंग अम्ल मिश्रण					सी			
1448.	नाइट्रिक अम्ल					सी			
1449.	नाइट्रिक अम्ल और डिनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड मिश्रण (नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डायक्साइड मिश्रण)								जी
1450.	नाइट्रिक अम्ल,					सी			
1451.	नाइट्रिक ऑक्साइड							टी	

1452.	नाइट्राइट्स, ज्वलनशील, विषैला, एन.ओ.एस.		एफ						
1453.	नाइट्राइट्स, विषैला, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.							टी	
1454.	नाइट्राइट्स, विषैला, विषैला एन.ओ.एस.							टी	
1455.	नाइट्राइट्स, अकार्बनिक, एक्यूअस घोल एन.ओ.एस.			ओ					
1456.	नाइट्राइट्स, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.			ओ					
1457.	नाइट्रो यूरिया	इ							
1458.	नाइट्रोनीलाइन-ओ							टी	
1459.	नाइट्रोनीलाइन-पी							टी	
1460.	नाइट्रोनीलाइन्स							टी	जी
1461.	नाइट्रोनीसोल्स, द्रव/ ठोस							टी	
1462.	नाइट्रोबेन्जीन							टी	
1463.	नाइट्रोबेन्जीनसल्फोनिक अम्ल					सी			
1464.	नाइट्रोबेंजोड्राइफ्लोराइड्स							टी	
1465.	नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, द्रव							टी	
1466.	नाइट्रोसेलूलोज	इ							
1467.	नाइट्रोसेलूलोज मेम्ब्रेन फिल्टर		एफ						
1468.	नाइट्रोसेलूलोज मिश्रण प्लास्टी साइजर सहित या रहित, पिग्मेंट सहित या रहित		एफ						
1469.	नाइट्रोसेलूलोज घोल, ज्वलनशील		एफ						
1470.	नाइट्रोसेलूलोज एल्कोहल सहित		एफ						
1471.	नाइट्रोसेलूलोज जल सहित		एफ						
1472.	नाइट्रोसेलूलोज (सूखा)	इ							
1473.	नाइट्रोक्लोरोबेंजीन							टी	
1474.	नाइट्रोक्लोरोबेंजीन-पी							टी	
1475.	नाइट्रोक्रोसोल्स							टी	
1476.	नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन							टी	

1477.	नाइट्रोथान		एफ					टी	
1478.	नाइट्रोजन								जी
1479.	नाइट्रोजन डायऑक्साइड							टी	
1480.	नाइट्रोजनऑक्साइड							टी	जी
1481.	नाइट्रोजन ऑक्साइडस							टी	
1482.	नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड							टी	जी
1483.	नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, संपीडित								जी
1484.	नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइडियो								जी
1485.	नाइट्रोजन प्रशीतित द्रव								जी
1486.	नाइट्रोग्लिसरीन मिश्रण, डिसेंटीटाइज्ड ठोस एन.ओ.एस.		एफ						
1487.	नाइट्रोग्लिसरीन मिश्रण, डिसेंटीटाइज्ड द्रव ज्वलनशील, एन.ओ.एस.		एफ						
1488.	नाइट्रोग्लिसरीन मिश्रण, डिसेंटीटाइज्ड द्रव, एन.ओ.एस.		एफ						
1489.	एल्कोहल में नाइट्रोग्लिसरीन घोल	इ							
1490.	एल्कोहल में नाइट्रोग्लिसरीन घोल		एफ						
1491.	नाइट्रोग्लिसरीन	इ						टी	
1492.	नाइट्रोगुआनीडाइन (पिक्राइट)		एफ						
1493.	एल्कोहल में नाइट्रोग्लिसरीन घोल		एफ						
1494.	नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल					सी			
1495.	नाइट्रोमीथेन		एफ						
1496.	नाइट्रोनेफ्थालीन		एफ						
1497.	नाइट्रेफेनोल-पी							टी	
1498.	नाइट्रेफेनोल्स							टी	
1499.	नाइट्रोप्रोपेन-1		एफ						
1500.	नाइट्रोप्रोपेन-2		एफ						
1501.	नाइट्रोप्रोपेनस		एफ						

1502.	नाइट्रोसो डिमिथाइलेमिन							टी	
1503.	नाइट्रोस्टार्च	इ							
1504.	नाइट्रोस्टार्च, गीला		एफ						
1505.	नाइट्रोसिलक्लोराइड								जी
1506.	नाइट्रोसिलसल्फ्यूरिक अम्ल, द्रव / ठोस					सी			
1507.	नाइट्रोटोल्यून							टी	
1508.	नाइट्रोटोल्यून, द्रव							टी	
1509.	नाइट्रोटोल्यूडाइन्स (मोनो)							टी	
1510.	नाइट्रस ऑक्साइड								जी
1511.	नाइट्रस ऑक्साइड, प्रशीतित द्रव								जी
1512.	नाइट्रोक्सीलीनस, द्रव							टी	
1513.	एन-मिथाइलेनीलाइन							टी	
1514.	एन-मिथाइलब्यूटीलेमिन		एफ						
1515.	एन-मिथाइल-एन, 2,4,6-ट्रैनीट्रोनीलाइन	इ							
1516.	नोनेन्स		एफ						
1517.	नोनीट्राइक्लोरोसिलेन					सी			
1518.	एन-प्रोपेनोल (प्रोपिल एल्कोहल, नार्मल)		एफ						
1519.	एन-प्रोपिल एसीटेट		एफ						
1520.	एन-प्रोपिल क्लोरोफॉस्फेट							टी	
1521.	एन-प्रोपिल आइसोसायनेट							टी	
1522.	एन-प्रोपिल नाइट्रेट		एफ						
1523.	एन-प्रोपिलबेंजीन		एफ						
1524.	ओक्टेडेकिलट्राइक्लोरोसिलेन					सी			
1525.	ओक्टेडीन		एफ						
1526.	ओक्टेफ्लोरोबट (प्रशीतक गैस आर 218)								जी
1527.	ओक्टेफ्लोरोबट-2-ईने (प्रशीतक गैस आर 318)								जी
1528.	ओक्टेफ्लोरोसिलब्यूटेन (प्रशीतक गैस आरसी 318)								जी

1529.	ओक्टेन्स		एफ						
1530.	ओक्टिल एलडीहाइड्स		एफ						
1531.	ओक्टिलट्राइक्लोरोसिलेन					सी			
1532.	ओ-डिक्लोरोबेंजीन							टी	
1533.	ओलियम					सी			
1534.	ओ-नाइट्रो टोल्यून	ई							
1535.	ओओ डाइथिल एस इथिल सुफ. मेथिल फोस							टी	
1536.	ओओ डाइथिल एस इथिल सल्फिनिल मेथिल फोसफोरो थिएट							टी	
1537.	ओओ डाइथिल एस आइसो प्रोपिल थियो मेथिल फोसफोरोथिएट							टी	
1538.	ओओ डाइथिल एस आइसो प्रोपिल थियो मेथिल फोसफोरोथिएट							टी	
1539.	कार्बनिक पेरॉक्साइड, टाइप ख, द्रव			ओ					
1540.	कार्बनिक पेरॉक्साइड, टाइप ख, द्रव, नियंत्रित तापमान			ओ					
1541.	कार्बनिक पेरॉक्साइड, टाइप ख, ठोस			ओ					
1542.	कार्बनिक पेरॉक्साइड, टाइप ख, ठोस, नियंत्रित तापमान			ओ					
1543.	कार्बनिक पेरॉक्साइड, टाइप ग, द्रव			ओ					
1544.	कार्बनिक पेरॉक्साइड, टाइप ग, द्रव, नियंत्रित तापमान			ओ					
1545.	कार्बनिक पेरॉक्साइड, टाइप ग, ठोस			ओ					
1546.	कार्बनिक पेरॉक्साइड, टाइप ग, ठोस, नियंत्रित तापमान			ओ					

1547.	कार्बनिक पेट्रोक्साइड, टाइप घ, द्रव			ओ					
1548.	कार्बनिक पेट्रोक्साइड, टाइप घ, द्रव, नियंत्रित तापमान			ओ					
1549.	कार्बनिक पेट्रोक्साइड, टाइप घ, ठोस			ओ					
1550.	कार्बनिक पेट्रोक्साइड, टाइप घ, ठोस, नियंत्रित तापमान			ओ					
1551.	कार्बनिक पेट्रोक्साइड, टाइप ङ, ठोस			ओ					
1552.	कार्बनिक पेट्रोक्साइड, टाइप ङ, द्रव नियंत्रित तापमान			ओ					
1553.	कार्बनिक पेट्रोक्साइड, टाइप ङ, ठोस			ओ					
1554.	कार्बनिक पेट्रोक्साइड, टाइप ङ, ठोस, नियंत्रित तापमान			ओ					
1555.	कार्बनिक पेट्रोक्साइड, टाइप च, द्रव			ओ					
1556.	कार्बनिक पेट्रोक्साइड, टाइप च, द्रव, नियंत्रित तापमान			ओ					
1557.	कार्बनिक पेट्रोक्साइड, टाइप च, ठोस			ओ					
1558.	कार्बनिक पेट्रोक्साइड, टाइप च, ठोस, नियंत्रित तापमान			ओ					
1559.	कार्बनिक पिगमेंट, स्व तापन		एफ						
1560.	आर्गेनो सेडियम काम्प्लेक्स							टी	
1561.	आर्गेनोआर्सेनिक कंपाउंड, एन.ओ.एस.							टी	
1562.	आर्गेनोक्लोरीन पेट्रीसाइड द्रव, ज्वलनशील, विषैला		एफ						
1563.	आर्गेनोक्लोरीन, पेट्रीसाइड द्रव, विषैला							टी	
1564.	आर्गेनोक्लोरीन, पेट्रीसाइड द्रव, विषैला							टी	
1565.	आर्गेनोक्लोरीन, पेट्रीसाइड ठोस, विषैला							टी	
1566.	आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड या कंपाउंड घोल या कंपाउंड डिस्पर्सन, जल प्रतिघाती, ज्वलनशील,		एफ						

	एन.ओ.एस.								
1567.	आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, विषैला, एन.ओ.एस.							टी	
1568.	आर्गेनोफास्फोरस कंपाउंड, विषैला, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.							टी	
1569.	आर्गेनोफास्फोरस कंपाउंड विषैला, एन.ओ.एस.							टी	
1570.	आर्गेनोफास्फोरस पेस्टीसाइड द्रव, ज्वलनशील, विषैला		एफ						
1571.	आर्गेनोफास्फोरस पेस्टीसाइड ठोस, विषैला							टी	
1572.	आर्गेनोफास्फोरस पेस्टीसाइड द्रव, विषैला							टी	
1573.	आर्गेनोफास्फोरस पेस्टीसाइड द्रव, विषैला, ज्वलनशील							टी	
1574.	आर्गेनोटिन कंपाउंड, द्रव, एन.ओ.एस.							टी	
1575.	आर्गेनोटिन कंपाउंड, ठोस, एन.ओ.एस.							टी	
1576.	आर्गेनोटिन पेस्टीसाइड द्रव, ज्वलनशील, विषैला		एफ						
1577.	आर्गेनोटिन पेस्टीसाइड द्रव, विषैला							टी	
1578.	आर्गेनोटिन पेस्टीसाइड द्रव, विषैला, ज्वलनशील,							टी	
1579.	आर्गेनोटिन पेस्टीसाइड ठोस, विषैला							टी	
1580.	ओरोटिक अम्ल							टी	
1581.	ओसमियम टेट्रोक्साइड							टी	
1582.	ओ-टोल्युडाइन							टी	
1583.	आक्सीटेन, 3,3-बिस (क्लोरोमिथाइल)							टी	
1584.	आक्सीडाइफेनोजास्तीन							टी	

1585.	आक्सीडाइजिंग द्रव, संक्षारक एन.ओ.एस.			ओ					
1586.	आक्सीडाइजिंग द्रव, एन.ओ.एस.			ओ					
1587.	आक्सीडाइजिंग द्रव, विषैला, एन.ओ.एस.			ओ					
1588.	आक्सीडाइजिंग ठोस, संक्षारक एन.ओ.एस.			ओ					
1589.	आक्सीडाइजिंग ठोस, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.			ओ					
1590.	आक्सीडाइजिंग ठोस, एन.ओ.एस.			ओ					
1591.	आक्सीडाइजिंग ठोस, स्वतापन एन.ओ.एस.			ओ					
1592.	आक्सीडाइजिंग ठोस, विषैला एन.ओ.एस.			ओ					
1593.	आक्सीडाइजिंग ठोस, जल-प्रतिघाती, एन.ओ.एस.			ओ					
1594.	आक्सीडाइसल्फोटोन							टी	
1595.	आक्सीजन (द्रव)			ओ					जी
1596.	आक्सीजन डाइफ्लोराइड							टी	
1597.	आक्सीजन डाइफ्लोराइड, संपीड़ित								जी
1598.	आक्सीजन जेनरेटर, केमिकल			ओ					
1599.	आक्सीजन (द्रव)			ओ					
1600.	ओ-क्सीलीन		एफ			सी			
1601.	ओजोन			ओ	आर			टी	
1602.	रंग या रंग से संबंधित सामान					सी			
1603.	पैराफिन		एफ						
1604.	पैराफारमलडीहाइड		एफ					टी	
1605.	पैरोक्सोन (डाइथिल 4 नाइट्रोफिनाइल फास्फेट)							टी	
1606.	पैराक्यूएट मेथोसल्फेट							टी	
1607.	पैराथियोन							टी	
1608.	पैराथियोन मैथिल							टी	

1609.	पेरिस ग्रीन							टी	
1610.	पैरोक्सीन (डाइथिल 4-नाइट्रोफिनाइल फास्फेट)							टी	
1611.	पेनसल्फोथियोन							टी	
1612.	पेंटा बोरेन		एफ					टी	
1613.	पेंटा क्लोरो ईथेन							टी	
1614.	पेंटाक्लोरो फेनोल							टी	
1615.	पेंटाबोरेन							टी	
1616.	पेंटाब्रोमोडिफिनाइल ऑक्साइड							टी	
1617.	पेंटाब्रोमोफिनोल							टी	
1618.	पेंटा क्लोरो नेपथालीन							टी	
1619.	पेंटा क्लोरो नेपथालीन							टी	
1620.	पेंटा क्लोरोईथेन							टी	
1621.	पेंटा क्लोरोफेनोल							टी	
1622.	पेंटाडिकेलएमिन				सी				
1623.	पेंटाराइथियोटोल टेड्रानाइट्रेट							टी	
1624.	पेंटास्थिइट टेड्रानाइट्रेट (पेंटास्थिटोल टेड्रानाइट्रेट ; पेटेन) गीला	इ							
1625.	पेंटास्थिइट टेड्रानाइट्रेट मिश्रण, डिसेसीटाइज्ड, ठोस, एन.ओ.एस.		एफ						
1626.	पेंटास्थिइटोल टेड्रानाइट्रेट	इ						टी	
1627.	पेंटाफ्लोरोथाने प्रशीतक गैस आर 125								जी
1628.	पेंटाघलोरोफेनोल							टी	
1629.	पेंटामिथाइलहेप्टेन		एफ						
1630.	पेंटेन							टी	
1631.	पेंटेन-2, 4-डायने		एफ						
1632.	पेंटेन्स, द्रव		एफ						
1633.	पेंटानन, 2,4-मैथिल							टी	
1634.	पैरासीटिक अम्ल				आर	सी			
1635.	पैराडीटिक अम्ल							टी	

1636.	परक्लोरेट्स, अकार्बनिक, एक्वेयस घोल, एन.ओ.एस.			ओ					
1637.	परक्लोरेट्स, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.			ओ					
1638.	परक्लोरिक अम्ल				सी				
1639.	परक्लोरोसेथाइलिन							टी	
1640.	परक्लोरोमिथाइल मरकेप्टन							टी	
1641.	परक्लोरिक फ्लोराइड								जी
1642.	परक्शन कैप्स	इ							
1643.	परक्लोरो (इथाइल विनाइल ईथर)								जी
1644.	परक्लोरो (मिथाइल विनाइल ईथर)								जी
1645.	परमेगनेट्स, अकार्बनिक, एक्वेयस घोल, एन.ओ.एस.			ओ					
1646.	परमेगनेट्स, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.			ओ					
1647.	पेरोक्साइड्स, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.			ओ					
1648.	पेरोक्सीएसिटिक अम्ल							टी	
1649.	पेक्स्ट्रॉरेट्स, अकार्बनिक, एक्वेयस घोल, एन.ओ.एस.			ओ					
1650.	पेक्स्ट्रॉरेट्स, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.			ओ					
1651.	पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.							टी	
1652.	पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला, ज्वलनशील, एन.ओ.एस.		एफ						
1653.	पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला, एन.ओ.एस.							टी	
1654.	पेस्टीसाइड, ठोस, विषैला, एन.ओ.एस.							टी	
1655.	पेंटानोन, 2, -4, -मिथिल		एफ					टी	
1656.	पेट्रोलियम कच्चा तेल		एफ						
1657.	पेट्रोलियम गैस, द्रवित								जी
1658.	फेनासिल ब्रोमाइड							टी	
1659.	फेनेटीडाइन्स							टी	
1660.	फेनाल							टी	
1661.	फेनाल घोल							टी	

1662.	फेनाल, मोल्डन							टी	
1663.	फेनाल ठोस							टी	
1664.	फेनाल, 2,2-थियोबिस (4 क्लोरो 6 मिथाइल फेनाल)							टी	
1665.	फेनाल, 2,2-थियोबिस (4, 6 डायक्लोरो )							टी	
1666.	फेनाल, 3-(1-मैथोलएथिल)-मिथाइलकार्बोनेट							टी	
1667.	फेनोसल्फोनिक अम्ल, द्रव					सी			
1668.	फेनोक्सायेटिक अम्ल डेरिवेटिव पेस्टीसाइड, द्रव, ज्वलनशील, विषैला						एफ		
1669.	फेनोक्सीएसेटिक अम्ल डेरिवेटिव पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला							टी	
1670.	फेनोक्सीएसेटिक अम्ल डेरिवेटिव पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला							टी	
1671.	फेनोक्सीएसेटिक अम्ल डेरिवेटिव पेस्टीसाइड, ठोस, विषैला							टी	
1672.	फिनाइल क्लोरोफार्मेट							टी	
1673.	फिनाइल ग्लाइकिडल ईथर		एफ					टी	
1674.	फिनाइल हाइड्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड							टी	
1675.	फिनाइल आइसोसायनेट							टी	
1676.	फिनाइल मरकरी एसिटेट							टी	
1677.	फिनाइल सिलाट्रेन							टी	

1678.	फिनाइल थियोरिया							टी	
1679.	फिनाइलएसीटोनाइड्राइल, द्रव							टी	
1680.	फिनाइलएसेटिल क्लोराइड					सी			
1681.	फिनाइलकार्बीलेमिन क्लोराइड							टी	
1682.	फिनाइलीन पी-डायमिन							टी	
1683.	फिनायलेनडायमिन्स							टी	
1684.	फिनाइलहाइड्रेजिन							टी	
1685.	फिनाइलमरकरिक एसिटेट							टी	

1686.	फिनाइलमरकरिक कपाउंड, एन.ओ.एस.							टी	
1687.	फिनाइलमरकरिक हाइड्रोक्साइड							टी	
1688.	फिनाइलमरकरिक नाइट्रेट							टी	
1689.	फिनाइलमरकरी एसिटेट							टी	
1690.	फिनाइलफास्फोरस डायक्लोराइड					सी			
1691.	फिनाइलफास्फोरस थियोडायक्लोराइड					सी			
1692.	फिनाइलट्रायक्लोरोसिलेन					सी			
1693.	फोरेट							टी	
1694.	फोरोथियोक अम्ल, ओ ओ डायमैथिल एस-(2-मैथिल)							टी	
1695.	फोसेसेटिम							टी	
1696.	फासलोन							टी	
1697.	फासोटिन							टी	
1698.	फासजेटिन							टी	
1699.	फोसफोलान							टी	
1700.	फासगीन								जी
1701.	फासगीन (कार्बोनिल क्लोराइड)		एफ					टी	
1702.	फासमेट							टी	
1703.	फासफेनिडान							टी	
1704.	फासफाइन								जी
1705.	फासफाइन (हाइड्रोजन फासफाइड)		एफ					टी	
1706.	फासफोरिक अम्ल			ओ		सी			
1707.	फासफोरिक अम्ल और इस्टर					सी		टी	
1708.	फासफोरिक अम्ल डायमैथिल (4-मैथिल थिओ) फिनाइल							टी	
1709.	फासफोरिक अम्ल, ब्रोमैथिल ब्रोमो (2,2-डायमैथिलप्रोपिल) ब्रोमैथिल							टी	

	इस्टर								
1710.	फास्फोरिक अम्ल, द्रव/ ठोस					सी			
1711.	फास्फोरियोक एथिल, मेथिल इस्टर					सी			
1712.	फास्फोरियोक अम्ल, मेथिल, एथिल इस्टर					सी			
1713.	फास्फोरियोक अम्ल, मेथिल, (इस्टर)					सी			
1714.	फास्फोरस		एफ						
1715.	फास्फोरस पेंटाआक्साइड		एफ	ओ					
1716.	फास्फोरस और कपाउंड		एफ					टी	
1717.	फास्फोरस आक्सीक्लोराइड							टी	
1718.	फास्फोरस पेंटा क्लोराइड							टी	
1719.	फास्फोरस ट्राइक्लोराइड							टी	
1720.	फास्फोरस अम्ल					सी			
1721.	फास्फोरस हेप्टासल्फाइड		एफ						
1722.	फास्फोरस आक्सीब्रोमाइड					सी			
1723.	फास्फोरस आक्सीब्रोमाइड, मोल्टन					सी			
1724.	फास्फोरस आक्सीक्लोराइड					सी			
1725.	फास्फोरस पेंटाब्रोमोड					सी			
1726.	फास्फोरस पेंटाक्लोराइड					सी			
1727.	फास्फोरस फ्लोराइड, कंफ्रेस्ड								जी
1728.	फास्फोरस पेंटासल्फाइड		एफ						
1729.	फास्फोरस पेंटाक्साइड					सी			
1730.	फास्फोरस सेक्वीसल्फाइड		एफ						
1731.	फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड					सी			
1732.	फास्फोरस ट्राइक्लोराइड								
1733.	फास्फोरस ट्राइआक्साइड								
1734.	फास्फोरस ट्राइसल्फाइड		एफ						

1735.	फास्फोरस अमोसफस		एफ						
1736.	फास्फोरस, सफेद या पीला, सूखा या जलाधीन या घोल में		एफ						
1737.	फास्फोरस, सफेद, मोल्टन		एफ						
1738.	फथालिक एनहाइड्राइड					सी		टी	
1739.	फिलोकुनीन							टी	
1740.	फिसोसटिगनाइन							टी	
1741.	फिसोसटिगनाइन सलीकायलेट (1:1)							टी	
1742.	पिकोलाइन्स		एफ						
1743.	पिकरिक अम्ल (2,4,6- ट्राइनाइट्रोफेनाल)	इ						टी	
1744.	पाइन तेल		एफ						
1745.	पाइपरेजिन					सी			
1746.	पाइपरेडाइन								टी
1747.	पाइपेरीडाइन					सी			
1748.	प्लास्टिक, नाइट्रोसेलूलोज-आधारित स्वतापन एन.ओ.एस.		एफ						
1749.	प्लेटीनस क्लोराइड							टी	
1750.	प्लेटीनम टेट्राक्लोराइड							टी	
1751.	पी-नाइट्रोफेनाल							टी	
1752.	पी-नाइट्रोसोडीमैथिलेनीलाइन		एफ						
1753.	पोलीब्रोमीनेटड बायफिनायलस							टी	
1754.	पोलीक्लोरीनेटड बायफिनायलस							टी	
1755.	पोलियस्टर रेजिन किट		एफ						
1756.	पोलीहेलोजनेटड बायफिनायल्स, द्रव या पोलीहेलोजनेटड टरफिनायल्स, द्रव							टी	

1757.	पोलीमरिक बीड्स एक्सपेन्डेबल		एफ						
1758.	पोटेशियम		एफ						
1759.	पोटेशियम नाइट्राइड					सी			
1760.	पोटेशियम पेरोक्साइड		एफ			सी			
1761.	पोटेशियम सिल्वर सायनाइड							टी	
1762.	पोटेशियम आर्सेनेट							टी	
1763.	पोटेशियम आर्सेनाइट							टी	
1764.	पोटेशियम ब्रोमेट			ओ					
1765.	पोटेशियम क्लोरेट			ओ					
1766.	पोटेशियम क्लोरेट, एक्वेयस घोल			ओ					
1767.	पोटेशियम कूप्रोसायनाइड							टी	
1768.	पोटेशियम सायनाइड							टी	
1769.	पोटेशियम डिथियोनाइट (पोटेशियम हाइड्रोसल्फेट)		एफ						
1770.	पोटेशियम फ्लोराइड							टी	
1771.	पोटेशियम फ्लोरोएसीटेट							टी	
1772.	पोटेशियम फ्लोरोसिलीकेट							टी	
1773.	पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट					सी			
1774.	पोटेशियम हाइड्रोजनडाईफ्लोराइड					सी			
1775.	पोटेशियम हाइड्रोक्साइड					सी			
1776.	पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठोस					सी			
1777.	पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, घोल					सी			
1778.	पोटेशियम मेटावेनाडेट							टी	
1779.	पोटेशियम मोनोआक्साइड					सी			
1780.	पोटेशियम नाइट्रेट			ओ					
1781.	पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट मिश्रण			ओ					
1782.	पोटेशियम नाइट्राइड			ओ		सी			
1783.	पोटेशियम नाइट्राइट			ओ					

1784.	पोटेशियम परक्लोरेट			ओ					
1785.	पोटेशियम परमैंगनाइ			ओ					
1786.	पोटेशियम पेरॉक्साइड			ओ					
1787.	पोटेशियम परसल्फेट			ओ					
1788.	पोटेशियम फास्फाइड		एफ						
1789.	पोटेशियम सल्फाइड, एनहाइड्रस या पोटेशियम सल्फाइड		एफ						
1790.	पोटेशियम सल्फाइड, हाइड्रेटेड					सी			
1791.	पोटेशियम सुपरआक्साइड			ओ					
1792.	पोटेशियम आर्सेनाइट							टी	
1793.	चूर्णित मेटल और मिश्रण							टी	
1794.	प्रोम्यूरिट (1-(3, 4- डायक्लोरोफिनायल)-3 ट्रायजेनेथियोकार्बोक्साइड							टी	
1795.	प्रोपेडीन, स्टेबीलाइज्ड								जी
1796.	प्रोपेन								जी
1797.	प्रोपेनसल्टोन-1,3							टी	
1798.	प्रोपेनियोथोल्स		एफ						
1799.	प्रोपारगिल एल्कोहल							टी	
1800.	प्रोपारगिल ब्रोमाइड							टी	
1801.	प्रोपेन-1, -2-क्लोरो-1, 3, डियोल- डायसीटेट							टी	
1802.	प्रोपेन-2-क्लोरो 1,3-डियोयू डायसीटेट							टी	
1803.	प्रोफिल एल्कोहल		एफ						
1804.	प्रोफिलीन आक्साइड				आर				
1805.	प्रोपियोलेक्टोन बीटा				आर				
1806.	प्रोपियोनिक अम्ल					सी			
1807.	प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड					सी			

1808.	प्रोपियोनाइड्राइल		एफ					टी	
1809.	प्रोपियोनाइड्राइल, 3-क्लोरो							टी	
1810.	प्रोपियोनिल क्लोराइड		एफ						
1811.	प्रोपियोफिनोन, 4-एमीनो							टी	
1812.	प्रोपिल एसिटेट-एन		एफ						
1813.	प्रोपिल क्लोराइड		एफ						
1814.	प्रोपिल क्लोरोफार्मेट							टी	
1815.	प्रोपिल फार्मेट्स		एफ						
1816.	प्रोपीलेमिन		एफ						
1817.	प्रोपीलीन								जी
1818.	प्रोपीलीन क्लोरोहाइड्रिन							टी	
1819.	प्रोपीलीन डायक्लोराइड							टी	
1820.	प्रोपीलीन ग्लाइकोल, एलाईथर							टी	
1821.	प्रोपीलीन ऑक्साइड		एफ						
1822.	प्रोपीलीन टेट्रामेर		एफ						
1823.	प्रोपिलनेमाइन							टी	
1824.	प्रोपिलनेमाइन, स्टेबीलाइज्ड		एफ						
1825.	प्रोपिलट्राइक्लोरोसिलेन					सी			
1826.	पोटेशियम बोरोहाइड्राइड		एफ						
1827.	प्यूनोन								
1828.	पायराजोक्सेन							टी	
1829.	पायरीन							टी	
1830.	पायरेथ्राइड पेस्टीसाइड, द्रव, ज्वलनशील, विषैला		एफ						
1831.	पायरेथ्राइड पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला							टी	
1832.	पायरेथ्राइड पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला, ज्वलनशील							टी	
1833.	पायरेथ्राइड पेस्टीसाइड, ठोस, विषैला							टी	

1834.	पायराडाइन		एफ					टी	
1835.	पायराडाइन, 2-मिथाइल-3-विनाइल							टी	
1836.	पायराडाइन, 4-नाइट्रो 1-ऑक्साइड			ओ				टी	
1837.	पायरीमिनिल							टी	
1838.	पायरोफिरिक द्रव, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
1839.	पायरोफिरिक द्रव, कार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
1840.	पायरोफिरिक धातु, एन.ओ.एस. या पायरोफिरिक एलॉय, एन.ओ.एस.		एफ						
1841.	पायरोफिरिक ओरेगेनोमेटेलिक कंपाउंड, जल प्रतिघाती एन.ओ.एस., द्रव		एफ						
1842.	पायरोफिरिक ठोस, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
1843.	पायरोफिरिक ठोस, कार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
1844.	पायरोसल्फ्यूरिल क्लोराइड					सी			
1845.	पायरोलिडाइन							टी	
1846.	क्वीनाक्रीनोस							टी	
1847.	क्वीनोलाइन							टी	
1848.	क्यूनोन							टी	
1849.	रेडियोएक्टिव मेटेरियल, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड						आर ए		
1850.	रेडियोएक्टिव मेटेरियल, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, फिसाइल						आर ए		
1851.	रेयर गैस और नाइट्रोजन मिश्रण, संपीड़ित								जी
1852.	रेयर गैस और आक्सीजन मिश्रण, संपीड़ित								जी

1853.	रेयर गैस मिश्रण, संपीड़ित								जी
1854.	गैस युक्त छोटे आधान (गैस कारतूस)								जी
1855.	प्रशीतक गैस आर 404ए								जी
1856.	प्रशीतक गैस आर 407ए								जी
1857.	प्रशीतक गैस आर 404बी								जी
1858.	प्रशीतक गैस आर 407सी								जी
1859.	प्रशीतन मशीनें								जी
1860.	रेजिन घोल		एफ						
1861.	रिसोरकिनोल							टी	
1862.	रोडियम ट्राइक्लोराइड							टी	
1863.	रोकेट्स	इ							
1864.	रूबीडियम हाइड्रोक्साइड					सी			
1865.	रूबीडियम हाइड्रोक्साइड घोल					सी			
1866.	सात्कोमाइन							टी	
1867.	सेरिन							टी	
1868.	सीड केक		एफ						
1869.	सेलीनेट्स या सेलेनाइट्स							टी	
1870.	सेलेनिक अम्ल					सी			
1871.	सेलेनियस अम्ल							टी	
1872.	सेलेनियम कंपाउंड, एन.ओ.एस.							टी	
1873.	सेलेनियम डायसल्फाइड							टी	
1874.	सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड							टी	जी
1875.	सेलेनियम आक्सीक्लोराइड					सी			
1876.	स्वतापन द्रव, संक्षारक अकार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
1877.	स्वतापन द्रव, संक्षारक कार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						

1878.	स्वतापन द्रव, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
1879.	स्वतापन द्रव, कार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
1880.	स्वतापन द्रव, विषैला अकार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
1881.	स्वतापन द्रव, विषैला कार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
1882.	स्वतापन ठोस, संक्षारक, कार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
1883.	सेल्फ हीटिंग ठोस, संक्षारक, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
1884.	स्वतापन ठोस, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
1885.	स्वतापन ठोस, कार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
1886.	स्वतापन ठोस, आक्सीडाइजिंग, एन.ओ.एस.		एफ						
1887.	स्वतापन ठोस, विषैला, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
1888.	स्वतापन ठोस, विषैला, कार्बनिक, एन.ओ.एस.		एफ						
1889.	स्वप्रतिक्रियाशील द्रव टाइप ख		एफ						
1890.	स्वप्रतिक्रियाशील द्रव टाइप ख, नियंत्रित तापमान		एफ						
1891.	स्वप्रतिक्रियाशील द्रव टाइप ग		एफ						
1892.	स्वप्रतिक्रियाशील द्रव टाइप ग, नियंत्रित तापमान		एफ						
1893.	स्वप्रतिक्रियाशील द्रव टाइप घ		एफ						
1894.	स्वप्रतिक्रियाशील द्रव टाइप घ, नियंत्रित तापमान		एफ						

1895.	स्वप्रतिक्रियाशील द्रव टाइप ड		एफ						
1896.	स्वप्रतिक्रियाशील द्रव टाइप ड, नियंत्रित तापमान		एफ						
1897.	स्वप्रतिक्रियाशील द्रव टाइप च		एफ						
1898.	स्वप्रतिक्रियाशील द्रव टाइप च, नियंत्रित तापमान		एफ						
1899.	स्वप्रतिक्रियाशील ठोस टाइप ख		एफ						
1900.	स्वप्रतिक्रियाशील ठोस टाइप ख, नियंत्रित तापमान		एफ						
1901.	स्वप्रतिक्रियाशील ठोस टाइप ग		एफ						
1902.	स्वप्रतिक्रियाशील ठोस टाइप ग, नियंत्रित तापमान		एफ						
1903.	स्वप्रतिक्रियाशील ठोस टाइप घ		एफ						
1904.	स्वप्रतिक्रियाशील ठोस टाइप घ, नियंत्रित तापमान		एफ						
1905.	स्वप्रतिक्रियाशील ठोस टाइप ड		एफ						
1906.	स्वप्रतिक्रियाशील ठोस टाइप ड, नियंत्रित तापमान		एफ						
1907.	स्वप्रतिक्रियाशील ठोस टाइप च		एफ						
1908.	स्वप्रतिक्रियाशील ठोस टाइप च, नियंत्रित तापमान		एफ						
1909.	सेमीकार्बोनाइड हाइड्रोक्लोराइड							टी	
1910.	सिलेन (4-अमीनो ब्यूटिल) डाइथोक्सी-मेथ							टी	
1911.	सिलेन, संपीडित								जी
1912.	सिलिकोन टेट्राक्लोराइड				सी				
1913.	सिलिकोन टेट्राफ्लोराइड								जी
1914.	सिल्वर आर्सेनाइड							टी	
1915.	सिल्वर सायनाइड							टी	
1916.	सिल्वर नाइट्रेट			ओ					

1917.	सिल्वर पिकरेट, गीला		एफ						
1918.	सलज अम्ल					सी			
1919.	सोडा लाइम					सी			
1920.	सोडियम		एफ						
1921.	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड					सी			
1922.	सोडियम एसिटोक्सी ट्राइफेनिल							टी	
1923.	सोडियम एल्युमिनेट घोल					सी			
1924.	सोडियम एल्युमिनेट ठोस					सी			
1925.	सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड		एफ						
1926.	सोडियम अमोनियम वेनडेट							टी	
1927.	सोडियम आन्धा-कुनीन-1-सल्फोनेट							टी	
1928.	सोडियम आर्सेनिलेट							टी	
1929.	सोडियम आर्सेनेट							टी	
1930.	सोडियम आर्सेनाइट							टी	
1931.	सोडियम आर्सेनाइट, एक्वेयस घोल							टी	
1932.	सोडियम आर्सेनाइट, ठोस							टी	
1933.	सोडियम एजाइड							टी	
1934.	सोडियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल					सी			
1935.	सोडियम ब्रोमेट			ओ					
1936.	सोडियम कैकोडायलेट							टी	
1937.	सोडियम क्लोरेट	इ		ओ	आर				
1938.	सोडियम क्लोरेट, एक्वेयस घोल			ओ					
1939.	सोडियम क्लोराइट			ओ					
1940.	सोडियम क्लोरोएसिटेट							टी	
1941.	सोडियम कूपरोसायनाइड, ठोस							टी	
1942.	सोडियम कूपरोसायनाइड, घोल							टी	
1943.	सोडियम सायनाइड							टी	

1944.	सोडियम डिनाइट्रो-ओ-क्रैसोलेट	इ							
1945.	सोडियम डिनाइट्रो-ओ-क्रैसोलेट गीला		एफ						
1946.	सोडियम डिथियोनाइट (सोडियम हाइड्रोसल्फाइट)		एफ						
1947.	सोडियम फ्लोराइड							टी	
1948.	सोडियम फ्लोरोएसीटेट							टी	
1949.	सोडियम फ्लोरो-एसीटेट							टी	
1950.	सोडियम फ्लोरोसिलिकेट							टी	
1951.	सोडियम हाइड्राइड		एफ						
1952.	सोडियम हाइड्रोजेडीफ्लोराइड					सी			
1953.	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड		एफ						
1954.	सोडियम हाइड्रोक्साइड					सी			
1955.	सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल					सी			
1956.	सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठोस					सी			
1957.	सोडियम मेथिलेट		एफ					टी	
1958.	सोडियम मोनोक्साइड					सी			
1959.	सोडियम नाइट्रेट			ओ				टी	
1960.	सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट मिश्रण			ओ					
1961.	सोडियम नाइट्राइट			ओ					
1962.	सोडियम पेंटाक्लोरोफिनेट							टी	
1963.	सोडियम पेंटाक्लोरो-फिनेट							टी	
1964.	सोडियम परक्लोरेट			ओ					
1965.	सोडियम परमैंगनेट			ओ					
1966.	सोडियम पेरोक्साइड			ओ					
1967.	सोडियम पेरेक्सोबोरेट, एनहाइड्रस			ओ					
1968.	सोडियम परसल्फेट			ओ					

1969.	सोडियम फास्फाइड		एफ						
1970.	सोडियम पिकरामेट	इ						टी	
1971.	सोडियम पिकरामेट, गीला		एफ						
1972.	सोडियम सेलेनेट							टी	
1973.	सोडियम सेलेनाइट							टी	
1974.	सोडियम सल्फाइड			ओ		सी			
1975.	सोडियम सल्फाइड, एनहाइड्रस या सोडियम सल्फाइड		एफ						
1976.	सोडियम सल्फाइड हाइड्रेटेड					सी			
1977.	सोडियम सुपरआक्साइड			ओ					
1978.	सोडियम टेलोराइट					सी			
1979.	सोडियमथरा-कुनोन-1-सल्फोनेट					सी			
1980.	संक्षारक द्रव युक्त ठोस, एन.ओ.एस.					सी			
1981.	ज्वलनशील द्रव युक्त ठोस, एन.ओ.एस.		एफ						
1982.	विषैले द्रव युक्त ठोस,, एन.ओ.एस.							टी	
1983.	सोप्रोपिल								
1984.	स्टानेन एसिटोक्सी ट्राईफेनिल							टी	
1985.	स्टेनिक क्लोराइड पेंटाहाइड्रेट					सी			
1986.	स्टेनिक क्लोराइड एनहाइड्रस					सी			
1987.	स्टेनिक फॉस्फाइड		एफ						
1988.	स्टाईबिन								जी
1989.	स्टाईबिन (एंटीनोमी हाइड्राइड)							टी	
1990.	स्ट्रान्टियम आर्सेनाइट							टी	
1991.	स्ट्रान्टियम क्लोरेट			ओ					
1992.	स्ट्रान्टियम नाइट्रेट			ओ					
1993.	स्ट्रान्टियम परक्लोरेट			ओ					
1994.	स्ट्रान्टियम पेरॉक्साइड			ओ					

1995.	स्ट्रानटियम फास्फाइड		एफ						
1996.	स्ट्राइकनाइन या स्ट्राइकनाइन लवण							टी	
1997.	स्ट्राइकनाइन सल्फेट							टी	
1998.	स्टाइफिनिक अम्ल (2,4,6-ट्राइनाइट्रोसोर्सिनोल)							टी	
1999.	स्टाइरीन		एफ						
2000.	स्टाइरीन मोनोमेर, स्टेबीलाइज्ड		एफ						
2001.	स्टाइरीन, 1,1,2,2-टेट्राक्लोरोथिओथाने		एफ					टी	
2002.	सबस्टीट्यूटेड नाइट्रोफेनाल पेस्टीसाइड, द्रव, ज्वलनशील		एफ						
2003.	सबस्टीट्यूटेड नाइट्रोफेनाल पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला							टी	
2004.	सबस्टीट्यूटेड नाइट्रोफेनाल पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला, ज्वलनशील							टी	
2005.	सबस्टीट्यूटेड नाइट्रोफेनाल पेस्टीसाइड, ठोस, विषैला							टी	
2006.	सल्फोटेप							टी	
2007.	सूलोटेप							टी	
2008.	सल्फेमिक अम्ल					सी			
2009.	सल्फोटेक					सी			
2010.	सल्फोक्साइड, 3-क्लोरोप्रोपिल ओक्टेनल							टी	
2011.	सल्फर क्लोराइड					सी			
2012.	सल्फर डायक्लोराइड							टी	
2013.	सल्फर डायक्साइड							टी	जी
2014.	सल्फर हेक्साफ्लोराइड								जी
2015.	सल्फर मोनोक्लोराइड							टी	
2016.	सल्फर टेट्राफ्लोराइड								जी

2017.	सल्फर ट्राइऑक्साइड				सी			
2018.	सल्फर ट्राइऑक्साइड, स्टेबीलाइज्ड				सी			
2019.	सल्फर, मोल्टन		एफ					
2020.	सल्फ्यूरिक अम्ल				सी			
2021.	सल्फ्यूरिक अम्ल या बैटरी फ्लूइड, अम्ल				सी			
2022.	सल्फ्यूरिक अम्ल फ्यूमिंग				सी			
2023.	सल्फ्यूरिक अम्ल, स्पेंट				सी			
2024.	सल्फ्यूरस अम्ल				सी			
2025.	सल्फ्यूरिल क्लोराइड				सी			
2026.	सल्फ्यूरिल फ्लोराइड							जी
2027.	सल्फ्यूरिक अम्ल				सी	टी		
2028.	टार्स, द्रव		एफ					
2029.	टी-क्लोरो 1,2,2,2-							जी
2030.	टियर गैस मोमबत्ती					टी		
2031.	टेलुरियम कंपाउंड, एन.ओ.एस.					टी		
2032.	टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड					टी	जी	
2033.	टेलुरियम हेक्साफ्लूराइड					टी		
2034.	टेलुरियम (चूर्ण)					टी		
2035.	टेप (टेपराथिल पायरोफास्फेट)					टी		
2036.	टर्बफोस					टी		
2037.	टरपेन हाइड्रोकार्बन, एन.ओ.एस.		एफ					
2038.	टरपीनोलीन		एफ					
2039.	टर्ट ब्यूटीपेरोक्सीसो-ब्यूटीरेट					टी		
2040.	टर्ट ब्यूटिल पेरोक्सी कार्बोनेट					टी		
2041.	टर्ट ब्यूटिल पेरोक्सी आइसोप्रोपिल					टी		
2042.	टर्ट ब्यूटिल पेरोक्सीएसीटेट (कोन्स >70%)					टी		
2043.	टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल					टी		

2044.	टर्ट ब्यूटिल एनेट						टी	
2045.	टर्ट ब्यूटिल हाइपोक्लोराइट		एफ					
2046.	टर्ट ब्यूटिल साइक्लोहेक्सिल क्लोरोफार्मेट						टी	
2047.	टेट्रा हाइड्रोफेरान		एफ					
2048.	टेट्रा मिथाइल लेड						टी	
2049.	टेट्रा नाइट्रोमीथेन						टी	
2050.	टेट्राब्रोमोबिसफेनाल-क						टी	
2051.	टेट्राब्रोमीथेन						टी	
2052.	टेट्राक्लोरो 2,2,5,6,2,5- साइक्लोहेक्साडीन-1,4-डोन						टी	
2053.	टेट्राक्लोरोडीबैजो-पी-डायोक्सीन,- 2,3,7,8 (टीसीडीडी)						टी	
2054.	टेट्राक्लोरोथाने						टी	
2055.	टेट्राक्लोरोथायलिन						टी	
2056.	टेट्राक्टाइल लेड						टी	
2057.	टेट्राथिल डिथियोपायरोफास्फेट						टी	
2058.	टेट्राथिल लेड						टी	
2059.	टेट्राथिल सिलिकेट		एफ					
2060.	टेट्राथिलएनपेंटामिन				सी			
2061.	टेट्राफ्लोरोथाने						टी	
2062.	टेट्राफ्लोरोथायलिन, स्टेबीलाइज्ड							जी
2063.	टेट्राफ्लोरोमीथेन संपीड़ित (प्रशीतित गैस आर 14.) संपीड़ित							जी
2064.	टेट्राफ्लूरीथाइन						टी	
2065.	टेट्राहाइड्रोफूरान		एफ				टी	
2066.	टेट्राहाइड्रोफरफरीलेमिन		एफ					
2067.	टेट्राहाइड्रोफ्थाटेलिक एनहाइड्राइड्स				सी			
2068.	टेट्राहाइड्रोथियोफीन		एफ					

2069.	टेट्रामिथाइल लेड							टी	
2070.	टेट्रामिथाइलेमोनियम हाइड्रोक्साइड					सी			
2071.	टेट्रामिथाइलडिसल्फोटेट्रामिन							टी	
2072.	टेट्रामिथाइलसिलेन		एफ						
2073.	टेट्रानाइट्रोनीलाइन	इ							
2074.	टेट्रानाइट्रोमीथेन			ओ				टी	
2075.	टेट्राप्रोपिल ओर्थोटाइटेनेट		एफ						
2076.	टेट्राजोल-1-एसिटिक अम्ल	इ							
2077.	थेलियम और कंपाउंड							टी	
2078.	थेलियम कार्बोनेट							टी	
2079.	थेलियम क्लोरेट			ओ					
2080.	थेलियम कंपाउंड, एन.ओ.एस.							टी	
2081.	थेलियम नाइट्रेट							टी	
2082.	थेलियम आक्साइड							टी	
2083.	थेलियम सल्फाइड							टी	
2084.	थेलस क्लोराइड							टी	
2085.	थेलस मेलोनेट							टी	
2086.	थेलस सल्फेट							टी	
2087.	थिनोयल क्लोराइड							टी	
2088.	थियोसेटिक अम्ल		एफ						
2089.	थियोसेटिक अम्ल							टी	
2090.	थियोकार्बामिट पेस्टीसाइड, द्रव, ज्वलनशील, विषैला		एफ						
2091.	थियोकार्बामिट पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला							टी	
2092.	थियोकार्बामिट पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला, ज्वलनशील							टी	
2093.	थियोकार्बामिट पेस्टीसाइड, ठोस, विषैला							टी	

2094.	थियोकार्बाजाइड							टी	
2095.	थियोसियनामिक एसिड, 2- (बेंजोथियाजोलायथियो) मिथाइल							टी	
2096.	थियोफेनोक्स							टी	
2097.	थियोग्लायकोल							टी	
2098.	थियोग्लायकोलिक अम्ल					सी			
2099.	थियोमेटान							टी	
2100.	थियोनेजिन							टी	
2101.	थियोनिल क्लोराइड					सी			
2102.	थियोफीन		एफ						
2103.	थियोफेनाल							टी	
2104.	थियोफोसगीन							टी	
2105.	थियोफास्फोरिल क्लोराइड					सी			
2106.	थियोसेमीकार्बाजाइड							टी	
2107.	थियोयूरिया (2-मिथाइल फिनाइल)					सी			
2108.	थियोयूरिया डायक्साइड		एफ						
2109.	थियोयूरिया (2-क्लोरो-फिनाइल)					सी			
2110.	थियोयूरिया (2-मिथाइल-1-3-डि- थियोलेन)					सी			
2111.	थिरेम							टी	
2112.	टिरपेट					सी		टी	
2113.	टिरपेट (2,4-डिमिथाइल-1-3- डिथियोलेन)					सी		टी	
2114.	टाइटेनियम डाइसल्फाइड		एफ						
2115.	टाइटेनियम हाइड्राइड		एफ						
2116.	टाइटेनियम पाउडर							टी	
2117.	टाइटेनियम पावर, सूखा		एफ						
2118.	टाइटेनियम स्पंज ग्रेनयूल्स या टाइटेनियम स्पंज पाउडर		एफ						

2119.	टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड					सी			
2120.	टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड							टी	
2121.	टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, पायरोफोरिक या टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड मिश्रण, पायरोफोरिक		एफ						
2122.	टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड मिश्रण					सी			
2123.	टोलूइन		एफ					टी	
2124.	टोलूइन 2,6 डाइआइसोसाइनेट							टी	
2125.	टोलूइन 2,4 -डाइआइसोसाइनेट							टी	
2126.	टोलूइन डाइआइसोसाइनेट							टी	
2127.	टोलूइन -2,-4 -डाइसोसायनेट							टी	
2128.	टोलूइन-2,-4-डाइआइसोसाइनेट							टी	
2129.	टोल्यूडाइन-ओ							टी	
2130.	टोल्यूडाइन्स, द्रव/ ठोस							टी	
2131.	विषैला द्रव, संक्षारक, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.							टी	
2132.	विषैला द्रव, ज्वलनशील, कार्बनिक, एन.ओ.एस.							टी	
2133.	विषैला द्रव, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.							टी	
2134.	विषैला द्रव, कार्बनिक, एन.ओ.एस.							टी	
2135.	विषैला द्रव, आक्सीडाइजिंग, एन.ओ.एस.							टी	
2136.	विषैला द्रव, जल प्रतिघाती, एन.ओ.एस.							टी	
2137.	विषैला ठोस, संक्षारक, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.							टी	
2138.	विषैला ठोस, संक्षारक, कार्बनिक, एन.ओ.एस.							टी	
2139.	विषैला ठोस, ज्वलनशील,							टी	

	कार्बनिक, एन.ओ.एस.								
2140.	विषैला ठोस, अकार्बनिक, एन.ओ.एस.							टी	
2141.	विषैला ठोस, कार्बनिक, एन.ओ.एस.							टी	
2142.	विषैला ठोस, आक्सीडाइजिंग, एन.ओ.एस.							टी	
2143.	विषैला ठोस, स्वतापन, एन.ओ.एस.							टी	
2144.	विषैला ठोस, जल प्रतिघाती, एन.ओ.एस.							टी	
2145.	जीवित स्रोतों से निष्कर्षित टाक्सिन द्रव/ठोस एन.ओ.एस.							टी	
2146.	ट्रांस-1,4-डाय क्लोरो-बूटेन							टी	
2147.	ट्राइ नाइट्रो एनीसोल							टी	
2148.	ट्राइ आर्थोक्रोसाइल फास्फेट							टी	
2149.	ट्राइ (साइक्लोहेक्सिल) मेथाइल स्टेनिल 1,2,4-ट्रायजोल							टी	
2150.	ट्राइ-1 (साइक्लोहेक्सिल) स्टेनिल-1-एच- 2,4-ट्रायजोल							टी	
2151.	ट्राइलिल बोरेट							टी	
2152.	ट्रािलेमिन		एफ						
2153.	ट्राइमीनो, -1,3,5,2,4,6-ट्राइनाइट्रो-बेंजीन							टी	
2154.	ट्राइमीनोट्राइनाइट्रोबेंजीन							टी	
2155.	ट्रायजीन पेस्टीसाइड, द्रव, ज्वलनशील विषैला		एफ						
2156.	ट्रायजीन पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला							टी	
2157.	ट्रायजीन पेस्टीसाइड, द्रव, विषैला, ज्वलनशील							टी	
2158.	ट्रायजीन पेस्टीसाइड, ठोस, विषैला							टी	

2159.	ट्रायब्रोमोफेनाल 2,4,6							टी	
2160.	ट्रायब्यूटीलेमिन							टी	
2161.	ट्रायब्यूटिलफास्फेन		एफ						
2162.	ट्राइक्लोरो (क्लोरोमेथिल) सिलेन							टी	
2163.	ट्राइक्लोरो एसेटिल क्लोराइड							टी	
2164.	ट्रायक्लोरो क्लोरोमेथिल सिलेन							टी	
2165.	ट्रायक्लोरो ईथेन							टी	
2166.	ट्रायक्लोरो नेफथेलीन							टी	
2167.	ट्रायक्लोरोएसेटिक अम्ल					सी			
2168.	ट्रायक्लोरोएसेटिक अम्ल घोल					सी			
2169.	ट्रायक्लोरोएसेटिल क्लोराइड					सी			
2170.	ट्रायक्लोरोबेंजीनस, द्रव							टी	
2171.	ट्रायक्लोरोबूटीन							टी	
2172.	ट्रायक्लोरोडेथीलीन							टी	
2173.	ट्रायक्लोरोडायाक्लोरोफिनाइलसिलेन							टी	
2174.	ट्रायक्लोरोईथेन, 1,1,-1							टी	
2175.	ट्रायक्लोरोएथिल सिलेन							टी	
2176.	ट्रायक्लोरोएथीलीन							टी	
2177.	ट्रायक्लोरोइसीकीअनुरिक अम्ल, सूखा			ओ					
2178.	ट्रायक्लोरोमीथेन सल्फेनिल क्लोराइड							टी	
2179.	ट्रायक्लोरोनोट							टी	
2180.	ट्रायक्लोरोफेनोल, 2,3,6							टी	
2181.	ट्रायक्लोरोफेनोल 2,4,5							टी	
2182.	ट्रायक्लोरोफेनाल 2,2,6							टी	
2183.	ट्रायक्लोरोफेनाल 2,4,5							टी	
2184.	ट्रायक्लोरोफेनिल सिलेन							टी	
2185.	ट्रायक्लोरोफोन							टी	

2186.	द्रायक्लोरोसिलेन		एफ						
2187.	द्रायक्रेसिल फास्फेट								
2188.	द्रायक्लोरोसिलेन							टी	
2189.	द्राइथिल फास्फाइट		एफ						
2190.	द्रायथिलेमिन		एफ			सी			
2191.	द्रायथिलीन मेलामाइन							टी	
2192.	द्रायथिलीनटेट्रामीन					सी			
2193.	द्राइफ्लोरोएसीटेट अम्ल					सी			
2194.	द्राइफ्लोरोएसीटिल क्लोराइड								जी
2195.	द्राइफ्लोरोमीथेन (प्रशीतक गैस आर 23)								जी
2196.	द्राइफ्लोरोमीथेन, प्रशीतित, द्रव								जी
2197.	द्रायसोब्यूटीलिन		एफ						
2198.	द्रायमेथिल बोरेट		एफ						
2199.	द्रायमेथिल क्लोरोसिलेन							टी	
2200.	द्रायमेथिल फास्फाइट		एफ						
2201.	द्रायमेथिल प्रोपेन फास्फाइट							टी	
2202.	द्रायमेथिल टिन क्लोराइड							टी	
2203.	द्रायमेथिलएसीटिल क्लोराइड							टी	
2204.	द्रायमेथिलेमिन, एनहाइड्रस								जी
2205.	द्रायमेथिलमिन, एक्वायस		एफ						
2206.	द्रायमेथिलक्लोरोसिलेन		एफ						
2207.	द्रायमेथिलसाक्लोहेक्सीलेमिन					सी			
2208.	द्रायमेथिलहेक्सामेथिलीन डिसोसायनेट							टी	
2209.	द्रायमेथिलहेक्सामेथिलीन डायमीनस					सी			
2210.	द्रायमेथिलप्रोपेन फास्फाइट							टी	

2211.	ट्रायनाइट्रोएनीलाइन	इ						टी	
2212.	ट्रायनाइट्रो बेंजीन	इ							
2213.	ट्रायनाइट्रोबेंजोलिक अम्ल					सी			
2214.	ट्रायनाइट्रो-इन-क्रैसोल					सी			
2215.	ट्रायनाइट्रोफेनेटोल					सी			
2216.	ट्रायनाइट्रोनीलाइन							टी	
2217.	ट्रायनाइट्रोनीलाइन(पिकरामाइड)	इ							
2218.	ट्रायनाइट्रोनीसल, -2,4,6	इ						टी	
2219.	ट्रायनाइट्रोनीसोल	इ							
2220.	ट्रायनाइट्रोनीसोल, 2,2,4,6							टी	
2221.	ट्रायनाइट्रोबेंजीन	इ						टी	
2222.	ट्रायनाइट्रोबेंजीन, गीला		एफ						
2223.	ट्रायनाइट्रोबेंजीनसल्फोनिक अम्ल	इ							
2224.	ट्रायनाइट्रोबेंजोइक अम्ल	इ						टी	
2225.	ट्रायनाइट्रोबेंजोइक अम्ल गीला		एफ						
2226.	ट्रायनाइट्रोक्लोरोबेंजीन (पिकरिल क्लोराइड)	इ							
2227.	ट्रायनाइट्रोक्लोरोबेंजीन (पिकरिल क्लोराइड)	इ							
2228.	ट्रायनाइट्रोक्रैसोल	इ						टी	
2229.	ट्रायनाइट्रोसोरेनोल 2,4,6 (स्टाइफनिक अम्ल)							टी	
2230.	ट्रायनाइट्रोफ्लोरेनन	इ							
2231.	ट्रायनाइट्रो-एम-क्रैसोल	इ							
2232.	ट्रायनाइट्रोनेफ्थालीन	इ							
2233.	ट्रायनाइट्रोफेनेटोल	इ							
2234.	ट्रायनाइट्रोफेनेटोल, 2,4,6	इ						टी	
2235.	ट्रायनाइट्रोफेनोल, गीला		एफ						
2236.	ट्रायनाइट्रोफेनिलमेथिलनाइट्रामाइन	इ							

	(टेट्रिल)								
2237.	ट्रायनाइट्रोसोरसीनोल (स्टाइफनिक अम्ल)	इ							
2238.	ट्रायनाइट्रोसोरसीनोल, -2,4,6 (स्टाइफनिक अम्ल)	इ						टी	
2239.	ट्रायनाइट्रोटोल्यून	इ							
2240.	ट्रायनाइट्रोटोल्यून (टीएनटी)	इ							
2241.	ट्रायनाइट्रोटोल्यून, गीला		एफ						
2242.	ट्रायओर्थोक्रिसिल फास्फेट							टी	
2243.	ट्रायपेट (2,4-डिमिथिल-1,3-डायथोलेंस)							टी	
2244.	ट्रायफेनिल टिन क्लोराइड							टी	
2245.	ट्रायपोपिलेमिन		एफ						
2246.	ट्रायपोपिलीन		एफ						
2247.	ट्रिस(1-एजरीडिनील) फास्फाइन आक्साइड घोल							टी	
2248.	ट्रिस(2-क्लोरोथिल) एमीन							टी	
2249.	ट्रिलप्रोपिल बोरेट		एफ						
2250.	टंगस्टेन हेक्साफ्लोराइड								जी
2251.	टरपेंटाइन		एफ						
2252.	यूरैनियम और कंपाउंड							टी	
2253.	यूरिया हाइड्रोजन पेरॉक्साइड			ओ					
2254.	यूरिया नाइट्रेट	इ							
2255.	यूरिया नाइट्रेट, गीला		एफ						
2256.	वेलेरलडिहाइड		एफ						
2257.	वेलेरिल क्लोराइड					सी			
2258.	वेलिनो माइसिन							टी	
2259.	वेनेडियम और कंपाउंड							टी	
2260.	वेनेडियम कंपाउंड, एन.ओ.एस.							टी	

2261.	वेनेडियम आक्सीट्रायक्लोराइड					सी			
2262.	वेनेडियम पेंटाआक्साइड							टी	
2263.	वेनेडियम पेंटाक्साइड							टी	
2264.	वेनेडियम टेट्राक्लोराइड					सी			
2265.	वेनेडियम ट्रायक्लोराइड					सी			
2266.	वेनेडिल सल्फेट							टी	
2267.	विनाइल एसीटेट मोनोमेर							टी	
2268.	विनाइल ब्रोमाइड							टी	
2269.	विनाइल ब्रोमाइड, स्टेबीलाइज्ड								जी
2270.	विनाइल ब्यूटीरेट, स्टेबीलाइज्ड		एफ						
2271.	विनाइल क्लोराइड	इ						टी	
2272.	विनाइल क्लोराइड, स्टेबीलाइज्ड								जी
2273.	विनाइल क्लोरोएसीटेट							टी	
2274.	विनाइल फ्लोराइड							टी	
2275.	विनाइल आइसोब्यूटिल इथर, स्टेबीलाइज्ड		एफ						
2276.	विनाइल मेथिल इथर, स्टेबीलाइज्ड								जी
2277.	विनाइल नार्बोरीन							टी	
2278.	टोल्यून	इ						टी	
2279.	विनाइलसाइक्लोहेक्सीन डायक्साइड							टी	
2280.	विनाइलडीन क्लोराइड							टी	
2281.	विनाइलडीन क्लोराइड, स्टेबीलाइज्ड		एफ						
2282.	विनाइलपिराडाइन्स स्टेबीलाइज्ड							टी	
2283.	विनाइलटोल्यूनस, स्टेबीलाइज्ड		एफ						
2284.	विनाइलट्रायक्लोरोसिलेन, स्टेबीलाइज्ड		एफ						
2285.	व्यूटिल एमीन टर्ट							टी	
2286.	वारफेरिन							टी	

2287.	वारफेरिन सोडियम							टी	
2288.	जलप्रतिघाती द्रव, एन.ओ.एस.	इ	एफ	ओ	आर	सी		टी	
2289.	जलप्रतिघाती द्रव ठोस, एन.ओ.एस.	इ	एफ	ओ	आर	सी		टी	
2290.	सफेद एसबेसटोस							टी	
2291.	जेनथेटस		एफ						
2292.	जेनोन, संपीडित								जी
2293.	जेनोन, प्रशीतित द्रव								जी
2294.	जाइलीन		एफ					टी	
2295.	जाइलीन डायक्लोराइड							टी	
2296.	जाइलीन		एफ						
2297.	जायलीनोल्स							टी	
2298.	जायलीडाइन							टी	
2299.	जायलीडाइनस, द्रव / ठोस							टी	
2300.	जाइलिल ब्रोमाइड							टी	
2301.	जिक अमोनियम नाइट्राइट		ओ						
2302.	जिक और कंपाउंड							टी	
2303.	जिक आर्सेनेट, जिक आर्सेनाइट या जिक आर्सेनेट और जिक आर्सेनाइट मिश्रण							टी	
2304.	जिक ब्रोमेट		ओ						
2305.	जिक क्लोरेट		ओ						
2306.	जिक क्लोराइड घोल				सी				
2307.	जिक सायनाइड							टी	
2308.	जिक डायक्लोरोपेंटानाइट्राइल							टी	
2309.	जिक डिथियोनाइट (जिक हाइड्रोसल्फाइट)							टी	
2310.	जिक फ्लोरोसिलीकेट							टी	
2311.	जिक फास्फाइड		एफ						
2312.	जिक रेसीनेट		एफ						

2313.	जिरकोनियम और कपातंड		एफ						
2314.	जिरकोनियम नाइट्रेट			ओ					
2315.	जिरकोनियम पिकरामेट	इ							
2316.	जिरकोनियम पाउडर, सूखा		एफ						
2317.	जिरकोनियम स्क्रैप		एफ						
2318.	जिरकोनियम टेट्राक्लोराइड					सी			
2319.	जिरकोनियम, सूखा		एफ					टी"	

[ फा. सं. आरटी-11036/77/2000-एमवीएल ]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा अधिसूचित किए गए और सा.का.नि. 686(अ), तारीख 20 अक्टूबर 2004 द्वारा अंतिम संशोधन किया।

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
(Department of Road Transport and Highways)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2005

**G.S.R. 38(E).**— - The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by Sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public:

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government;

3. The objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Department of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-11001 within the period specified above.

**DRAFT RULES**

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (----- Amendment) Rules, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 137, for Table II and Table III, the following Tables shall be substituted, namely:-

**“TABLE II**

Indicative criteria

**(A) Explosives:**

An explosive means a solid or liquid or pyrotechnic substance (or a mixture of substances) or an article :-

- (i) which is in itself capable by chemical reaction of production of gas at such a temperature and at such a speed as to cause damage to the surroundings;
- (ii) which is designed to produce an effect . by heat, light, sound, gas or smoke or a combination of these . of non-detonative self sustaining exothermic chemical reaction.

**(B) Gas:**

- (1) A gas is a substance which.-

- (i) at 50<sup>0</sup> C has a vapour pressure greater than 300 kPa; or
- (ii) is completely gaseous at 20<sup>0</sup> C at a standard pressure of 101.3 kPa.

- (2) Substances of gas are assigned to one of three following divisions based on the primary hazard of the gas during transport .

**(a) Flammable gases:**

Gases which at 20<sup>0</sup> C and a standard pressure of 101.3 kPa .-

- (i) are ignitable when a mixture of 13 per cent or less by volume with air; or
- (ii) have a flammable range with air of at least 12 percentage points regardless of the lower flammable limit. Flammability shall be determined by tests or by calculation in accordance with methods adopted by International Standards Organization [ISO: 10156: 1996 ] or by Bureau of Indian Standards [ IS: 1446- 1985 ]

**(b) Non-flammable, non-toxic gases:**

Gases which are transported at a pressure not less than 280 kPa at 20<sup>0</sup> C , or as refrigerated liquids and which,-

- (i) are asphyxiant- gases which dilute or replace the oxygen normally in the atmosphere;
- (ii) are oxidizing -gases which may, generally by providing oxygen, cause or contribute to the combustion of other material more than air does; or
- (iii) do not come under the other divisions:

**(c) Toxic gases:**

Gases which are known to be so toxic or corrosive to humans as to pose a hazard to health

Note: Gases meeting the above criteria owing to their corrosivity are ~~classified~~ as toxic with a subsidiary corrosive risk.

**(C) Flammable chemicals:**

- (i) **Flammable Gases.** - Gases which at 20<sup>0</sup> C and at standard pressure of 101.3 Kpa are.-
  - (a) ignitable when in a mixture of 13 percent or less by volume with air, or
  - (b) have a flammable range with air of at least 12 percentage points regardless of the lower flammable limits.

Note: The flammability shall be determined by tests or by calculation in accordance with methods adopted by International Standards Organization [ISO:10156: 1990 ] or by Bureau of India Standards [ IS:1446-1985 ].

- (ii) **Extremely Flammable liquids.**- Chemicals which have flash point lower than or equal to 23<sup>0</sup> C and boiling point less than 35<sup>0</sup> C.
- (iii) **Very highly Flammable Liquids.**- Chemical which have a flash point lower than or equal to 23<sup>0</sup> C and initial boiling point higher than 35<sup>0</sup> C.
- (iv) **Highly Flammable Liquids.**- Chemicals with a flash point lower than or equal to 60<sup>0</sup> C but higher than 23<sup>0</sup> C.
- (v) **Flammable Liquids.**- Chemicals which have a flash point higher than 60<sup>0</sup> C but lower than 90<sup>0</sup> C.

**(D) Reactive Substances:**

Reactive substances are those substances which start reacting chemically with any other material and producing gases through their own decomposition. Such substances are Inorganic Alkalies (for example NaOH, Iodine and the like ) and Acids (for example H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub>, HCL and the like)

**(E) Oxidising Substances:**

- (a) Oxidizing substances

substances which, while in themselves not necessarily combustible, may, generally by yielding oxygen, cause or contribute to, the combustion of other material. Such substances may be contained in an article:

(b) **Organic peroxides**

Organic substances which contain the bivalent-O-O- structure and may be considered derivative of hydrogen peroxide, where one or both of the hydrogen atoms have been replaced by organic radicals. Organic peroxides are thermally unstable substances which may undergo exothermic self-accelerating decomposition. In addition, they may have one more of the following properties,-

- (i) be liable to explosive decomposition;
- (ii) burn rapidly;
- (iii) be sensitive to impact or friction;
- (iv) react dangerously with other substances;
- (v) cause damage to the eyes.

**(F) Toxic:**

Toxic Chemicals.- Chemicals having the following values of acute toxicity and which owing to their physical and chemical properties, are capable of producing major accident hazards:-

Sl. No	Toxicity	Oral toxicity (mg/kg)	Dermal toxicity (mg/kg)	Inhalation toxicity (mg/l)
1	Extremely toxic	>5	>40	>0.5
2	Highly toxic	>5-50	>40-200	>0.5-2.0
3	Toxic	>50-200	>200-1000	>2-10

- 1. **LD<sub>50</sub>** oral in rats
- 2. **LD<sub>50</sub>** cutaneous in rats or rabbits
- 3. **LC<sub>50</sub>** by inhalation (four hours) in rats

**(G) Radioactive:**

Radioactive materials mean any material containing radionuclides where both the activity concentration and the total activity in the consignment exceed the values specified depending on the type of material, by the Atomic Energy Commission of India.

**(H) Corrosive:**

Corrosive substances are substances which, by chemical action, will cause severe damage when in contact with living tissue, or in the case of leakage, will materially damage, or even destroy, other goods or the means of transport. They may also cause other hazards."

TABLE III  
LIST OF HAZARDOUS GOODS

		E- EXPLOSIVE, C- CORROSIVE,	F- FLAMMABLE, Ra-RADIOACTIVE,	O - OXIDISING, T - TOXIC,	R- REACTIVE, G-GAS.			
		E	F	O	R	C	T	G
1	1 HEXENE	E	F					
2	1 METHYLPIPERIDINE		F					
3	1, 1-DIFLUOROETHYLENE (REFRIGERATED GAS R 1132a)							G
4	1, 2-DICHLORO-1, 1,2,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERATED GAS R 114)							G
5	1,1,1,2-TETRAFLUROETHANE (REFRIGERANTE GAS R 134a)							G
6	1,1,1-TRIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 143a)							G
7	1,1,1-TRICHLOROETHANE						T	
8	1,1-DICHLORO-1-NITROETHANE						T	
9	1,1-DICHLOROETHANE		F					
10	1,1-DIFLUOROETHANE							G
11	1,1-DIMETHOXYETHANE		F					
12	1,2,3,6-TETRAHYDROBENZALDEHYDE		F					
13	1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE		F					
14	1,2-BUTYLENE OXIDE, STABILIZED		F					
15	1,2-DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE		F					
16	1,2-DIBROMOBUTAN 3-ONE						T	
17	1,2-DICHLOROETHYLENE		F					
18	1,2-DICHLOROPROPANE		F					
19	1,2-DIMETHOXYETHANE		F					
20	1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPANE		F					
21	1,2-PROPYLENEDIAMINE				C			
22	1,3,5-TRIMETHYLBENZENE		F					
23	1,3-DICHLOROACETONE						T	
24	1,3-DICHLOROPROPANOL-2						T	
25	1,3-DIMETHYLBUTYLAMINE		F					
26	1,4-BUTYNEDIOL						T	
27	1,5,9-CYCLODODECATRIENE						T	
28	1-BROMO-3-CHLOROPROPANE						T	
29	1-BROMO-3-METHYLBUTANE		F					
30	1-CHLORO-1, 1-DIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 142b)							G
31	1-CHLORO-2, 2,2-TRIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 133a)							G
32	1-ETHYLPIPERIDINE		F					
33	1-METHOXY-2-PROPANOL		F					
34	1-PENTOL				C			
35	2-(2-AMINOETHOXY) ETHANOL				C			
36	2, 2-DIMETHYLPROPANE							G
37	2, 4-TOLUYLENEDIAMINE						T	
38	2,2'-DICHLORODIETHYL ETHER						T	
39	2,3 DIHYDROPYRAN		F					
40	2,3-DIMETHYLBUTANE		F					
41	2-AMINO-4, 6-DINTROPHENOL WETTED		F					

42	2-AMINO-4-CHLOROPHENOL							T	
43	2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTANE							T	
44	2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL	F							
45	2-BROMOETHYL ETHYL ETHER	F							
46	2-BROMOPENTANE	F							
47	2-CHLOROETHANAL							T	
48	2-CHLOROPROPANE	F							
49	2-CHLOROPROPENE	F							
50	2-CHLOROPROPIONIC ACID, SOLID							T	
51	2-CHLOROPROPIONIC ACID, SOLUTION					C			
52	2-CHLOROPYRIDINE							T	
53	2-DIETHYLAMINOETHANOL					C			
54	2-DIMETHYLAMINOACETONITRILE	F							
55	2-DIMETHYLAMINOETHANOL					C			
56	2-DIMETHYLAMINOETHYL ACRYLATE							T	
57	2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE							T	
58	2-ETHYLANILINE							T	
59	2-ETHYLBUTANOL	F							
60	2-ETHYLBUTYRALDEHYDE	F							
61	2-ETHYLHEXYL CHLOROFORMATE							T	
62	2-ETHYLHEXYLAMINE	F							
63	2-IODOBUTANE	F							
64	2-METHYL-1-BUTENE	F							
65	2-METHYL-2-BUTENE	F							
66	2-METHYL-2-HEPTANETHIOS							T	
67	2-METHYL-5-ETHYLPYRIDINE							T	
68	2-METHYLFURAN	F							
69	2-METHYLPENTAN-2-OL	F							
70	2-TRIFLUOROMETHYLANILINE							T	
71	3,3-DIETHOXYPROPENE	F							
72	3,3'-IMINODIPROPYLAMINE					C			
73	3-BROMOPROPYNE	F							
74	3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE							T	
75	3-CHLOROPROPANOL-1							T	
76	3-METHYL-1-BUTENE	F							
77	3-METHYLBUTAN-2-ONE	F							
78	3-NITRO-4-CHLOROBENZOTRIFLUORIDE					C			
79	3-TRIFLUOROMETHYLANILINE							T	
80	4-METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ONE	F							
81	4,4'-DIAMINODIPHENYLMETHANE							T	
82	4-CHLORO- <i>o</i> -TOLUIDINE HYDROCHLORIDE							T	
83	4-METHYLMORPHOLINE (N-METHYLMORPHOLINE)	F							
84	4-THIAPENTANAL							T	
85	5-METHYLHEXAN-2-ONE	F							
86	5-NITROBENZOTRIAZOL	E							
87	5- <i>tert</i> -BUTYL-2,4,6-TRINITRO- <i>m</i> -XYLENE (MUSK XYLENE)	F							
88	9-PHOSPHABICYCLONONANES (CYCLOOCTADIENE PHOSPHINES)	F							
89	ACETALDEHYDE	F						T	
90	ACETALDEHYDE AMMONIA							T	
91	ACETIC ACID					C			

92	ACETIC ACID SOLUTION				C			
93	ACETIC ACID, GLACIAL or ACETIC ACID SOLUTION				C			
94	ACETIC ANHYDRIDE				C			
95	ACETIC CYANOTHYDRIN						T	
96	ACETONE	F						
97	ACETONE CYANOHYDRIN						T	
98	ACETONE CYANOHYDRINE(2-CYANOPROPAN-2-OL)						T	
99	ACETONE OILS	F						
100	ACETONE THIOSEMICARBAZIDE						T	
101	ACETONITRILE	F					T	
102	ACETYL BROMIDE				C			
103	ACETYL CHLORIDE	F			C		T	
104	ACETYL IODIDE				C			
105	ACETYL METHYL CARBINOL	F						
106	ACETYLENE						T	G
107	ACETYLENE (ETHYNE)	F						
108	ACETYLENE TETRA CHLORIDE						T	
109	ACRIDINE						T	
110	ACROLEIN (2-PROPENAL)	F					T	
111	ACROLEIN DIMER, STABILIZED	F						
112	ACRYLAMIDE						T	
113	ACRYLIC ACID, STABILIZED				C			
114	ACRYLONITRILE	F					T	
115	ADIPONITRILE						T	
116	AEROSOLS							G
117	AIRCRAFT HYDRAYLIC POWER UNIT FUEL TANK	F						
118	ALCOHOLATES SOLUTION, N.O.S.	F						
119	ALCOHOLIC BEVERAGES	F						
120	ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	F						
121	ALCOHOLS, N.O.S.	F						
122	ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	F						
123	ALDEHYDES, N.O.S.	F						
124	ALDICARB						T	
125	ALDOL						T	
126	ALKALI METAL ALLOY, LIQUID, N.O.S.	F						
127	ALKALI METAL AMALGAM	F						
128	ALKALI METAL AMIDES	F						
129	ALKALI METAL DISSPERSION OR ALKALINE EARTH METAL DISPERSION	F						
130	ALKALINE EARTH METAL ALCOHOLATES, N.O.S.	F						
131	ALKALINE EARTH METAL AMALGAM	F						
132	ALKALINE METAL ALCOHOLATES, SELF-HEATING, CORROSIVE, N.O.S.	F						
133	ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S. or ALKALOID SALTS, LIQUID, N.O.S.						T	
134	ALKYL PHTHALATE				C			
135	ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S.				C			
136	ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S.				C			
137	ALKYLSULPHURIC ACIDS				C			
138	ALKYSULPHONIC ACIDS, LIQUID ARKYSULPHONIC ACIDS, LIQUID				C			

139	ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID OR ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID				C			
140	ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID OR ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID				C			
141	ALLYL ALCOHOL	F					T	
142	ALLYL ALCOHOL (2-PROPEN-1-OL)	F					T	
143	ALLYL AMINE						T	
144	ALLYL BROMIDE	F					T	
145	ALLYL CHLORIDE	F					T	
146	ALLYL CHLOROFORMATE						T	
147	ALLYL GLYCIDYL ETHER	F						
148	ALLYL IODIDE	F						
149	ALLYLAMINE						T	
150	ALLYLTRICHLOROSILANE, STABILIZED				C			
151	ALPHA NAPHTHYL THIOUREA				C			
152	ALPHA-METHYLBENZYL ALCOHOL						T	
153	ALPHA-METHYLVALERALDEHYDE	F						
154	ALPHA-NAPHTHYLAMINE						T	
155	ALPHA-PINENE	F						
156	ALUMINIUM (POWDER)						T	
157	ALUMINIUM ALKYL HALIDES, LIQUID / SOLID	F						
158	ALUMINIUM ALKYL HYDRIDES	F						
159	ALUMINIUM ALKYL	F						
160	ALUMINIUM AZIDE	F					T	
161	ALUMINIUM BOROHYDRIDE	F					T	
162	ALUMINIUM BROMIDE SOLUTION				C			
163	ALUMINIUM BROMIDE, ANHYDROUS				C			
164	ALUMINIUM CARBIDE	F					T	
165	ALUMINIUM CHLORIDE				C			
166	ALUMINIUM CHLORIDE SOLUTION				C			
167	ALUMINIUM CHLORIDE, ANHYDROUS				C			
168	ALUMINIUM FLUORIDE				C			
169	ALUMINIUM HYDRIDE	F						
170	ALUMINIUM NITRATE		O					
171	ALUMINIUM PHOSPHIDE	F						
172	ALUMINIUM PHOSPHIDE PESTICIDE						T	
173	ALUMINIUM RESINATE	F						
174	ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS or ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS	F						
175	AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, FLAMMABLE N.O.S. POLYAINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.				C			
176	AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	F						
177	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAINES, FLAMMABLE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.				C			
178	AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.				C			
179	AMINO DIPHENYL						T	
180	AMINO PYRIDINE						T	
181	AMINODIPHENYL, -4						T	

182	AMINOPHENOL-2							T	
183	AMINOPHENOLS (o-, m-, p-)							T	
184	AMINOPPYRIDINES							T	
185	AMINOPTERIN							T	
186	AMITON							T	
187	AMITON DIALATE							T	
188	AMMONIA							T	
189	AMMONIA SOLUTION							T	G
190	AMMONIUM ARSENATE							T	
191	AMMONIUM CHLORO PLATINATE							T	
192	AMMONIUM DICHROMATE							T	
193	AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE							T	
194	AMMONIUM FLUORIDE							T	
195	AMMONIUM FLUOROSILICATE							T	
196	AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE SOLUTION					C			
197	AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID					C			
198	AMMONIUM METAVANADATE							T	
199	AMMONIUM NITRATE FERTILIZER			O					
200	AMMONIUM NITRATE FERTILIZER, N.O.S.			O					
201	AMMONIUM NITRATE FERTILIZERS			O					
202	AMMONIUM NITRATE, LIQUID			O					
203	AMMONIUM NITRATES			O	R				
204	AMMONIUM NITRATES IN FERTILIZERS			O	R				
205	AMMONIUM PERCHLORATE			O					
206	AMMONIUM PERSULPHATE			O					
207	AMMONIUM PICRATE	E						Ra	
208	AMMONIUM PICRATE, WETTED	F							
209	AMMONIUM POLYSULPHIDE SOLUTION					C			
210	AMMONIUM POLYVANADATE							T	
211	AMMONIUM SULFAMATE							T	
212	AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION					C			
213	AMMUNITION, TEAR-PRODUCING, NON-EXPLOSIVE							T	
214	AMMUNITION, TOXIC, NON-EXPLOSIVE							T	
215	AMONIUM HYDROGEN SULPHATE					C			
216	AMYL ACETATES	F						T	
217	AMYL ACID PHOSPHATE					C			
218	AMYL BUTYRATES	F							
219	AMYL FORMATES	F							
220	AMYL NITRATE	F							
221	AMYLAMINE	F							
222	AMYLTRICHLOROSILANE					C			
223	ANABASINE							T	
224	ANILINE							T	
225	ANILINE 2, 4, 6-TRIMETHYL								
226	ANILINE HYDROCHLORIDE							T	
227	ANISIDINE-P							T	
228	ANISIDINES							T	
229	ANISOLE	F							
230	ANISOYL CHLORIDE					C			
231	ANTHRAQUINONE							T	
232	ANTHRAWUINONE							T	

233	ANTIMONY AND COMPOUNDS				C		T	
234	ANTIMONY HYDRIDE (STIBINE)		F				T	
235	ARASENOUS TRICHLORIDE						T	
236	ARGON, REFRIGERATED LIQUID							G
237	ARSENIC AND ALL ARSENIC COMPOUNDS IN ANY FORM						T	
238	ARSENIC HYDIDE (ARSENE)						T	
239	ARSENIC PENTOXIDE, ARSENIC (V) ACID AND SALTS						T	
240	ARSENIC TRIOXIDE, ARSENIOUS (III) ACIDS AND SALTS						T	
241	ASBESTOS						T	
242	AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. / SOLIDS N.O.S.	E	F					
243	AZINPHOS - ETHYL						T	
244	AZINPHOS METHYL						T	
245	AZOIDIC ARBONAMIDE		F					
246	BARIUM AZIDE	E						
247	BARIUM BROMATE			O				
248	BARIUM CHLORATE			O				
249	BARIUM CYANIDE						T	
250	BARIUM HYPOCHLORITE			O				
251	BARIUM NITRATE				C			
252	BARIUM NITRIDE				C			
253	BARIUM OXIDE						T	
254	BARIUM PERCHLORATE			O				
255	BARIUM PERMANGANATE			O				
256	BARIUM PEROXIDE			O				
257	BATTERIES FLUID, ALKALI				C			
258	BATTERIES WET, FILLED WITH ACID				C			
259	BATTERIES WET, FILLED WITH ALKALI				C			
260	BATTERIES WET, NON-SPILLABLE				C			
261	BATTERIES, CONTAINING SODIUM, or CELLS, CONTAINING SODIUM		F					
262	BATTERIES, DRY, CONTAINING POTASSIUM HYDROXIDE SOLID				C			
263	BENZOYL PEROXIDE							
264	BENZAL CHLORIDE							
265	BENZALDEHYDE							
266	BENZENAMINE, 3-TRIFLUOROMETHYL							
267	BENZENE		F				T	
268	BENZENE ARSENIC ACID						T	
269	BENZENE CHLORIDE						T	
270	BENZENE SULFONYL CHLORIDE						T	
271	BENZENE, 1-(CHLOROMETHYL)-4 NITRO						T	
272	BENZENE, 1-(CHLOROMETHYL) 4-NITRO						T	
273	BENZENESULPHONYL CHLORIDE		F		C			
274	BENZIDINE						T	
275	BENZIDINE SALTS						T	
276	BENZIMIDAZOLE, 4,5-DICHLORO-2 (TRIFLUOROMETHYL)						T	
277	BENZONITRILE						T	
278	BENZOQUINONE						T	
279	BENZOQUINONE-P						T	
280	BENZOTRICHLORIDE				C			
281	BENZOYL CHLORIDE				C			

282	BENZOYL PEROXIDE	E						T	
283	BENZYL BROMIDE							T	
284	BENZYL CHLORIDE							T	
285	BENZYL CHLOROFORMATE					C			
286	BENZYL CYANIDE							T	
287	BENZYL IODIDE							T	
288	BENZYL DIMETHYLAMINE					C			
289	BENZYLIDENE CHLORIDE							T	
290	BERYLLIUM (POWDER)							T	
291	BERYLLIUM (POWDERS, COMPOUNDS)							T	
292	BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S.							T	
293	BERYLLIUM NITRATE			O					
294	BERYLLIUM POWDER							T	
295	BIBYRIDILIUM PESTICIDE SOLID, TOXIC							T	
296	BIBYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	F							
297	BICYCLO (2, 2, 1) HEPTANE-2-CARBONITRILE							T	
298	BICYCLO (2.2.1) HEPTA-2,5-DIENE, STABILIZED (2,5-NORBORNADIENE, STABILIZED)	F							
299	BIPHENYL							T	
300	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC							T	
301	BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE							T	
302	BIS (2, 4, 6-TRINITROPHENYLAMINE)								
303	BIS (2, 4, 6-TRINITROPHENYL) AMINE	E						T	
304	BIS (2-CHLOROETHYL) SULPHIDE							T	
305	BIS (2-CHLOROMETHYL) KETONE							T	
306	BIS (CHLOROMETHYL) ETHER							T	
307	BIS (CHLOROMETHYL) KETONE							T	
308	BIS (TERBUTYLPEROXY) BUTANE	F						T	
309	BIS (TERT-BUTYL PEROXY) CYCLOHEXANE					C		T	
310	BIS (TERT-BUTYLPEROXY BUTANE, -2,2)					C		T	
311	BIS (TERT-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE, 1,1					C		T	
312	BIS (TERT-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE-1,1				R				
313	BIS (TERT-BUTYLPEROXY,BUTANE,2,-2)				R				
314	BIS, 1,2 TRIBROMOPHENOXY-ETHANE							T	
315	BISMUTH & COMPOUNDS						Ra	T	
316	BISPENOL							T	
317	BISULPHATES, AQUEOUS SOLUTION					C			
318	BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.					C			
319	BITOSCANATE								
320	BLUE ASBESTOS or BROWN ASBESTOS								
321	BOMBS, SMOKE, NON-EXPLOSIVE					C			
322	BORON AND COMPOUNDS							T	
323	BORON POWDER							T	
324	BORON TRIBYOMIDE					C			
325	BORON TRICHLORIDE								G
326	BORON TRIFLUORIDE							T	
327	BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX					C			
328	BORON TRIFLUORIDE COMP. WITH METHYL-ETHER 1:1							T	
329	BORON TRIFLUORIDE DIETHYL ETHERATE					C			
330	BORON TRIFLUORIDE DIHYDRATE					C			
331	BORON TRIFLUORIDE DIMETHYL ETHERATE	F							

332	BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX				C			
333	BORON TRIFLUORIDE, COMPRESSED							G
334	BORON TRICHLORIDE						T	
335	BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.		O					
336	BROMATES, INORGANIC, N.O.S.		O					
337	BROMINE						T	
338	BROMINE CHLORIDE							G
339	BROMINE or BROMINE SOLUTION				C			
340	BROMINE PENTAFLUORIDE		O					
341	BROMINE TRIFLUORIDE		O					
342	BROMO CHLORO METHANE				C			
343	BROMOACETIC ACID				C			
344	BROMOACETYL BROMIDE				C			
345	BROMOBENZENE	F			C			
346	BROMOBENZYL CYANIDES, LIQUID / SOLID						T	
347	BROMOCHLOROMETHANE						T	
348	BROMOFORM						T	
349	BROMOMETHYLPROPANES	F						
350	BROMOPROPANES	F						
351	BROMOTRIFLUOROETHYLENE							G
352	BROMOTRIFLUOROMETHANE							G
353	BUTADIENE						T	
354	BUTADIENE-1,3			R			T	
355	BUTADIENES, STABILIZED							G
356	BUTANE							G
357	BUTANEDIONE	F						
358	BUTANONE-2			R			T	
359	BUTOXY ETHANOL						T	
360	BUTYL ACID PHOSPHATE				C			
361	BUTYL ACRYLATES, STABILIZED	F						
362	BUTYL ALCOHOL	F		R				
363	BUTYL GLYCIDAL ETHER						T	
364	BUTYL MERCAPTAN	F						
365	BUTYL METHYL ETHER	F						
366	BUTYL NITRITES	F						
367	BUTYL PEROXY ISOPROPYL CARBONATE, TERT			R				
368	BUTYL PEROXYACETATE, TERT			R				
369	BUTYL PEROXYISOBUTYRATE, TERT			R				
370	BUTYL PEROXYMALEATE, TERT			R				
371	BUTYL PEROXYMALEME TERT							
372	BUTYL PEROXYPIVALATE TERT				C			
373	BUTYL PROPIONATES	F						
374	BUTYL VINYL ETHER				C			
375	BUTYL VINYL ETHER, STABILIZED	F						
376	BUTYLAMINE			R	C			
377	BUTYLBENZENES	F						
378	BUTYLENE							G
379	BUTYLGLYCIDAL ETHER						T	
380	BUTYL-N-MERCAPTAN						T	
381	BUTYLTOLUENES						T	
382	BUTYLTRICHLOROSILANE				C			

383	BUTYRALDOXIME	F						
384	BUTYRIC ACID				C			
385	BUTYRIC ANHYDRIDE				C			
386	BUTYRONITRILE	F						
387	BUTYRYL CHLORIDE	F						
388	C.I.BASIC GREEN						T	
389	C9 AROMATIC HYDROCARBON FRACTION						T	
390	CADMIUM AND COMPOUNDS						T	
391	CADMIUM CARBIDE						T	
392	CADMIUM COMPOUND						T	
393	CADMIUM CYANIDE						T	
394	CADMIUM OXIDE							
395	CADMIUM OXIDE (FUMES)						T	
396	CADMIUM STEARATE						T	
397	CAESIUM HYDROXIDE				C			
398	CAESIUM NITRATE		O					
399	CALCIUM ARSENATE						T	
400	CALCIUM CARBIDE	F						
401	CALCIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION		O					
402	CALCIUM CYANAMIDE	F						
403	CALCIUM CYANIDE						T	
404	CALCIUM DITHIONITE (CALCIUM HYDROSULPHITE)	F						
405	CALCIUM HYDRIDE	F						
406	CALCIUM HYPOCHLORIDE, DRY or CALCIUM HYPOCHLORIDE MIXTURE, DRY		O					
407	CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE		O					
408	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE		O					
409	CALCIUM MANGANESE SILICON	F						
410	CALCIUM OXIDE				C			
411	CALCIUM PERCHLORATE		O					
412	CALCIUM PERMANGANATE		O					
413	CALCIUM PEROXIDE		O					
414	CALCIUM RESINATE	F						
415	CALCIUM SILICIDE	F						
416	CALCIUM, PYROPHORIC or CALCIUM ALLOYS, PYROPHORIC	F						
417	CAMPBOR	F						
418	CAMPBOR OIL	F						
419	CAPRIOC ACID				C			
420	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC						T	
421	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC	F						
422	CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE						T	
423	CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC						T	
424	CARBARYL (SEVIN)						T	
425	CARBOFURAN						T	
426	CARBOFURAN (FURADAN)						T	
427	CARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID							G
428	CARBON DISULPHIDE	F					T	
429	CARBON MONOXIDE	F					T	

430	CARBON MONOXIDE AND HYDROGEN MIXTURE, COMPRESSED							T	G
431	CARBON TETRABROMIDE							T	
432	CARBON TETRACHLORIDE							T	
433	CARBON, ACTIVATED	F							
434	CARBONYL FLUORIDE, COMPRESSED								G
435	CARBONYL SULPHIDE								
436	CARBOPHENOTHION							T	
437	CARTRIDGES	E							
438	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.					C			
439	CELLULOSE NITRATE	E	F						
440	CELLULOID		F						
441	CELLULOID, SCRAP		F						
442	CELLULOSE NITRATE	E	F						
443	CERIUM		F						
444	CHEMICAL SAMPLE, TOXIC							T	
445	CHLORAL, ANHYDROUS, STABILIZED							T	
446	CHLORATES (USED IN EXPLOSIVES)	E							
447	CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			O					
448	CHLORFENVINPHOS							T	
449	CHLORIC ACID, AQUEOUS			O					
450	CHLORINATED BENZENES							T	
451	CHLORINE							T	G
452	CHLORINE DIOXIDE							T	
453	CHLORINE OXIDE							T	
454	CHLORINE PENTAFLUORIDE								G
455	CHLORINE TRIFLUORIDE								G
456	CHLORITE SOLUTION					C			
457	CHLORITES, INORGANIC, N.O.S.			O					
458	CHLORITES, INORGANIC, N.O.S.			O					
459	CHLORMEPHOS								
460	CHLORMEQUAT CHLORIDE								
461	CHLOROACETAL CHLORIDE					C		T	
462	CHLOROACETALDEHYDE							T	
463	CHLOROACETIC ACID							T	
464	CHLOROACETIC ACID SOLUTION			O					
465	CHLOROACETIC ACID, MOLTEN							T	
466	CHLOROACETIC ACID, SOLID							T	
467	CHLOROACETONE, STABILIZED							T	
468	CHLOROACETONITRILE							T	
469	CHLOROACETOPHENONE							T	
470	CHLOROACETYL CHLORIDE					C		T	
471	CHLOROANILINE, -2							T	
472	CHLOROANILINE, -4							T	
473	CHLOROANILINE-2								
474	CHLOROANILINE-4								
475	CHLOROANILINES, LIQUID							T	
476	CHLOROANILINES, SOLID							T	
477	CHLOROANISIDINES							T	
478	CHLOROBENZENE	F						T	
479	CHLOROBENZOTRIFLUORIDES	F							

480	CHLOROBENZYL CHLORIDES							T	
481	CHLOROBUTANES	F							
482	CHLOROCRESOLS							T	
483	CHLORODIFLUOROBROMOMETHANE (REFRIGERANT GAS R 12B1)								G
484	CHLORODIFLUOROMETHANE AND CHLOROPENTAFLUOROETHANE MIXTURE								G
485	CHLORODIFLUOROMETHANE								G
486	CHLORODINITROBENZENES, LIQUID							T	
487	CHLORODINITROBENZENES, SOLID							T	
488	CHLORODIPHENYL							T	
489	CHLOROEOXYPROPANE							T	
490	CHLOROETHANOL							T	
491	CHLOROETHYL CHLOROFORMATE								
492	CHLOROFENVINPHOS								
493	CHLOROFLUOROCARBONS								
494	CHLOROFORM							T	
495	CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.							T	
496	CHLOROFORMYL MORPHOLINE								
497	CHLOROFORMYL, -4 MORPHOLINE							T	
498	CHLOROMETHANE							T	
499	CHLOROMETHYL CHLOROFORMATE							T	
500	CHLOROMETHYL ETHER							T	
501	CHLOROMETHYL ETHYL ETHER	F							
502	CHLOROMETHYL METHYL ETHER							T	
503	CHLOROMORMATES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.							T	
504	CHLORONITROANILINES							T	
505	CHLORONITROBENZENE	E						T	
506	CHLORONITROBENZENES							T	
507	CHLORONITROTOLUENES, LIQUID / SOLID							T	
508	CHLOROPENTAFLUOROETHANE								G
509	CHLOROPHACINONE								
510	CHLOROPHENOLATES, LIQUID or PHENOLATES, LIQUID					C			
511	CHLOROPHENOLATES, SOLID or PHENOLATES, SOLID					C			
512	CHLOROPHENOLS, LIQUID							T	
513	CHLOROPHENYLTRICHLORO-SILANE					C			
514	CHLOROPICRIN							T	
515	CHLOROPICRIN MIXTURE, N.O.S.							T	
516	CHLOROPLATINIC ACID, SOLID					C			
517	CHLOROPRENE	F						T	
518	CHLOROPRENE, STABILIZED	F							
519	CHLOROSILANES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.					C			
520	CHLOROSILANES, CORROSIVE, N.O.S.					C			
521	CHLOROSILANES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.	F							
522	CHLOROSULPHONIC ACID					C			
523	CHLOROTHIOPHOS								
524	CHLOROTOLUENES	F							
525	CHLOROTOLUIDINES							T	
526	CHLOROTRIFLUOROMETHANE								G

527	CHLOROTRIFLUOROMETHANE AND TRIFLUOROMETHANE AZEOTROPIC MIXTURE							G
528	CHLOROTRINITROBENZENE	E					T	
529	CHLOROXURON						T	
530	CHLORPHENOLS, SOLID						T	
531	CHOROETHYL CHLOROFORMATE						T	
532	CHROMIC ACID							
533	CHROMIC ACID SOLUTION				C			
534	CHROMIC CHLORIDE							
535	CHROMIC FLUORIDE SOLUTION				C			
536	CHROMIC FLUORIDE, SOLID				C			
537	CHROMIUM AND COMPOUNDS						T	
538	CHROMIUM NITRATE		O					
539	CHROMIUM OXYCHLORIDE				C			
540	CHROMIUM POWDER							
541	CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS		O					
542	CHROMOSULPHURIC ACID				C			
543	CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S. or (bio) MEDICAL WASTE N.O.S. or REGULATED MEDICAL WASTE, N.O.S.						T	
544	CLORINE						T	
545	COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE	F						
546	COBALT & COMPOUNDS						T	
547	COBALT (POWDER)							
548	COBALT CARBONYL							
549	COBALT NAPHTHENATES, POWDER	F						
550	COBALT NITRILMETHYLIDYNE COMPOUND							
551	COBALT RESINATE, PRECIPITATED	F						
552	COLOURED FIRE	E						
553	COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.							G
554	COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE CORROSIVE, N.O.S.	F			C		T	
555	COPPER ACETOARSENITE						T	
556	COPPER AND COMPUNDS						T	
557	COPPER ARSENITE						T	
558	COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE TOXIC	F						
559	COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC						T	
560	COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE						T	
561	COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC						T	
562	COPPER CHLORATE		O					
563	COPPER CHLORIDE				C			
564	COPPER CYANIDE COPPEROXYCHLORIDE						T	
565	COROFORMYL, -4 NIORPHOLINE						T	
566	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.				C			
567	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.				C			
568	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.				C			
569	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.				C			
570	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.				C			
571	CORROSIVE LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.				C			
572	CORROSIVE LIQUID, SELF-HEATING, N.O.S.				C			
573	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.				C			

574	CORROSIVE LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.					C			
575	CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.					C			
576	CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.					C			
577	CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.					C			
578	CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.					C			
579	CORROSIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.					C			
580	CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.					C			
581	CORROSIVE SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.					C			
582	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC		F						
583	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC							T	
584	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE							T	
585	COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC							T	
586	COUMATERTRALYL								
587	CRESOLS							T	
588	CRESOLS, LIQUID / LIQUID							T	
589	CRESYLIC ACID							T	
590	CRIMIDINE							T	
591	CROTONALDEHYDE		F					T	
592	CROTONIC ACID					C			
593	CUMENE							T	
594	CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION					C			
595	CYANIDE SOLUTION, N.O.S.							T	
596	CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S.							T	
597	CYANOGEN								G
598	CYANOGEN BROMIDE							T	
599	CYANOGEN CHLORIDE, STABILIZED							T	G
600	CYANOGEN IODIDE								
601	CYANOTHOATE							T	
602	CYANURIC CHLORIDE					C			
603	CYANURIC FLUORIDE							T	
604	CYCLOBUTANE								G
605	CYCLOBUTYL CHLOROFORMATE							T	
606	CYCLOHEPTANE		F						
607	CYCLOHEPTENE		F						
608	CYCLOHETATRIENE		F						
609	CYCLOHEXANE		F						
610	CYCLOHEXANONE		F					T	
611	CYCLOHEXENE		F						
612	CYCLOHEXENYLTRICHLOROSILANE					C			
613	CYCLOHEXIMIDE							T	
614	CYCLOHEXYL ACETATE		F						
615	CYCLOHEXYL ISOCYANATE							T	
616	CYCLOHEXYL MERCAPTAN		F						
617	CYCLOHEXYLAMINE					C			
618	CYCLOHEXYLTRICHLOROSILANE					C			
619	CYCLOOCTADIENES		F						
620	CYCLOOCTATETRAENE		F						
621	CYCLOPENTADIENE		F					T	
622	CYCLOPENTANE		F						

623	CYCLOPENTANOL		F						
624	CYCLOPENTANONE		F						
625	CYCLOPENTENE		F						
626	CYCLOPROPANE								G
627	CYCLOTETRAMETHYLENE TETRANITRAMINE	E							
628	CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE (HMX, OCTOGEN), WETTED	E							
629	CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE & CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE WETTED OR CYCLOTRIMETHYLE	E							
630	CYMENS		F						
631	DDT							T	
632	DECABORANE							T	
633	DECABORANE <sub>10</sub>		F						
634	DECABROMODIPHENYL OXIDE							T	
635	DECAHYDRONAPHTHALENE		F						
636	DELAGRATING METAL SALTS OF AROMATIC NITRODERIVATIVES, N.O.S.	E							
637	DEMETON							T	
638	DEMETON S-METHYL							T	
639	DETONATORS	E							
640	DEUTERIUM, COMPRESSED								G
641	DEVICES, SMALL, HYDROCARBON GAS POWERED or HYDROCARBON GAS REFILLS FOR SMALL DEVICES								G
642	DHSOBUTYLAMINE		F						
643	DIACETONE ALCOHOL		F						
644	DIALIFOS							T	
645	DIALLYL ETHER		F						
646	DIALLYLAMINE		F						
647	DIAZODINITROPHENOL	E							
648	DIAZODINITROPHENOL, WETTED	E	F						
649	DIAZOMETHANE							T	
650	DIBENZYL PEROXYDICARBONATE				R				
651	DIBENZYL PEROXYDICARBONATE (CONC ≥ 90%)							T	
652	DIBENZYLDICHLOROSILANE					C			
653	DIBORANE							T	
654	DIBORANE, COMPRESSED								G
655	DIBROMOCHLOROPROPANES							T	
656	DIBROMODIFLUOROMETHANE							T	
657	DIBROMOMETHANE							T	
658	DIBUTYL ETHERS		F						
659	DIBUTYLAMINOETHANOL							T	
660	DICHLORO OBENZENE-O							T	
661	DICHLOROACETIC ACID					C			
662	DICHLOROACETYL CHLORIDE					C			
663	DICHLOROACETYLENE							T	
664	DICHLOROACETYLENE-O							T	
665	DICHLOROANILINES, LIQUID							T	
666	DICHLOROBENZALKONIUM CHLORIDE							T	
667	DICHLOROBENZENE-P							T	
668	DICHLORODIFLUOROMETHANE								G

669	DICHLORODIFLUOROMETHANE AND DIFLUOROETHANE AZEOTROPIC MIXTURE								G
670	DICHLORODIMETHYL ETHER, SYMMETRICAL							T	-
671	DICHLOROETHANE							T	
672	DICHLOROETHYL ETHER							T	
673	DICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY or DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS			O					
674	DICHLOROISOPROPYL ETHER							T	
675	DICHLOROMETHANE							T	
676	DICHLOROMETHYL PHENYLSILANE								
677	DICHLOROPENTANES		F						
678	DICHLOROPHENOL, -2,4 & - 2,6							T	
679	DICHLOROPHENOXY ACETIC ACID							T	
680	DICHLOROPHENOXY ACETIC ACID, -2,4 (2,4-D)							T	
681	DICHLOROPHENYL ISOCYANATES							T	
682	DICHLOROPHENYLTRICHLOROSILANE					C			
683	DICHLOROPROPANE 2,2							T	
684	DICHLOROPROPANE, -1,2							T	
685	DICHLOROPROPENS		F						
686	DICHLOROSALICYLIC ACID, -3,5							T	
687	DICHLOROSALICYLIC ACID-3,5							T	
688	DICHLOROSILANE								G
689	DICHLORVOS (DDVP)							T	
690	DICROTAPHOS							T	
691	DICYCLOHEXYLAMINE					C		T	
692	DICYCLOHEXYLAMMONIUM NITRITE		F						
693	DICYCLOPENTADIENE		F						
694	DIDYMIUM NITRATE			O					
695	DIEPOXY BUTANE							T	
696	DIEPOXYBUTANE							T	
697	DIETHLENEGLYCOL BUTYL ETHER							T	
698	DIETHOXYMETHANE		F						
699	DIETHYE PEROXYDICARBONATE				R				
700	DIETHYL CARBAMAZINE CITRATE				R				
701	DIETHYL CARBAMAZINE CITRATE				R				
702	DIETHYL CARBONATE		F						
703	DIETHYL CHLOROPHOSPHATE							T	
704	DIETHYL ETHANOLAMINE							T	
705	DIETHYL ETHER (ETHYL ETHER)		F						
706	DIETHYL GLYCOL DINITRATE							T	
707	DIETHYL KETONE		F						
708	DIETHYL PEROXYDICARBONATE							T	
709	DIETHYL PEROXYDICARBONATE(CONC=30%)							T	
710	DIETHYL PHENYLENE DIAMINE							T	
711	DIETHYL SULPHATE							T	
712	DIETHYL SULPHIDE		F						
713	DIETHYLAMINE				R				
714	DIETHYLAMINE ETHANOL							T	
715	DIETHYLAMINOPROPYLAMINE		F						
716	DIETHYLBENZENE		F						
717	DIETHYLDICHLOROSILANE					C			

718	DIETHYLENE GLYCOL						T	
719	DIETHYLENE GLYCOL BUTYL ETHER						T	
720	DIETHYLENE GLYCOL DINITRATE						T	
721	DIETHYLENE TRIAMINE						T	
722	DIETHYLENEGLYCOL BUTYL ETHER / DIETHYLENEGLYCOL BUTYL ACETATE						T	
723	DIETHYLENEGLYCOL, DINITRATE, DESENSITIZED	E				C		
724	DIETHYLENETRIAMINE					C		
725	DIETHYLENETRIAMINE (DETA)					C		
726	DIETHYLTHIOPHOSPHORYL CHLORIDE					C		
727	DIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 32)							G
728	DIFLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS					C		
729	DIGITOXIN					C		
730	DIGLYCIDYL ETHER						T	
731	DIHLOROFLUOROMETHANE							G
732	DIHYDROPEROXYPROPANE (CONC >= 30%)						T	
733	DIHYDROPEROXYPROPANE, -2,2	E						
734	DIISOBUTYL KETONE		F					
735	DIISOBUTYL PEROXIDE				R			
736	DI-ISOBUTYL PEROXIDE						T	
737	DIISOBUTYLENE, ISOMERIC COMPOUNDS		F					
738	DI-ISOBUTYRYL PEROXIDE						T	
739	DIISOOCTYL ACID PHOSPHATE					C		
740	DIISOPROPYL ETHER		F					
741	DIISOPROPYLAMINE				R			
742	DIKETENE, STABILIZED						T	
743	DIMEFOX		F			C		
744	DIMETHCAEBONYL CHLORIDE						T	
745	DIMETHILCARBONYL CHLORIDE						T	
746	DIMETHOATE						T	
747	DIMETHYL CARBONATE		F				T	
748	DIMETHYL DICHLOROSILANE						T	
749	DIMETHYL DISULPHIDE		F					
750	DIMETHYL ETHER							G
751	DIMETHYL HYDRAZINE					C		
752	DIMETHYL NITROSOAMINE					C		
753	DIMETHYL P-PHENYLENE DIAMINE						T	
754	DIMETHYL PHOSPHORAMIDI CYANIDIC ACID (TABUM)						T	
755	DIMETHYL PHOSPHORAMIDOCYANIDIC ACID						T	
756	DIMETHYL PHOSPHOROCHLORIDOTHIOATE						T	
757	DIMETHYL PHTHALATE						T	
758	DIMETHYL SUFOLANE (DMS)						T	
759	DIMETHYL SULPHATE						T	
760	DIMETHYL SULPHIDE		F					
761	DIMETHYL THIOPHOSPHORYL CHLORIDE						T	
762	DIMETHYLAMINE						T	
763	DIMETHYLAMINE AQUEOUS SOLUTION		F					
764	DIMETHYLAMINE, ANHYDROUS							
765	DIMETHYLANILINE						T	
766	DIMETHYLCARBAMOYL CHLORIDE					C	T	
767	DIMETHYLCARBOMYL						T	

768	DIMETHYLCARBONYL CHLORIDE							T	
769	DIMETHYLCYCLOHEXANES		F						
770	DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE					C			
771	DIMETHYLDICHLOROSILANE		F						
772	DIMETHYLDIETHOXSILANE		F						
773	DIMETHYLDIOXANES		F						
774	DIMETHYLFORMAMIDE							T	
775	DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRICAL							T	
776	DIMETHYLHYDRAZINE, UNSYMMETRICAL							T	
777	DIMETHYLNITROSAMINE							T	
778	DIMETHYL-N-PROPYLAMINE		F						
779	DIMETILAN							T	
780	DI-N-AMYLAMINE		F						
781	DI-N-BUTYLAMINE					C			
782	DINITRO O-CRESOL							T	
783	DINITROBENZENE							T	
784	DINITROBENZENES, LIQUID							T	
785	DINITROBENZENES, SOLID							T	
786	DINITROGEN TETROXIDE (NITROGEN DIOXIDE)								G
787	DINITRO-o-CRESOL							T	
788	DINITROPHENOL	E		O		C			
789	DINITROPHENOL SOLUTION							T	
790	DINITROPHENOL, SALTS	E						T	
791	DINITROPHENOL, WETTED		F						
792	DINITROPHENOLATES, WETTED		F						
793	DINITRORESORCINOL	E							
794	DINITRORESORCINOL, WETTED		F						
795	DINITROSOBENZENE	E							
796	DINITROTOLUENE							T	
797	DINITROTOLUENES, LIQUID / SOLID							T	
798	DINITROTOLUENES, MOLTEN	E						T	
799	DI-N-PROPYL ETHER		F						
800	DI-N-PROPYL PEROXIDICARBONATE				R				
801	DI-N-PROPYL PEROXYDICARBONATE(CONC=80%)				R				
802	DIOXANE		F					T	
803	DIOXANE-P							T	
804	DIOXATHION							T	
805	DIOXINE N							T	
806	DIOXOLANE		F						
807	DIPENTENE		F						
808	DIPHACINONE							T	
809	DIPHENYL METHANE DI-ISOCYNATE(MDI)							T	
810	DIPHENYLAMINE CHLOROARSINE							T	
811	DIPHENYLCHLOROARSINE, LIQUID / SOLID							T	
812	DIPHENYLDICHLOROSILANE					C			
813	DIPHENYLMETHYL BROMIDE					C			
814	DIPHOSPHORAMIDE OCTAMETHYL							T	
815	DIPICRYL SULPHIDE	E							
816	DIPICRYL SULPHIDE, WETTED		F						
817	DIPROPYL KETONE		F						
818	DIPROPYLAMINE		F						

819	DIPROPYLENE GLYCOL BUTYL ETHER	F						
820	DIPROPYLENE GLYCOL METHYLETHER	F						
821	DISCHLOROPHENOXY ACETIC ACID	F						
822	DISCROTOPHOS	F						
823	DI-SEC-BUTYL PEROXYDICARBONATE			R				
824	DI-SEC-BUTYL PEROXYDICARBONATE (CONC>80%)			R			T	
825	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.				C			
826	DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, N.O.S.						T	
827	DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S.						T	
828	DISOBUTYL PEROXIDE						T	
829	DISODIUM TRIOXOSILICATE				C			
830	DISULFOTON						T	
831	DITHIAZAMINE IODIDE						T	
832	DITHIOBIURATE						T	
833	DITHYDROPEROXYPROPANE, -2,2						T	
834	DIVINYL ETHER, STABILIZED							
835	DODECYLTRICHLOROSILANE				C			
836	DRY, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.				C			
837	DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.				C			
838	DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, SOLID, TOXIC, N.O.S.						T	
839	EAR GAS SUBSTANCE, LIQUID / SOLID, N.O.S.						T	
840	ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE	F						
841	EPIBROMOHYDRIN						T	
842	EPICHLOROHYDRIN	F					T	
843	EPN						T	
844	EPOXYPROPANE, 1,2						T	
845	ERGOCALCIFEROL						T	
846	ERGOTAMINE TARTARATE						T	
847	ESTERS, N.O.S.	F						
848	ETHANE							G
849	ETHANE, REFRIGERATED LIQUID							G
850	ETHANESULFENYL CHLORIDE, 2 CHLORO							G
851	ETHANOL 1-2 DICHLORACETATE						T	
852	ETHANOL OR ETHANOL SOLUTION	F						
853	ETHANOLAMINE or ETHANOLAMINE SOLUTION				C			
854	ETHERS, N.O.S.	F						
855	ETHION						T	
856	ETHOPROPHOS						T	
857	ETHYL 2-CHLOROPROPIONATE	F						
858	ETHYL ACETATE	F						
859	ETHYL ACRYLATE, STABILIZED	F						
860	ETHYL ALCOHOL	F						
861	ETHYL AMINE						T	G
862	ETHYL AMYL KETONE	F						
863	ETHYL BENZENE						T	G
864	ETHYL BIS AMINE						T	G
865	ETHYL BORATE	F						
866	ETHYL BROMIDE						T	

867	ETHYL BROMOACETATE							T	
868	ETHYL BUTYL ETHER	F							
869	ETHYL BUTYRATE	F							
870	ETHYL CARBAMATE							T	
871	ETHYL CHLORIDE							T	G
872	ETHYL CHLOROACETATE							T	
873	ETHYL CHLOROFORMATE							T	
874	ETHYL CHLOROTHIOFORMATE					C			
875	ETHYL CROTONATE	F							
876	ETHYL ETHER	F							
877	ETHYL FLUORIDE (REFRIGERANT GAS R 161)								G
878	ETHYL ISOBUTYRATE	F							
879	ETHYL ISOCYANATE	F							
880	ETHYL LACTATE	F							
881	ETHYL MERCAPTAN	F						T	
882	ETHYL MERCURIC PHOSPHATE							T	
883	ETHYL METHACRYLATE	F							
884	ETHYL METHYL ETHER								G
885	ETHYL METHYL KETONE (METHYL ETHYL KETONE)	F							
886	ETHYL NITRATE	E			R			T	
887	ETHYL ORTHOFORMATE	F							
888	ETHYL OXALATE							T	
889	ETHYL PROPIONATE	F							
890	ETHYL PROPYL ETHER	F							
891	ETHYL THIOCYANATE							T	
892	ETHYLACETYLENE, STABILIZED								G
893	ETHYLAMINE								G
894	ETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION	F							
895	ETHYLBENZENE	F							
896	ETHYLDICHLOROARSINE							T	
897	ETHYLDICHLOROSILANE	F							
898	ETHYLENE								G
899	ETHYLENE CHLOROHYDRIN							T	
900	ETHYLENE CHLOROHYDRINE							T	
901	ETHYLENE DI CHLORIDE							T	
902	ETHYLENE DIAMINE	F			C				
903	ETHYLENE DIAMINE HYDROCHLORIDE							T	
904	ETHYLENE DIBROMIDE							T	
905	ETHYLENE DIBROMIDE(1,2-DIBROMOMETHANE)							T	
906	ETHYLENE DICHLORIDE	F							
907	ETHYLENE FLOUROHYDRINE							T	
908	ETHYLENE GLYCOL							T	
909	ETHYLENE GLYCOL DINITRATE	E						T	
910	ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER	F							
911	ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATE	F							
912	ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER	F							
913	ETHYLENE GLYOL DIETHYL ETHER	F							
914	ETHYLENE OXIDE	E			R			T	
915	ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE								G
916	ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE								G

917	ETHYLENE OXIDE AND CHLOROTETRAFLUOROETHANE MIXTURE							G
918	ETHYLENE OXIDE AND DICHLORODIFLUOROMETHANE MIXTURE							G
919	ETHYLENE OXIDE AND PENTRAFLUOROETHANE MIXTURE							G
920	ETHYLENE OXIDE AND PROPYLENE OXIDE MIXTURE	F						
921	ETHYLENE OXIDE AND TETRAFLUOROETHANE MIXTURE							G
922	ETHYLENE OXIDE OR TEHYLENE OXIDE WITH NITROGEN							G
923	ETHYLENE, ACETYLENE AND PROPYLENE MIXTURE, REFRIGERATED LIQUID							G
924	ETHYLENE, COMPRESSED							G
925	ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID							G
926	ETHYLENEAMINE	F					T	
927	ETHYLENEDIAMINE				C			
928	ETHYLPHENYLDICHLOROSILANE				C			
929	ETHYLTHIOCYANATE						T	
930	ETHYLTRICHLOROSILANE	F						
931	EXPLOSIVE, BLASTING TYPE E	E						
932	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A	E	O					
933	EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B	E			C	Ra		
934	FERRIC ARSENATE						T	
935	FERRIC ARSENITE						T	
936	FERRIC CHLORIDE SOLUTION				C			
937	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS				C			
938	FERRIC NITRATE		O					
939	FERROUS ARSENATE						T	
940	FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTINGS	F						
941	FIRE EXTINGUISHER CHARGES							
942	FIRELIGHTERS, SOLID	F						
943	FIREWORKS	E						
944	FLAMMABLE LIQUID CORROSIVE, N.O.S.	F						
945	FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.						T	
946	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.	F						
947	FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.	F						
948	FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	F						
949	FLAMMABLE SOLID, IORGANIC, N.O.S.	F						
950	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.	F						
951	FLAMMABLE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	F						
952	FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.	F						
953	FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.	F						
954	FLUENETIL						T	
955	FLUORIDE						T	
956	FLUORINE						T	
957	FLUORINE, COMPRESSED							G
958	FLUORO 2-HYDROXY BUTYRIC ACID AMID SALT ESTER						T	
959	FLUORO, -4, -2-HYDROXYBUTYRIC ACID & SALTS ESTERS. AMIDES						T	
960	FLUOROACETIC ACID						T	
961	FLUOROANILINES						T	

962	FLUOROBENZENE		F						
963	FLUOROBORIC ACID					C			
964	FLUOROCOBUTYRIC ACID & SALTS, ESTERS AMIDES							T	
965	FLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS					C			
966	FLUROSILIC ACID					C			
967	FLUROSILICATES, N.O.S.							T	
968	FLUROSULPHONIC ACID					C			
969	FLUROTOLUENES		F						
970	FLUROACETIC ACIDE AND SALTS ESTERS AND AMIDES							T	
971	FLUROBUTYRIC ACID,-4 AND SALTS,ESTERS AND AMIDES							T	
972	FLUROCROTONIC ACID,-4 AND SALTS,ESTERS AND AMIDES							T	
973	FOG-SIGNALS	E							
974	FORMALDEHYDE							T	
975	FORMALDEHYDE SOLUTION					C			
976	FORMALEDEHYDE SOLUTION, FLAMMBILE		F						
977	FORMATENATE HYDROCHLORIDE							T	
978	FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE		F						
979	FUMARYL CHLORIDE					C			
980	FURALDEHYDES							T	
981	FURAN		F						
982	FURFURAL							T	
983	FURFURYL ALCOHOL							T	
984	FURFURLAMINE		F						
985	FUSEL OIL		F						
986	FUSES	E							
987	GALLIUM					C			
988	GALLIUM TRICHLORIDE							T	
989	GAS OIL OR DIESEL FUEL OR HEATING OIL LIGHT		F						
990	GAS, REFRIGERATED LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.								G
991	GAS, REFRIGERATED LIQUID, N.O.S.								G
992	GAS, REFRIGERATED LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.								G
993	GLYCEROL alpha-MONOCHLOROHYDRIN							T	
994	GLYCIDALDEHYDE		F						
995	GLYCONITRILE (HYDROXYACETONITRILE)							T	
996	GUANIDINE NITRATE			O					
997	GUANYL NITROSAMINO GUANYLIDENE HYDRAZINE, WETTED	E							
998	GUANYL NITROSAMINO GUANYLTETRAZENE (TETRAZENE) WETTED	E							
999	GUANYL, -1, -4 NITROSAMINO GUNYL-1- TETRAZENE	E							
1000	GUN-COTTON	E							
1001	GUNPOWDER	E							
1002	HAFNIUM POWER, DRY		F						
1003	HELIUM, REFRIGERATED LIQUID								G
1004	HEPTACHLOR	E						T	
1005	HEPTAFLUOROROPANE (REFRIGERANT GAS R 227)								G
1006	HEPTANES		F						
1007	HEXA METHYL TERTA-OXYACYCLONONATE (CONC 75%)							T	
1008	HEXABUTRODIPHENYLAMINE	E							

1009	HEXACHLORO CYCLOPENTADIENE						T	
1010	HEXACHLOROACETONE						T	
1011	HEXACHLOROBENZENE						T	
1012	HEXACHLOROBUTADIENE						T	
1013	HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN,-1,2,3,7,8,9, HEXAMETHYLPHOSPHORAMIDE						T	
1014	HEXACHLOROPHENE						T	
1015	HEXADECYLTRICHLOROSILANE				C			
1016	HEXADIENE	F						
1017	HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE						T	
1018	HEXAFLUOROPROPYLENE							G
1019	HEXAMETHYL PHOSPHOROAMIDE						T	
1020	HEXAMETHYL, -3,3,6,6,9,9,-1,2,4,5,- TETROXACYCLONONANE			R				
1021	HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE						T	
1022	HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION				C			
1023	HEXAMETHYLENEDIAMINE, SOLID				C			
1024	HEXAMETHYLENEIMINE	F						
1025	HEXAMETHYLENETETRAMINE	F						
1026	HEXAMETHYLPHOSPHORAMIDE						T	
1027	HEXANES	F						
1028	HEXANITROSTILBENE	E						
1029	HEXANITROSTILBENE- 2,2,4,6,6	E						
1030	HEXANOLS	F						
1031	HEXAVALENT CHROMIUM						T	
1032	HEXENE	F						
1033	HEXOTONAL	E						
1034	HEXYLTRICHLOROSILANE				C			
1035	HYDRAZINE	F					T	
1036	HYDRAZINE NITRATE	E						
1037	HYDRAZINE, ANHYDROUS				C			
1038	HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION						T	
1039	HYDRAZINE, HYDRATE or HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION				C			
1040	HYDRIODIC ACID				C			
1041	HYDROBROMIC ACID				C			
1042	HYDROCARBON GAS MIXTURE, COMPRESSED, N.O.S.							G
1043	HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S.							G
1044	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.	F						
1045	HYDROCHLORIC ACID				C			
1046	HYDROCHLORIC ACID (GAS)						T	
1047	HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION (HYDROGEN CYANIDE, AQUEOUS SOLUTION)						T	
1048	HYDROFLUORIC ACID				C		T	
1049	HYDROFLUORIC ACID AND SULPHURIC ACID MIXTURE				C			
1050	HYDROGEN	F		R				
1051	HYDROGEN BROMIDE, ANHYDROUS							G
1052	HYDROGEN AND METHANE MIXTURE, COMPRESSED							G
1053	HYDROGEN BROMIDE						T	
1054	HYDROGEN BROMIDE (HYDROBROMIC ACID)				C		T	
1055	HYDROGEN CHLORIDE (LIQUIFIED GAS)				C		T	

1056	HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS							G
1057	HYDROGEN CHLORIDE, REFRIGERATED LIQUID							G
1058	HYDROGEN CYANIDE						T	
1059	HYDROGEN CYANIDE, SOLUTION IN ALCOHOL						T	
1060	HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED						T	
1061	HYDROGEN FLUORIDE				C		T	
1062	HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS				C			
1063	HYDROGEN IODIDE, ANHYDROUS							G
1064	HYDROGEN PEROXIDE		O					
1065	HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE		O					
1066	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION		O					
1067	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION		O					
1068	HYDROGEN PEROXIDE, STABILIZED or HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, STABILIZED		O					
1069	HYDROGEN SELENIDE						T	
1070	HYDROGEN SELENIDE, ANHYDROUS							G
1071	HYDROGEN SULPHIDE	F					T	G
1072	HYDROGEN, REFRIGERATED LIQUID							G
1073	HYDROGEN DIFLUORIDES, N.O.S.				C			
1074	HYDROQUINONE						T	
1075	HYDROXYLAMINE SULPHATE				C			
1076	HYPOCHLORITE SOLUTION				C			
1077	HYPOCHLORITES, INORGANIC, N.O.S.		O					
1078	INDENE						T	
1079	INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS						T	
1080	INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS						T	
1081	INSECTICIDE GAS, FLAMMABLE, N.O.S.							G
1082	INSECTICIDE GAS, N.O.S.							G
1083	INSECTICIDE GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.							G
1084	INSECTICIDE GAS, TOXIC, N.O.S.							G
1085	IODINE						T	
1086	IODINE MONOCHLORIDE				C			
1087	IODINE PENTAFLUORIDE		O					
1088	IODOMETHYLPROPANES	F						
1089	IODOPROPANES	F						
1090	IRIDIUM TETRACHLORIDE						T	
1091	IRON PENTACARBONYL						T	
1092	ISOBENZAN						T	
1093	ISOBUTANE							G
1094	ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL)	F						
1095	ISOBUTYL CHLORIDE	F						
1096	ISOBUTYL ACETATE	F						
1097	ISOBUTYL ACRYLATE, STABILIZED	F						
1098	ISOBUTYL ALCOHOL							
1099	ISOBUTYL FORMATE	F						
1100	ISOBUTYL ISOBUTYRATE	F						
1101	ISOBUTYL ISOCYANATE	F						
1102	ISOBUTYL METHACRYLATE, STABILIZED	F						
1103	ISOBUTYL PROPANE	F						
1104	ISOBUTYLENE							G

1105	ISOBUTYRALDEHYDE (ISOBUTYL ALDEHYDE)	F						
1106	ISOBUTYRIC ACID	F						
1107	ISOBUTYRO NITRILE							
1108	ISOBUTYRONITRILE	F						
1109	ISOCYANATES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	F						
1110	ISOCYANATES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.						T	
1111	ISOCYANATES, TOXIC, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S.						T	
1112	ISOCYANATOBENZOTRIFLUORIDES						T	
1113	ISOCYANIC ACID 3 4-DICHLOROPHENYL ESTER						T	
1114	ISODRIN						T	
1115	ISOFLUOROPHOSPHATE						T	
1116	ISOHEPTENE	F						
1117	ISOHEXENE							
1118	ISOOCTENE	F						
1119	ISOPENTENES	F						
1120	ISOPHORONE DIISOCYANATE						T	
1121	ISOPHORONE DISOCYLANATE						T	
1122	ISOPHORONEDIAMINE				C			
1123	ISOPROPENYL ACETATE	F						
1124	ISOPROPENYLBENZENE	F						
1125	ISOPROPL FORMATE						T	
1126	ISOPROPYL 2-CHLOROPROPIONATE	F						
1127	ISOPROPYL ACETATE	F						
1128	ISOPROPYL ACID PHOSPHATE				C			
1129	ISOPROPYL ALCOHOL	F						
1130	ISOPROPYL BUTYRATE	F						
1131	ISOPROPYL CHLOROACETATE	F						
1132	ISOPROPYL CHLOROCARBONATE				C			
1133	ISOPROPYL CHLOROFORMATE						T	
1134	ISOPROPYL ETHER	F						
1135	ISOPROPYL ISOBUTYRATE	F						
1136	ISOPROPYL ISOCYANATE	F						
1137	ISOPROPYL METHYL PYRAZOLYL DIMETHYL CARBONATE						T	
1138	ISOPROPYL PROPIONATE	F						
1139	ISOPROPYLAMINE	F			C			
1140	ISOPROPYLBENZENE	F						
1141	ISOPROPANLE (ISOPROPYL ALCOHOL)	F						
1142	ISOSORBIDE DINITRATE MIXTURE	F						
1143	ISOSORBIDE-5-MONONITRATE	F						
1144	JUGLONE (5-HYDROXYNAPHTHALENE-1, 4-DIONE)						T	
1145	JUGLONE(5-HYDROXY NAPHTHALENE-DIONE)						T	
1146	KEROSENE	F						
1147	KETENE						T	
1148	KETONES, LIQUID, N.O.S.	F						
1149	KRYPTON, REFRIGERATED LIQUID							G
1150	LACTONITRILE						T	
1151	LEAD (INORGANIC FUMES & DUSTS)						T	

1152	LEAD 2,4,6-TRINITRORESORCINOXIDE (LEAD STYPHNATE)	E							
1153	LEAD ACETATE								
1154	LEAD ARSENATES								
1155	LEAD ARSENITE								
1156	LEAD ARSENITES							T	
1157	LEAD AZIDE							T	
1158	LEAD AZIDE, WETTED	E							
1159	LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S.							T	
1160	LEAD CYANIDE							T	
1161	LEAD DIOXIDE			O					
1162	LEAD NITRATE			O					
1163	LEAD PERCHLORATE			O					
1164	LEAD PHOSPHITE, DIBASIC	F							
1165	LEAD STYPHNATE (LEAD TRINITRORESORCINATE), WETTED	E							
1166	LEAD SULPHATE					C			
1167	LINDANE							T	
1168	LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.								G
1169	LIQUEFIED GAS, N.O.S.								G
1170	LIQUEFIED GAS, OXIDIZING, N.O.S.								G
1171	LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.								G
1172	LIQUEFIED GAS, TOXIC, N.O.S.								G
1173	LIQUIFIED PETROLEUM GAS	F							
1174	LIQUEFIED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.								G
1175	LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE N.O.S.								G
1176	LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.								G
1177	LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.								G
1178	LITHIUM	F							
1179	LITHIUM ALKYLs	F							
1180	LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE	F							
1181	LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE, ETHEREAL	F							
1182	LITHIUM BOROHYDRIDE	F							
1183	LITHIUM FERROSILICON	F							
1184	LITHIUM HYDRIDE	F							
1185	LITHIUM HYDRIDE, FUSED SOLID	F							
1186	LITHIUM HYDROXIDE MONOHYDRATE					C			
1187	LITHIUM HYDROXIDE SOLUTION					C			
1188	LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY OR LITHIUM HYPOCHLORITE MIXTURE			O					
1189	LITHIUM NITRATE			O					
1190	LITHIUM NITRIDE	F							
1191	LITHIUM PEROXIDE			O					
1192	LITHIUM SILICON	F							
1193	LONDON PURPLE							T	
1194	MAGNESIUM ALKYLs	F							
1195	MAGNESIUM ALUMINIUM PHOSPHIDE	F							
1196	MAGNESIUM ARSENATE							T	
1197	MAGNESIUM BROMATE			O					
1198	MAGNESIUM CHLORATE			O					

1199	MAGNESIUM DIAMIDE	F						
1200	MAGNESIUM DIPHENYL	F						
1201	MAGNESIUM FLUOROSILICATE						T	
1202	MAGNESIUM GRANULES, COATED	F						
1203	MAGNESIUM HYDRIDE	F						
1204	MAGNESIUM NITRATE		O					
1205	MAGNESIUM or MAGNESIUM ALLOYS	F						
1206	MAGNESIUM PERCHLORATE		O					
1207	MAGNESIUM PEROXIDE		O					
1208	MAGNESIUM PHOSPHIDE	F						
1209	MAGNESIUM POWDER OR MAGNESIUM ALLOYS POWDER	F						
1210	MAGNESIUM POWDER OR RIBBON		O					
1211	MAGNESIUM SILICIDE	F						
1212	MALEIC ANHYDRIDE				C			
1213	MALEIL ANHYDRIDE						T	
1214	MALONONITRILE						T	
1215	MALTEL ANHYDRIDE						T	
1216	MANAGANESE AND COMPOUNDS						T	
1217	MANEB or MANEB PREPARATION	F						
1218	MANEB, STABILIZED or MANEB PREPARATION, STABILIZED	F						
1219	MANGANESE NITRATE		O					
1220	MANGANESE RESINATE	F						
1221	MANGANESE TRICARBONYL CYCLOPENTADIENE				C			
1222	MANNITOL HEXANITRATE (NITROMANNITE) WETTED	E						
1223	MATCHES, FUSEE	F						
1224	MATCHES, SAFETY	F						
1225	MATCHES, STRIKE ANYWHERE	F						
1226	MATCHES, WAS 'VESTA'	F						
1227	MECHLOR ETHAMINE						T	
1228	MEDICINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.	F						
1229	MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.						T	
1230	MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S.						T	
1231	MEPHOSPHOLAN						T	
1232	MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	F						
1233	MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. OR MERCAPTAN MIXTURE	F						
1234	MERCAPTANS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. or MERCAPTAN, MIXTURE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.						T	
1235	MERCAPTO BENZOTHAZOLE						T	
1236	MERCURIC ACETATE						T	
1237	MERCURIC ARSENATE						T	
1238	MERCURIC CHLORIDE						T	
1239	MERCURIC NITRATE						T	
1240	MERCURIC OXIDE						T	
1241	MERCURIC POTASSIUM CYANIDE						T	
1242	MERCUROUS NITRATE						T	
1243	MERCURY				C			

1244	MERCURY ACETATE								
1245	MERCURY ALKYL		O						
1246	MERCURY AMMONIUM CHLORIDE								
1247	MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE TOXIC	F							
1248	MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC								
1249	MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE								
1250	MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC								
1251	MERCURY BENZOATE								
1252	MERCURY BROMIDES								
1253	MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.								
1254	MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.								
1255	MERCURY CYANIDE								
1256	MERCURY FULMINATE	E							
1257	MERCURY GLUCONATE								
1258	MERCURY IODIDE								
1259	MERCURY METHYL								
1260	MERCURY METHYL CHLORIDE								
1261	MERCURY NUCLEATE								
1262	MERCURY OLEATE								
1263	MERCURY OXIDE								
1264	MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED								
1265	MERCURY POTASSIUM IODIDE								
1266	MERCURY SALICYLATE								
1267	MERCURY SULPHATE								
1268	MERCURY THIOCYANATE								
1269	METAL ALKYL HALIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S.or METAL ARYL HALIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S.	F							
1270	METAL ALKYL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S.or METAL ARYL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S.	F							
1271	METAL ALKYLs, WATER-REACTIVE, N.O.S.or METAL ARYLS, WATER-REACTIVE, N.O.S.	F							
1272	METAL CARBONYLS, N.O.S.							T	
1273	METAL CATALYST, DRY	F							
1274	METAL CATALYST, WETTED	F							
1275	METAL HYDRIDES, FLAMMABLE, N.O.S.	F							
1276	METAL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S.	F							
1277	METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S.	F							
1278	METAL POWDER, SELF-HEATING, N.O.S.	F							
1279	METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.	F							
1280	METALDEHYDE	F							
1281	METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S.	F							
1282	METHACROLEIN DIACETATE	F							
1283	METHACRYLALDEHYDE, STABILIZED	F							
1284	METHACRYLIC ACID, STABILIZED								
1285	METHACRYLIC ANHYDRIDE								
1286	METHACRYLONITRILE								
1287	METHACRYLONITRILE, STABILIZED	F							
1288	METHACRYLOYL CHLORIDE								

1289	METHACRYLOYL OXYETHYL ISOCYANATE							T	
1290	METHALLYL ALCOHOL	F							
1291	METHAMIDOPHOS							T	
1292	METHANE								G
1293	METHANE, COMPRESSED or NATURAL GAS, COMPRESSED								G
1294	METHANE, REFRIGERATED LIQUID or NATURAL GAS, REFRIGERATED LIQUID								G
1295	METHANESULPHONYL CHLORIDE							T	
1296	METHANESULPHONYL FLUORIDE							T	
1297	METHANIDOPHOS							T	
1298	METHANOL	F							
1299	METHANTHIOL							T	
1300	METHIDATHION							T	
1301	METHIOCARB							T	
1302	METHONYL							T	
1303	METHOXY ETHANOL							T	
1304	METHOXY ETHANOL(2-METHYL CELLOSOLVE)							T	
1305	METHOXYETHYL MERCURIC ACETATE							T	
1306	METHOXYMETHYL ISOCYANATE	F							
1307	METHYARYLOL CHLORIDE							T	
1308	METHYL 2-CHLOROACRYLATE							T	
1309	METHYL 2-CHLOROPROPIONATE	F							
1310	METHYL ACETATE	F							
1311	METHYL ACRYLATE	F						T	
1312	METHYL ACRYLATE, STABILIZED	F							
1313	METHYL ALCOHOL	F							
1314	METHYL AMINE	F							
1315	METHYL AMYLKETONE					C			
1316	METHYL BROMIDE								G
1317	METHYL BROMIDE (BROMOMETHANE)							T	
1318	METHYL BROMIDE AND ETHYLENE DIBROMIDE MIXTURE, LIQUID							T	
1319	METHYL BROMOACETATE	F							
1320	METHYL BUTYRATE	F							
1321	METHYL CHLORIDE							T	G
1322	METHYL CHLORIDE AND METHYLENE CHLORIDE MIXTURE								G
1323	METHYL CHLOROACETATE							T	
1324	METHYL CHLOROFORM	F						T	
1325	METHYL CHLOROFORMATE							T	
1326	METHYL CHLOROMETHYL ETHER							T	
1327	METHYL CYCLOHEXANE	F							
1328	METHYL CYCLOHEXENE	F							
1329	METHYL DICHLOROACETATE							T	
1330	METHYL DISULPHIDE							T	
1331	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE					R			
1332	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE (CONC.60%)							T	
1333	METHYL FORMATE	F							
1334	METHYL FLUORIDE (REFRIGERANT GAS R 41)								G
1335	METHYL HYDRAZINE								

1336	METHYL IODIDE							T	
1337	METHYL ISOBUTYL CARBINOL	F							
1338	METHYL ISOBUTYL KETONE	F							
1339	METHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE			R					
1340	METHYL ISOCYANATE	F						T	
1341	METHYL ISOPROPENYL KETONE, STABILIZED	F							
1342	METHYL ISOTHIOCYANATE							T	
1343	METHYL ISOVALERATE	F							
1344	METHYL MAGNESIUM BROMIDE IN ETHYL ETHER	F							
1345	METHYL MERCURIC DICYANAMIDE							T	
1346	METHYL MERCAPTAN								G
1347	METHYL METHACRYLATE	F							
1348	METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED	F							
1349	METHYL -N, 2,4,6,6-TETRANITROANILINE							T	
1350	METHYL NITRITE								G
1351	METHYL ORTHOSILICATE							T	
1352	METHYL PARATHION							T	
1353	METHYL PHENCAPTON							T	
1354	METHYL PHOSPHONIC DICHLORIDE							T	
1355	METHYL PHOSPHONIC DICHLORIDE							T	
1356	METHYL PROPIONATE	F							
1357	METHYL PROPYL ETHER	F							
1358	METHYL PROPYL KETONE	F							
1359	METHYL STYRENE	F						T	
1360	METHYL tert-BUTYL ETHER	F							
1361	METHYL THIOCYANATE							T	
1362	METHYL TRICHLOROACETATE							T	
1363	METHYL TRICHLOROSILANE							T	
1364	METHYL VINYL KETONE							T	
1365	METHYL VINYL KETONE, STABILIZED							T	
1366	METHYLALLYL CHLORIDE	F							
1367	METHYLAMINE, ANHYDROUS								G
1368	METHYLAMYL ACETATE	F							
1369	METHYLCHLOROSILANE								G
1370	METHYLCYCLOHEXANE	F							
1371	METHYLCYCLOHEXANOL	F							
1372	METHYLCYCLOHEXANONE	F							
1373	METHYLCYCLOPENTANE	F							
1374	METHYLDICHLOROSILANE	F							
1375	METHYLENE BIS(2-CHLOROANILINE)							T	
1376	METHYLENE CHLORIDE							T	
1377	METHYLENEBIS, -4, 4, (2, -CHLOROANILINE)							T	
1378	METHYLHYDRAZINE							T	
1379	METHYLISOBUTYL KETONE							T	
1380	METHYLPENTADIENE	F							
1381	METHYLPHENYLDICHLOROSILANE				C				
1382	METHYLTETRAHYDROFURAN	F							
1383	METHYLTRICHLOROSILANE	F							
1384	METHYOL ISODYANATE	F						T	
1385	MEVINPHOS							T	
1386	MOLYBDENUM AND COMPOUNDS							T	

1387	MOLYBDENUM PENTACHLORIDE					C			
1388	MOLYBDENUM POWDER							T	
1389	MONOCROTOPHOS							T	
1390	MORPHOLINE		F			C			
1391	MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE							T	
1392	MOTOR SPIRIT OR GASOLINE OR PETROL		F						
1393	MUSTARD GAS							T	
1394	N, N-DIETHYLETHYLENEDIAMINE					C			
1395	N, N-DIMETHYLFORMAMIDE		F						
1396	N, N-DIMETHYLANILINE							T	
1397	N-AMINOETHYLPIPERAZINE					C			
1398	NAPHTHA	E	F						
1399	NAPHTHA SOLVENT	E	F						
1400	NAPHTHALENE, CRUDE OR NAPHTHALENE, REFINED		F						
1401	NAPHTHALENE, MOLTEN		F						
1402	NAPHTHYL AMINE							T	
1403	NAPHTHYLUREA							T	
1404	NAPHTHA (COAL TAR)		F						
1405	NAPHTHALENE							T	
1406	NAPHTHYLAMINE, -2							T	
1407	N-BUTYL ACETATE							T	
1408	N-BUTYL ALCOHOL		F					T	
1409	N-BUTYL CHLOROFORMATE							T	
1410	N-BUTYL FORMATE		F						
1411	N-BUTYL ISOCYANATE							T	
1412	N-BUTYL METHACRYLATE, STABILIZED		F						
1413	N-BUTYLANILINE							T	
1414	N-BUTYLIMIDAZOLE							T	
1415	N-DECANE		F						
1416	N-DIETHYLANILINE							T	
1417	N-DINITROBENZENE							T	
1418	NEON, REFRIGERATED LIQUID								G
1419	N-ETHYLANILINE							T	
1420	N-ETHYLBENZYL TOLUIDINES, LIQUID /SOLID							T	
1421	N-ETHYL-N-BENZYLANILINE							T	
1422	N-ETHYL TOLUIDINES							T	
1423	N-HEPTALDEHYDE		F						
1424	N-HEPTENE		F						
1425	N-HEXANE		F						
1426	NICKEL AND COMPOUNDS							T	
1427	NICKEL CARBONYL/NICKEL TETRACARBONYL							T	
1428	NICKEL CYANIDE							T	
1429	NICKEL NITRATE			O					
1430	NICKEL NITRITE			O					
1431	NICKEL POWDER							T	
1432	NICKEL TETRACARBONYL		F					T	
1433	NICOTINE							T	
1434	NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S.							T	
1435	NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S.							T	

1436	NICOTINE HYDROCHLORIDE, liquid or NICOTINE HYDRYCHLORIDE SOLUTION							T	
1437	NICOTINE HYDROCHLORIDE, solid							T	
1438	NICOTINE SALICYLATE							T	
1439	NICOTINE SULPHATE							T	
1440	NICOTINE SULPHATE, SOLID								
1441	NICOTINE SULPHATE, SOLUTION							T	
1442	NICOTINE TARTRATE							T	
1443	NIRIC OXIDE, COMPRESSED								G
1444	NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			O					
1445	NITRATES, INORGANIC, N.O.S.			O					
1446	NITRATING ACID MIXTURE					C			
1447	NITRATING ACID MIXTURE, SPENT					C			
1448	NITRIC ACID					C			
1449	NITRIC ACID AND DINITROGEN TETROXIDE MIXTURE (NITRIC OXIDE AND NITROGEN DIOXIDE MIXTURE)								G
1450	NITRIC ACID, RED FUMING					C			
1451	NITRIC OXIDE							T	
1452	NITRILES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.		F						
1453	NITRILES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.							T	
1454	NITRILES, TOXIC, N.O.S.							T	
1455	NITRITES, IINORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.			O					
1456	NITRITES, INORGANIC, N.O.S.			O					
1457	NITRO UREA	E							
1458	NITROANILINE-O							T	
1459	NITROANILINE-P							T	
1460	NITROANILINES							T	G
1461	NITROANISOLES, LIQUID / SOLID							T	
1462	NITROBENZENE							T	
1463	NITROBENZENESULPHONIC ACID					C			
1464	NITROBENZOTRIFLUORIDES							T	
1465	NITROBROMOBENZENES, LIQUID							T	
1466	NITROCELLULOSE	E							
1467	NITROCELLULOSE MEMBRANE FILTERS		F						
1468	NITROCELLULOSE MIXTURE WITH OR WITHOUT PLASTICIZER, WITH OR WITHOUT PIGMENT		F						
1469	NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE		F						
1470	NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL		F						
1471	NITROCELLULOSE WITH WATER		F						
1472	NITROCELLULOSE(DRY)	E							
1473	NITROCHLOROBENZENE							T	
1474	NITROCHLOROBENZENE-P							T	
1475	NITROCREOLS							T	
1476	NITROCYCLOHEXANE							T	
1477	NITROETHANE		F					T	
1478	NITROGEN								G
1479	NITROGEN DIOXIDE							T	
1480	NITROGEN OXIDE							T	G
1481	NITROGEN OXIDES							T	
1482	NITROGEN TRIFLUORIDE							T	G
1483	NITROGEN TRIFLUORIDE, COMPRESSED								G

1484	NITROGEN TRIOXIDE							G
1485	NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID							G
1486	NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED SOLID, N.O.S.	F						
1487	NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENTIZED LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	F						
1488	NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENTIZED, LIQUID, N.O.S.	F						
1489	NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL	E						
1490	NITROGLYCERIN, SOLUTION IN ALCOHOL	F						
1491	NITROGLYCERINE	E					T	
1492	NITROGUANIDINE (PICRITE)	F						
1493	NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL	F						
1494	NITROHYDROCHLORIC ACID				C			
1495	NITROMETHANE	F						
1496	NITRONAPHTHALENE	F						
1497	NITROPHENOL-P						T	
1498	NITROPHENOLS						T	
1499	NITROPROPANE-1	F						
1500	NITROPROPANE-2	F						
1501	NITROPROPANES	F						
1502	NITROSO DIMETHYL AMINE						T	
1503	NITROSTARCH	E						
1504	NITROSTARCH, WETTED	F						
1505	NITROSYL CHLORIDE							G
1506	NITROSYLSULPHURIC ACID, LIQUID / SOLID				C			
1507	NITROTOLUENE						T	
1508	NITROTOLUENES, LIQUID						T	
1509	NITROTOLUIDINES (MONO)						T	
1510	NITROUS OXIDE							G
1511	NITROUS OXIDE, REFRIGERATED LIQUID							G
1512	NITROXYLENES, LIQUID						T	
1513	N-METHYLANILINE						T	
1514	N-METHYLBUTYLAMINE	F						
1515	N-METHYL-N,2,4,6-TETRANITROANILINE	E						
1516	NONANES	F						
1517	NONYLTRICHLOROSILANE				C			
1518	n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL)	F						
1519	n-PROPYL ACETATE	F						
1520	n-PROPYL CHLOROFORMATE						T	
1521	n-PROPYL ISOCYANATE						T	
1522	-n-PROPYL NITRATE	F						
1523	n-PROPYLBENZENE	F						
1524	OCTADECYLTRICHLOROSILANE				C			
1525	OCTADIENE	F						
1526	OCTAFLUOROBT (REFRIGERANT GAS R 218)							G
1527	OCTAFLUOROBUT-2-ENE (REFRIGERANT GAS R 1318)							G
1528	OCTAFLUOROCYCLOBUTANE (REFRIGERANT GAS RC 318)							G
1529	OCTANES	F						
1530	OCTYL ALDEHYDES	F						
1531	OCTYLTRICHLOROSILANE				C			

1532	o-DICHLOROBENZENE							T	
1533	OLEUM					C			
1534	O-NITRO TOLUENE	E							
1535	OO DIETHYL S ETHYL SUPH.METHYL PHOS							T	
1536	OO DIETHYL S ETHYLSULPHINYLMETHYLPHOSPHOROTHIOATE							T	
1537	OO DIETHYL S ETHYLTHIOMETHYL PHOSPHOROTHIOATE							T	
1538	OO-DIETHYL S-ISOPROPYLTHIOMETHYL PHOSPHOROTHIOATE							T	
1539	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID			O					
1540	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED			O					
1541	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID			O					
1542	ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED			O					
1543	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID			O					
1544	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED			O					
1545	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID			O					
1546	ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED			O					
1547	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID			O					
1548	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED			O					
1549	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID			O					
1550	ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED			O					
1551	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID			O					
1552	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED			O					
1553	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID			O					
1554	ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED			O					
1555	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID			O					
1556	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED			O					
1557	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID			O					
1558	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED			O					
1559	ORGANIC PIGMENTS, SELF-HEATING	F							
1560	ORGANO RHODIUM COMPLEX							T	
1561	ORGANOARSENIC COMPOUND, N.O.S.							T	
1562	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	F							
1563	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC							T	
1564	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE							T	
1565	ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC							T	

1566	ORGANOMETALLIC COMPOUND or COMPOUND SOLUTION or COMPOUND DISPERSION, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, NOS	F							
1567	ORGANOMETALLIC COMPOUND, TOXIC, N.O.S.							T	
1568	ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.							T	
1569	ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, N.O.S.							T	
1570	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	F							
1571	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE SOLID, TOXIC							T	
1572	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC							T	
1573	ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE							T	
1574	ORGANOTIN COMPOUND LIQUID, N.O.S.							T	
1575	ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.							T	
1576	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	F							
1577	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC							T	
1578	ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE							T	
1579	ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC							T	
1580	OROTIC ACID							T	
1581	OSMIUM TETROXIDE							T	
1582	O-TOLUDINE							T	
1583	OXETANE, 3,3-BIS(CHLOROMETHYL)							T	
1584	OXIDIPHENOXARSINE							T	
1585	OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.		O						
1586	OXIDIZING LIQUID, N.O.S.		O						
1587	OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.		O						
1588	OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.		O						
1589	OXIDIZING SOLID, FLAMMABLE N.O.S.		O						
1590	OXIDIZING SOLID, N.O.S.		O						
1591	OXIDIZING SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.		O						
1592	OXIDIZING SOLID, TOXIC N.O.S.		O						
1593	OXIDIZING SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.		O						
1594	OXYDISULFON							T	
1595	OXYGEN (LIQUID)		O						G
1596	OXYGEN DIFLUORIDE							T	
1597	OXYGEN DIFLUORIDE, COMPRESSED								G
1598	OXYGEN GENERATOR, CHEMICAL		O						
1599	OXYGEN(LIQUID)		O						
1600	O-XYLENE	F				C			
1601	OZONE		O	R				T	
1602	PAINT or PAINT RELATED MATERIAL					C			
1603	PARAFFIN	F							
1604	PARAFORMALDEHYDE	F						T	
1605	PARAOXON(DIETHYL 4 NITROPHENYL PHOSPHATE)							T	
1606	PARAQUATE METHOSULPHATE							T	
1607	PARATHION							T	
1608	PARATHION METHYL							T	
1609	PARIS GREEN							T	
1610	PAROXON (DIETHYL 4-NITROPHENYL PHOSPHATE)							T	

1611	PENSULFOTHION						T	
1612	PENTA BORANE	F					T	
1613	PENTA CHLORO ETHANE						T	
1614	PENTA CHLORO PHENOL						T	
1615	PENTABORANE						T	
1616	PENTABROMODIPHENYL OXIDE						T	
1617	PENTABROMOPHENOL						T	
1618	PENTACHLORO NAPHTHALENE						T	
1619	PENTACHLORO NAPHTHALENE						T	
1620	PENTACHLOROETHANE						T	
1621	PENTACHLOROPHENOL						T	
1622	PENTADECYL-AMINE				C			
1623	PENTAERYTHAOTOL TETRANITRATE						T	
1624	PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN) WETTED	E						
1625	PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S.		F					
1626	PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE	E					T	
1627	PENTAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 125)							G
1628	PENTAGHLOROPHENOL						T	
1629	PENTAMETHYLHEPTANE	F						
1630	PENTANE						T	
1631	PENTANE-2,4-DIONE	F						
1632	PENTANES, liquid	F						
1633	PENTANONE, 2,4-METHYL						T	
1634	PERACETIC ACID			R	C			
1635	PERADETIC ACID						T	
1636	PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.		O					
1637	PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.		O					
1638	PERCHLORIC ACID				C			
1639	PERCHLOROETHYLENE						T	
1640	PERCHLOROMETHYL MERCAPTAN						T	
1641	PERCHLORYL FLUORIDE							G
1642	PERCUSSION CAPS	E						
1643	PERFLUORO (ETHYL VINYL ETHER)							G
1644	PERFLUORO (METHYL VINYL ETHER)							G
1645	PERMANGANATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.		O					
1646	PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S.		O					
1647	PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S.		O					
1648	PEROXYACETIC ACID						T	
1649	PERSULPHATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.		O					
1650	PERSULPHATES, INORGANIC, N.O.S.		O					
1651	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE N.O.S.						T	
1652	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.	F						
1653	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.						T	
1654	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S.						T	
1655	PETANONE, 2,4,-METHYL	F					T	

1656	PETROLEUM CRUDE OIL	F							
1657	PETROLEUM GASES, LIQUEFIED								G
1658	PHENACYL BROMIDE							T	
1659	PHENETIDINES							T	
1660	PHENOL							T	
1661	PHENOL SOLUTION							T	
1662	PHENOL, MOLTEN							T	
1663	PHENOL, SOLID							T	
1664	PHENOL, 2,2-THIOBIS(4 CHLORO 6 METHYL PHENOL)							T	
1665	PHENOL, 2,2-THIOBIS(4,6-DICHLORO)							T	
1666	PHENOL, 3-(1-METHOL ETHYL)-METHYLCARBONATE							T	
1667	PHENOLSULPHONIC ACID, LIQUID					C			
1668	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	F							
1669	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC							T	
1670	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE							T	
1671	PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC							T	
1672	PHENYL CHLOROFORMATE							T	
1673	PHENYL GLYCIDAL ETHER	F						T	
1674	PHENYL HYDRAZINE HYDROCHLORIDE							T	
1675	PHENYL ISOCYANATE							T	
1676	PHENYL MERCURY ACETATE							T	
1677	PHENYL SILATRANE							T	
1678	PHENYL THIOUREA							T	
1679	PHENYLACETONITRILE, LIQUID							T	
1680	PHENYLACETYL CHLORIDE					C			
1681	PHENYL CARBYLAMINE CHLORIDE							T	
1682	PHENYLENE P-DIAMINE							T	
1683	PHENYLENEDIAMINES							T	
1684	PHENYLHYDRAZINE							T	
1685	PHENYLMERCURIC ACETATE							T	
1686	PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.							T	
1687	PHENYLMERCURIC HYDROXIDE							T	
1688	PHENYLMERCURIC NITRATE							T	
1689	PHENYLMERCURY ACETATE							T	
1690	PHENYLPHOSPHORUS DICHLORIDE					C			
1691	PHENYLPHOSPHORUS THIODICHLORIDE					C			
1692	PHENYLTRICHLOROSILANE					C			
1693	PHORATE							T	
1694	PHOROTHIAC ACID, OO DIMETHYL S-(2-METHYL)							T	
1695	PHOSACETIM							T	
1696	PHOSALONE							T	
1697	PHOSAOETIN							T	
1698	PHOSAZETIN							T	
1699	PHOSFOLAN							T	
1700	PHOSGENE								G
1701	PHOSGENE (CARBONYL CHLORIDE)	F						T	
1702	PHOSMET							T	

1703	PHOSPHAMIDON							T	
1704	PHOSPHINE								G
1705	PHOSPHINE (HYDROGEN PHOSPHIDE)	F						T	
1706	PHOSPHORIC ACID		O			C			
1707	PHOSPHORIC ACID & ESTERS					C		T	
1708	PHOSPHORIC ACID DIMETHYL (4-METHYL THIO) PHENYL							T	
1709	PHOSPHORIC ACID, BROMOETHYL BROMO (2,2-DIMETHYLPROPYL) BROMOETHYL ESTER							T	
1710	PHOSPHORIC ACID, LIQUID / SOLID					C			
1711	PHOSPHOROTHIOIC ETHYL- METHYL ESTER					C			
1712	PHOSPHOROTHIOIC ACID ,METHYL-ETHYL ESTER					C			
1713	PHOSPHOROTHIOIC ACID METHYL(ESTER)					C			
1714	PHOSPHOROUS	F							
1715	PHOSPHOROUS PENTAOXIDE	F	O						
1716	PHOSPHOROUS AND COMPOUNDS	F						T	
1717	PHOSPHOROUS OXYCHLORIDE							T	
1718	PHOSPHOROUS PENTA CHLORIDE							T	
1719	PHOSPHOROUS TRICHLORIDE							T	
1720	PHOSPHORUS ACID					C			
1721	PHOSPHORUS HEPTASULPHIDE	F							
1722	PHOSPHORUS OXYBROMIDE					C			
1723	PHOSPHORUS OXYBROMIDE, MOLTEN					C			
1724	PHOSPHORUS OXYCHLORIDE					C			
1725	PHOSPHORUS PENTABROMIDE					C			
1726	PHOSPHORUS PENTACHLORIDE					C			
1727	PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE, COMPRESSED								G
1728	PHOSPHORUS PENTASULPHIDE	F							
1729	PHOSPHORUS PENTOXIDE					C			
1730	PHOSPHORUS SESQUISULPHIDE	F							
1731	PHOSPHORUS TRIBROMIDE					C			
1732	PHOSPHORUS TRICHLORIDE							T	
1733	PHOSPHORUS TRIOXIDE					C			
1734	PHOSPHORUS TRISULPHIDE	F							
1735	PHOSPHORUS, AMOSPHOUS	F							
1736	PHOSPHORUS, WHITE OR YELLOW, DRY OR UNDER WATER OR IN SOLUTION	F							
1737	PHOSPHORUS, WHITE, MOLTEN	F							
1738	PHTHALIC ANHYDRIDE					C		T	
1739	PHYLLLOQUINONE							T	
1740	PHYSOSTIGNINE							T	
1741	PHYSOSTIGNINE SALICYLATE(1:1)							T	
1742	PICOLINES	F							
1743	PICRIC ACID (2,4,6-TRINITROPHENOL)	E						T	
1744	PINE OIL	F							
1745	PIPERAZINE					C			
1746	PIPERDINE							T	
1747	PIPERIDINE					C			
1748	PLASTICS, NITROCELLULOSE-BASED, SELF-HEATING, N.O.S.	F							
1749	PLATINOUS CHLORIDE							T	
1750	PLATINUM TETRACHLORIDE							T	

1751	P-NITROPHENOL						T	
1752	p-NITROSODIMETHYLANILINE	F						
1753	POLYBROMINATED BIPHENYLS						T	
1754	POLYCHLORINATED BIPHENYLS						T	
1755	POLYESTER RESIN KIT	F						
1756	POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID or POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID						T	
1757	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE	F						
1758	POTASSIUM	F						
1759	POTASSIUM NITRIDE				C			
1760	POTASSIUM PEROXIDE	F			C			
1761	POTASSIUM SILVER CYANIDE						T	
1762	POTASSIUM ARSENATE						T	
1763	POTASSIUM ARSENITE						T	
1764	POTASSIUM BROMATE		O					
1765	POTASSIUM CHLORATE		O					
1766	POTASSIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION		O					
1767	POTASSIUM CUPROCYANIDE						T	
1768	POTASSIUM CYANIDE						T	
1769	POTASSIUM DITHIONITE (POTASSIUM HYDROSULPHITE)	F						
1770	POTASSIUM FLUORIDE						T	
1771	POTASSIUM FLUOROACETATE						T	
1772	POTASSIUM FLUOROSILICATE						T	
1773	POTASSIUM HYDROGEN SULPHATE				C			
1774	POTASSIUM HYDROGENDIFLUORIDE				C			
1775	POTASSIUM HYDROXIDE				C			
1776	POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID				C			
1777	POTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION				C			
1778	POTASSIUM METAVANADATE						T	
1779	POTASSIUM MONOXIDE				C			
1780	POTASSIUM NITRATE		O					
1781	POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRITE MIXTURE		O					
1782	POTASSIUM NITRIDE		O		C			
1783	POTASSIUM NITRITE		O					
1784	POTASSIUM PERCHLORATE		O					
1785	POTASSIUM PERMANGANAE		O					
1786	POTASSIUM PEROXIDE		O					
1787	POTASSIUM PERSULPHATE		O					
1788	POTASSIUM PHOSPHIDE	F						
1789	POTASSIUM SULPHIDE, ANHYDROUS OR POTASSIUM SULPHIDE	F						
1790	POTASSIUM SULPHIDE, HYDRATED				C			
1791	POTASSIUM SUPEROXIDE		O					
1792	POTASSIUM ARSENITE						T	
1793	POWDERED METALS AND MIXTURES						T	
1794	PROMURIT (1-(3, 4-DICHLOROPHENYL)-3 TRIAZENETHIOCARBOXAMIDE)						T	
1795	PROPADIENE, STABILIZED							G
1796	PROPANE							G
1797	PROPANESULTONE-1,3						T	
1798	PROPANETHIOLS	F						

1799	PROPARGYL ALCOHOL							T	
1800	PROPARGYL BROMIDE							T	
1801	PROPEN-1, -2-CHLORO-1, 3,DIOL-DIACETATE							T	
1802	PROPEN-2-CHLORO 1,3-DIOU DIACETATE							T	
1803	PROPHYL ALCOHOL	F							
1804	PROPHYLENE OXIDE			R					
1805	PROPIOLACTONE BETA			R					
1806	PROPIONIC ACID					C			
1807	PROPIONIC ANHYDRIDE					C			
1808	PROPIONITRILE	F						T	
1809	PROPIONITRILE, 3-CHLORO							T	
1810	PROPIONYL CHLORIDE	F							
1811	PROPIOPHENONE, 4-AMINO							T	
1812	PROPYL ACETATE-N	F							
1813	PROPYL CHLORIDE	F							
1814	PROPYL CHLOROFORMATE							T	
1815	PROPYL FORMATES	F							
1816	PROPYLAMINE	F							
1817	PROPYLENE								G
1818	PROPYLENE CHLOROHYDRIN							T	
1819	PROPYLENE DICHLORIDE							T	
1820	PROPYLENE GLYCOL, ALLYETHER							T	
1821	PROPYLENE OXIDE	F							
1822	PROPYLENE TETRAMER	F							
1823	PROPYLENEAMINE							T	
1824	PROPYLENEIMINE, STABILIZED	F							
1825	PROPYLTRICHLOROSILANE					C			
1826	PTASSIUM BOROHYDRIDE	F							
1827	PUINONE								
1828	PYRAZOXON							T	
1829	PYRENE							T	
1830	PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC	F							
1831	PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC							T	
1832	PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE							T	
1833	PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC							T	
1834	PYRIDINE	F						T	
1835	PYRIDINE, 2-METHYL-3-VINYL							T	
1836	PYRIDINE, 4-NITRO 1-OXIDE			O				T	
1837	PYRIMINIL							T	
1838	PYROPHORIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	F							
1839	PYROPHORIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.	F							
1840	PYROPHORIC METAL, N.O.S. OR PYROPHORIC ALLOY, N.O.S.	F							
1841	PYROPHORIC ORGANOMETALLIC COMPOUND, WATER-REACTIVE, N.O.S., LIQUID	F							
1842	PYROPHORIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.	F							
1843	PYROPHORIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.	F							
1844	PYROSULPHURYL CHLORIDE					C			
1845	PYRROLIDINE							T	
1846	QUINALIPHOS							T	

1847	QUINOLINE							T	
1848	QUINONE							T	
1849	RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE						Ra		
1850	RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE						Ra		
1851	RARE GASES AND NITROGEN MIXTURE, COMPRESSED								G
1852	RARE GASES AND OXYGEN MIXTURE, COMPRESSED								G
1853	RARE GASES MIXTURE, COMPRESSED								G
1854	RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS CARTRIDGES)								G
1855	REFRIGERANT GAS R 404A								G
1856	REFRIGERANT GAS R 407A								G
1857	REFRIGERANT GAS R 407B								G
1858	REFRIGERANT GAS R 407C								G
1859	REFRIGERATING MACHINES								G
1860	RESIN SOLUTION		F						
1861	RESORCINOL							T	
1862	RHODIUM TRICHLORIDE							T	
1863	ROCKETS	E							
1864	RUBIDIUM HYDROXIDE					C			
1865	RUBIDIUM HYDROXIDE SOLUTION					C			
1866	SALCOMINE							T	
1867	SARIN							T	
1868	SEED CAKE		F						
1869	SELENATES or SELENITES							T	
1870	SELENIC ACID					C			
1871	SELENIOUS ACID							T	
1872	SELENIUM COMPOUND, N.O.S.							T	
1873	SELENIUM DISULPHIDE							T	
1874	SELENIUM HEXAFLUORIDE							T	G
1875	SELENIUM OXYCHLORIDE					C			
1876	SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE INORGANIC, N.O.S.	F							
1877	SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	F							
1878	SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.O.S.	F							
1879	SELF-HEATING LIQUID, ORGANIC, N.O.S.	F							
1880	SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC N.O.S.	F							
1881	SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.	F							
1882	SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.	F							
1883	SELF-HEATING SOLID, CORRSIVE, INORGANIC, N.O.S.	F							
1884	SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.O.S.	F							
1885	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.	F							
1886	SELF-HEATING SOLID, OXIDIZING, N.O.S.	F							
1887	SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.	F							
1888	SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.	F							
1889	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B	F							
1890	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED	F							
1891	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C	F							

1892	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED	F							
1893	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D	F							
1894	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED	F							
1895	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E	F							
1896	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED	F							
1897	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F	F							
1898	SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED	F							
1899	SELF-REACTIVE SOLID TYPE B	F							
1900	SELF-REACTIVE SOLID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED	F							
1901	SELF-REACTIVE SOLID TYPE C	F							
1902	SELF-REACTIVE SOLID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED	F							
1903	SELF-REACTIVE SOLID TYPE D	F							
1904	SELF-REACTIVE SOLID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED	F							
1905	SELF-REACTIVE SOLID TYPE E	F							
1906	SELF-REACTIVE SOLID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED	F							
1907	SELF-REACTIVE SOLID TYPE F	F							
1908	SELF-REACTIVE SOLID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED	F							
1909	SEMICARBAZIDE HYDROCHLORIDE							T	
1910	SILANE(4-AMINO BUTYL)DIETHOXY-METH							T	
1911	SILANE, COMPRESSED								G
1912	SILICON TETRACHLORIDE				C				
1913	SILICON TETRAFLUORIDE, COMPRESSED								G
1914	SILVER ARSENITE							T	
1915	SILVER CYANIDE							T	
1916	SILVER NITRATE		O						
1917	SILVER PICRATE, WETTED	F							
1918	SLUDGE ACID				C				
1919	SODA LIME				C				
1920	SODIUM	F							
1921	SODIUM HYDROSULPHIDE				C				
1922	SODIUM ACETOXY TRIPHENYL							T	
1923	SODIUM ALUMINATE SOLUTION				C				
1924	SODIUM ALUMINATE, SOLID				C				
1925	SODIUM ALUMINIUM HYDRIDE	F							
1926	SODIUM AMMONIUM VANADATE							T	
1927	SODIUM ANTHRA-QUINONE-1-SULPHONATE							T	
1928	SODIUM ARSANILATE							T	
1929	SODIUM ARSENATE							T	
1930	SODIUM ARSENITE							T	
1931	SODIUM ARSENITE, AQUEOUS SOLUTION							T	
1932	SODIUM ARSENITE, SOLID							T	
1933	SODIUM AZIDE							T	

1934	SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION					C			
1935	SODIUM BROMATE			O					
1936	SODIUM CACODYLATE							T	
1937	SODIUM CHLORATE	E		O	R				
1938	SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION			O					
1939	SODIUM CHLORITE			O					
1940	SODIUM CHLOROACETATE							T	
1941	SODIUM CUPROCYANIDE, SOLID							T	
1942	SODIUM CUPROCYANIDE, SOLUTION							T	
1943	SODIUM CYANIDE							T	
1944	SODIUM DINITRO-O-CRESOLATE	E							
1945	SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE WETTED		F						
1946	SODIUM DITHIONITE (SODIUM HYDROSULPHITE)		F						
1947	SODIUM FLUORIDE							T	
1948	SODIUM FLUOROACETATE							T	
1949	SODIUM FLUORO-ACETATE							T	
1950	SODIUM FLUOROSILICATE							T	
1951	SODIUM HYDRIDE		F						
1952	SODIUM HYDROGENDIFLUORIDE					C			
1953	SODIUM HYDROSULPHIDE		F						
1954	SODIUM HYDROXIDE					C			
1955	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION					C			
1956	SODIUM HYDROXIDE, SOLID					C			
1957	SODIUM METHYLATE		F					T	
1958	SODIUM MONOXIDE					C			
1959	SODIUM NITRATE			O				T	
1960	SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE			O					
1961	SODIUM NITRITE			O					
1962	SODIUM PENTACHLOROPHENATE							T	
1963	SODIUM PENTACHLORO-PHENATE							T	
1964	SODIUM PERCHLORATE			O					
1965	SODIUM PERMANGANATE			O					
1966	SODIUM PEROXIDE			O					
1967	SODIUM PEROXOBORATE, ANHYDROUS			O					
1968	SODIUM PERSULPHATE			O					
1969	SODIUM PHOSPHIDE		F						
1970	SODIUM PICRAMATE	E						T	
1971	SODIUM PICRAMATE, WETTED		F						
1972	SODIUM SELENATE							T	
1973	SODIUM SELENITE							T	
1974	SODIUM SULPHIDE			O		C			
1975	SODIUM SULPHIDE, ANHYDROUS OR SODIUM SULPHIDE		F						
1976	SODIUM SULPHIDE, HYDRATED					C			
1977	SODIUM SUPEROXIDE			O					
1978	SODIUM TELLORITE					C			
1979	SODIUMANTHRA-QUINONE-1-SULPHONATE					C			
1980	SOLIDS CONTAINING CORROSIVE LIQUID, N.O.S.					C			
1981	SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.		F						

1982	SOLIDS CONTAINING TOXIC LIQUID, N.O.S.							T	
1983	SOPROPYL								
1984	STANNANE ACETOXY TRIPHENYL							T	
1985	STANNIC CHLORIDE PENTAHYDRATE					C			
1986	STANNIC CHLORIDE, ANHYDROUS					C			
1987	STANNIC PHOSPHIDES	F							
1988	STIBINE								G
1989	STIBINE (ANTIMONY HYDRIDE)							T	
1990	STRONTIUM ARSENITE							T	
1991	STRONTIUM CHLORATE			O					
1992	STRONTIUM NITRATE			O					
1993	STRONTIUM PERCHLORATE			O					
1994	STRONTIUM PEROXIDE			O					
1995	STRONTIUM PHOSPHIDE	F							
1996	STRYCHNINE or STRYCHNINE SALTS							T	
1997	STRYCHNINE SULPHATE							T	
1998	STYPHINIC ACID (2,4,6-TRINITRORESORCINOL)							T	
1999	STYRENE	F							
2000	STYRENE MONOMER, STABILIZED	F							
2001	STYRENE, 1,1,2, 2-TETRACHLOROETHANE	F						T	
2002	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE,	F							
2003	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC							T	
2004	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE							T	
2005	SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC							T	
2006	SULFOTEP							T	
2007	SULOTEP							T	
2008	SULPHAMIC ACID					C			
2009	SULPHOTEC					C			
2010	SULPHOXIDE, 3-CHLOROPROPYL OCTYL							T	
2011	SULPHUR CHLORIDES					C			
2012	SULPHUR DICHLORIDE							T	
2013	SULPHUR DIOXIDE							T	G
2014	SULPHUR HEXAFLUORIDE								G
2015	SULPHUR MONOCHLORIDE							T	
2016	SULPHUR TETRAFLUORIDE								G
2017	SULPHUR TRIOXIDE					C			
2018	SULPHUR TRIOXIDE, STABILIZED					C			
2019	SULPHUR, MOLTEN	F							
2020	SULPHURIC ACID					C			
2021	SULPHURIC ACID or BATTERY FLUID, ACID					C			
2022	SULPHURIC ACID, FUMING					C			
2023	SULPHURIC ACID, SPENT					C			
2024	SULPHUROUS ACID					C			
2025	SULPHURYL CHLORIDE					C			
2026	SULPHURYL FLUORIDE								G
2027	SULPHURIC ACID					C		T	
2028	TARS, LIQUID	F							
2029	T-CHLORO 1,2,2,2-								G
2030	TEAR GAS CANDLES							T	

2031	TELLURIUM COMPOUND, N.O.S.							T	
2032	TELLURIUM HEXAFLUORIDE							T	G
2033	TELLURIUM HEXAFLURIDE							T	
2034	TELLURIUM(POWDER)							T	
2035	TEPP(TETRAETHYL PYROPHOSPHATE)							T	
2036	TERBUFOS							T	
2037	TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S.	F							
2038	TERPINOLENE	F							
2039	TERT BUTY PEROXYISO-BUTYRATE							T	
2040	TERT BUTYL PEROXY CARBONATE							T	
2041	TERT BUTYL PEROXY ISOPROPYL							T	
2042	TERT BUTYL PEROXYACETATE(CONC>-70%)							T	
2043	TERT-BUTYL ALCOHOL							T	
2044	TERT-BUTYL ANATE							T	
2045	TERT-BUTYL HYPOCHLORITE	F							
2046	TERT-BUTYLCYCLOHEXYL CHLOROFORMATE							T	
2047	TETRA HYDROFURAN	F							
2048	TETRA METHYL LEAD							T	
2049	TETRA NITROMETHANE							T	
2050	TETRABROMOBISPHENOL-A							T	
2051	TETRABROMOETHANE							T	
2052	TETRACHLORO 2, 2, 5, 6, 2, 5-CYCLOHEXADIENE-1, 4-DIONE							T	
2053	TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN,- 2, 3, 7, 8 (TCDD)							T	
2054	TETRACHLOROETHANE							T	
2055	TETRACHLOROETHYLENE							T	
2056	TETRACTYLE LEAD							T	
2057	TETRAETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE							T	
2058	TETRAETHYL LEAD							T	
2059	TETRAETHYL SILICATE	F							
2060	TETRAETHYLENEPENTAMINE					C			
2061	TETRAFLUROETHANE							T	
2062	TETRAFLUROETHYLENE, STABILIZED								G
2063	TETRAFLUROMETHANE COMPRESSED (REFRIGERANT GAS R 14, COMPRESSED)								G
2064	TETRAFLURIETHYNE							T	
2065	TETRAHYDROFURAN	F						T	
2066	TETRAHYDROFURFURYLAMINE	F							
2067	TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDES					C			
2068	TETRAHYDROTHIOPHENE	F							
2069	TETRAMETHYL LEAD							T	
2070	TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE					C			
2071	TETRAMETHYLENE DISULPHOTETRAMINE							T	
2072	TETRAMETHYLSILANE	F							
2073	TETRANITROANILINE	E							
2074	TETRANITROMETHANE			O				T	
2075	TETRAPROPYL ORTHOTITANATE	F							
2076	TETRAZOL-1-ACETIC ACID	E							
2077	THALLIUM AND COMPOUNDS							T	
2078	THALLIUM CARBONATE							T	
2079	THALLIUM CHLORATE			O					

2080	THALLIUM COMPOUND, N.O.S.						T
2081	THALLIUM NITRATE						T
2082	THALLIC OXIDE						T
2083	THALLIUM SULPHATE						T
2084	THALLOUS CHLORIDE						T
2085	THALLOUS MALONATE						T
2086	THALLOUS SULPHATE						T
2087	THINOYL CHLORIDE						T
2088	THIOACETIC ACID	F					
2089	THIOACTIC ACID						T
2090	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE TOXIC	F					
2091	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC						T
2092	THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE						T
2093	THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC						T
2094	THIOCARBAZIDE						T
2095	THIOCYNAMICACID,2-(BENZOTHAZOLYETHIO) METHYL						T
2096	THIOFAMOX						T
2097	THIOGLYCOL						T
2098	THIOGLYCOLIC ACID				C		
2099	THIOMETON						T
2100	THIONAZIN						T
2101	THIONYL CHLORIDE				C		
2102	THIOPHENE	F					
2103	THIOPHENOL						T
2104	THIOPHOSGENE						T
2105	THIOPHOSPHORYL CHLORIDE				C		
2106	THIOSEMICARBAZIDE						T
2107	THIOUREA (2-METHYL PHENYL)				C		
2108	THIOUREA DIOXIDE	F					
2109	THIOUREA(2-CHLORO-PHENYL)				C		
2110	THIOUREA(2-METHYL-1-3-DI-THIOLANE)				C		
2111	THIRAM						T
2112	TIRPATE						T
2113	TIRPATE(2,4-DIMETHYL-1-3-DITHIOLANE)						T
2114	TITANIUM DISULPHIDE	F					
2115	TITANIUM HYDRIDE	F					
2116	TITANIUM POWDER						T
2117	TITANIUM POWER, DRY	F					
2118	TITANIUM SPONGE GRANULES or TITANIUM SPONGE POWDERS	F					
2119	TITANIUM TETRACHLORIDE				C		
2120	TITANIUM TETRA-CHLORIDE						T
2121	TITANIUM TRICHLORIDE, PYROPHORIC or TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE, PYROPHORIC	F					
2122	TITANIUM TRICHLORODE MIXTURE				C		
2123	TOLUENE	F					T
2124	TOLUENE 2, 6-DIISOCYANATE						T
2125	TOLUENE 2,4-DIISOCYANATE						T
2126	TOLUENE DIISOCYANATE						T
2127	TOLUENE-2,-4-DITSOCYNATE						T

2128	TOLUENE-2-4-DIISOCYANATE							T	
2129	TOLUIDINE-O							T	
2130	TOLUIDINES, LIQUID / SOLID							T	
2131	TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.							T	
2132	TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.							T	
2133	TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.							T	
2134	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.							T	
2135	TOXIC LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.							T	
2136	TOXIC LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.							T	
2137	TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.							T	
2138	TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.							T	
2139	TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.							T	
2140	TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.							T	
2141	TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.							T	
2142	TOXIC SOLID, OXIDIZING, N.O.S.							T	
2143	TOXIC SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.							T	
2144	TOXIC SOLID, WATER REACTIVE, N.O.S.							T	
2145	TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID / SOLID N.O.S.							T	
2146	TRANS-1,4-DI CHLORO-BUTENE							T	
2147	TRI NITRO ANISOLE							T	
2148	TRI ORTHOCRESYL PHOSPHATE							T	
2149	TRI(CYCLOHEXYL) METHYLSTANNYL 1,2,4 TRIAZOLE							T	
2150	TRI-1 (CYCLOHEXYL) STANNYL-1-H-1, 2, 4-TRIAZOLE							T	
2151	TRIALLYL BORATE							T	
2152	TRIALLYLAMINE		F						
2153	TRIAMINO, -1, 3, 5, 2, 4, 6-TRINITRO-BENZENE	E						T	
2154	TRIAMINOTRINITROBENZENE							T	
2155	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE TOXIC		F						
2156	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC							T	
2157	TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE							T	
2158	TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC							T	
2159	TRIBROMOPHENOL 2,4,6							T	
2160	TRIBUTYLAMINE							T	
2161	TRIBUTYLPHOSPHANE		F						
2162	TRICHLORO (CHLOROMETHYL) SILANE							T	
2163	TRICHLORO ACETYL CHLORIDE							T	
2164	TRICHLORO CHLOROMETHYL SILANE							T	
2165	TRICHLORO ETHANE							T	
2166	TRICHLORO NAPHTHALENE							T	
2167	TRICHLOROACETIC ACID					C			
2168	TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION					C			
2169	TRICHLOROACETYL CHLORIDE					C			
2170	TRICHLOROBENZENES, LIQUID							T	
2171	TRICHLOROBUTENE							T	
2172	TRICHLORODETHYLENE							T	
2173	TRICHLORODICHLOROPHENYLSILANE							T	
2174	TRICHLOROETHANE, 1,1, -1							T	
2175	TRICHLOROETHYL SILANE							T	
2176	TRICHLOROETHYLENE							T	
2177	TRICHLOROISOCY ANURIC ACID, DRY			O					

2178	TRICHLOROMETHANE SULPHENYL CHLORIDE						T	
2179	TRICHLORONATE						T	
2180	TRICHLOROPHENOL 2,3,6						T	
2181	TRICHLOROPHENOL 2,4,5						T	
2182	TRICHLOROPHENOL, 2, 2, 6						T	
2183	TRICHLOROPHENOL, 2, 4, 5						T	
2184	TRICHLOROPHENYL SILANE						T	
2185	TRICHLOROPHON						T	
2186	TRICHLOROSILANE	F						
2187	TRICRESYL PHOSPHATE							
2188	TRIETHOXY SILANE						T	
2189	TRIETHYL PHOSPHITE	F						
2190	TRIETHYLAMINE	F			C			
2191	TRIETHYLENE MELAMINE						T	
2192	TRIETHYLENETETRAMINE				C			
2193	TRIFLUOROACETIC ACID				C			
2194	TRIFLUOROACETYL CHLORIDE							G
2195	TRIFLUOROMETHANE (REFRIGERANTE GAS R 23)							G
2196	TRIFLUOROMETHANE, REFRIGERATED LIQUID							G
2197	TRISOBUTYLENE	F						
2198	TRIMETHYL BORATE	F						
2199	TRIMETHYL CHLOROSILANE						T	
2200	TRIMETHYL PHOSPHITE	F						
2201	TRIMETHYL PROPANE PHOSPHITE						T	
2202	TRIMETHYL TIN CHLORIDE						T	
2203	TRIMETHYLACETYL CHLORIDE						T	
2204	TRIMETHYLAMINE, ANHYDROUS							G
2205	TRIMETHYLAMINE, AQUEOUS	F						
2206	TRIMETHYLCHLOROSILANE	F						
2207	TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE				C			
2208	TRIMETHYLHEXAMETHYLENE DIISOCYANATE						T	
2209	TRIMETHYLHEXAMETHYLENE-DIAMINES				C			
2210	TRIMETHYLPROPANE PHOSPHITE						T	
2211	TRINITRO ANILINE	E					T	
2212	TRINITRO BENZENE	E						
2213	TRINITRO BENZOIC ACID				C			
2214	TRINITRO -IN-CRESOL				C			
2215	TRINITRO PHENETOLE				C			
2216	TRINITROANILINE						T	
2217	TRINITROANILINE (PICRAMIDE)	E						
2218	TRINITROANISLE,-2,4,6	E					T	
2219	TRINITROANISOLE	E						
2220	TRINITROANISOLE, 2, 2, 4, 6						T	
2221	TRINITROBENZENE	E					T	
2222	TRINITROBENZENE, WETTED	F						
2223	TRINITROBENZENESULPHONIC ACID	E						
2224	TRINITROBENZOIC ACID	E					T	
2225	TRINITROBENZOIC ACID, WETTED	F						
2226	TRINITROCHLOROBENZENE (PICRYL CHLORIDE)	E						
2227	TRINITROCHLOROBENZENE (PICRYL CHLORIDE)	E						

2228	TRINITROCRESOL	E						T	
2229	TRINITROESORENOL, 2, 4, 6 (STYPHNIC ACID)							T	
2230	TRINITROFLUORENONE	E							
2231	TRINITRO-M-CRESOL	E							
2232	TRINITRONAPHTHALENE	E							
2233	TRINITROPHENETOLE	E							
2234	TRINITROPHENETOLE, 2,4,6	E						T	
2235	TRINITROPHENOL, WETTED		F						
2236	TRINITROPHENYLMETHYLNITRAMINE (TETRYL)	E							
2237	TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC ACID)	E							
2238	TRINITRORSORCINOL, -2,4,6(STYPHNIC ACID)	E						T	
2239	TRINITROTOLUENE	E							
2240	TRINITROTOLUENE (TNT)	E							
2241	TRINITROTOLUENE, WETTED		F						
2242	TRIORTHOCRESYL PHOSPHATE							T	
2243	TRIPATE(2,4-DIMETHYL-1,3-DITHIOLANCE)							T	
2244	TRIPHENYL TIN CHLORIDE							T	
2245	TRIPROPYLAMINE		F						
2246	TRIPROPYLENE		F						
2247	TRIS (1-AZIRIDINYL) PHOSPHINE OXIDE SOLUTION							T	
2248	TRIS(2-CHLOROETHYL) AMINE							T	
2249	TRISOPROPYL BORATE		F						
2250	TUNGSTEN HEXAFLUORIDE								G
2251	TURPENTINE		F						
2252	URANIUM AND COMPOUNDS							T	
2253	UREA HYDROGEN PEROXIDE			O					
2254	UREA NITRATE	E							
2255	UREA NITRATE, WETTED		F						
2256	VALERALDEHYDE		F						
2257	VALERYL CHLORIDE					C			
2258	VALINO MYCIN							T	
2259	VANADIUM AND COMPOUNDS							T	
2260	VANADIUM COMPOUND, N.O.S.							T	
2261	VANADIUM OXYTRICHLORIDE					C			
2262	VANADIUM PENTAOXIDE							T	
2263	VANADIUM PENTOXIDE							T	
2264	VANADIUM TETRACHLORIDE					C			
2265	VANADIUM TRICHLORIDE					C			
2266	VANADYL SULPHATE							T	
2267	VINYL ACETATE MONOMER							T	
2268	VINYL BROMIDE							T	
2269	VINYL BROMIDE, STABILIZED								G
2270	VINYL BUTYRATE, STABILIZED		F						
2271	VINYL CHLORIDE	E						T	
2272	VINYL CHLORIDE, STABILIZED								G
2273	VINYL CHLOROACETATE							T	
2274	VINYL FLUORIDE							T	
2275	VINYL ISOBUTYL ETHER, STABILIZED		F						
2276	VINYL METHYL ETHER, STABILIZED								G
2277	VINYL NORBORNENE							T	
2278	VINYL TOLUENE	E						T	

2279	VINYLCYCLOHEXEN DIOXIDE								T	
2280	VINYLENE CHLORIDE								T	
2281	VINYLDENE CHLORIDE, STABILIZED	F								
2282	VINYLPYRIDINES, STABILIZED									
2283	VINYLTOLUENES, STABILIZED	F								
2284	VINYLTRICHLOROSILANE, STABILIZED	F								
2285	VUTYL AMINE TERT								T	
2286	WARFARIN								T	
2287	WARFARIN SODIUM								T	
2288	WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S.	E	F	O	R	C			T	
2289	WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S.	E	F	O	R	C			T	
2290	WHITE ASBESTOS								T	
2291	XANTHATES	F								
2292	XENON, COMPRESSED									G
2293	XENON, REFRIGERATED LIQUID									G
2294	XYLENE	F							T	
2295	XYLENE DICHLORIDE								T	
2296	XYLENES	F								
2297	XYLENOLS								T	
2298	XYLIDINE								T	
2299	XYLIDINES, LIQUID / SOLID								T	
2300	XYLYL BROMIDE								T	
2301	ZINC AMMONIUM NITRITE			O						
2302	ZINC AND COMPOUNDS								T	
2303	ZINC ARSENATE, ZINC ARSENITE OR ZINC ARSENATE AND ZINC ARSENITE MIXTURE								T	
2304	ZINC BROMATE			O						
2305	ZINC CHLORATE			O						
2306	ZINC CHLORIDE SOLUTION					C				
2307	ZINC CYANIDE								T	
2308	ZINC DICHLOROPENTANITRILE								T	
2309	ZINC DITHIONITE (ZINC HYDROSULPHITE)								T	
2310	ZINC FLUOROSILICATE								T	
2311	ZINC PHOSPHIDE	F								
2312	ZINC RESINATE	F								
2313	ZIRCONIUM AND COMPOUNDS	F								
2314	ZIRCONIUM NITRATE			O						
2315	ZIRCONIUM PICRAMATE	E								
2316	ZIRCONIUM POWDER, DRY	F								
2317	ZIRCONIUM SCRAP	F								
2318	ZIRCONIUM TETRACHLORIDE					C				
2319	ZIRCONIUM, DRY	F							T	

[F. No. RT-11036/77/2000-MVL]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were notified *vide* G.S.R. 590(E) dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* G.S.R. 686(E) dated the 20th October, 2004